



Samayik Prakashan

3543, Jatwara, Daryaganj, New Delhi-110002

Tele : 279386

कार्यालय कोश

(अंग्रेजी-हिन्दी)

गोपीनाथ श्रीवास्तव

**A DICTIONARY
OF
OFFICIAL TERMS**

(English-Hindi)

Gopinath Srivastava

Price : Rs. 150.00

Publisher : Jagdish Bharadwaj

SAMAYIK PRAKASHAN

3543, Jatwara, Daryaganj

New Delhi-110002

Edition : Revised & Enlarged, 1986

Printer : Nav Prabhat Printing Press

Balbir Nagar, Shahdara

Delhi-110032

मूल्य : १५०.००

प्रकाशक : जगदीश भारद्वाज

सामयिक प्रकाशन

३५४३ जटवाडा, दरियागंज

नई दिल्ली-११०००२

संस्करण : संशोधित एवं परिवर्द्धित, १९८६

संशोधिकार : सुरक्षित

कलापद्धति : पाली

मुद्रक : नव प्रभात प्रिंटिंग प्रेस

बलबीर नगर, शाहदरा

दिल्ली-११००३२

भूमिका

हिन्दी हमारी राजभाषा है। आज राजभाषा के रूप में परस्पर आदान-प्रदान और अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिन्दी के विकास तथा प्रचार व प्रसार की नितान्त आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा इस दिशा में बहुत कार्य किया गया है, जिसमें शब्द-संकलन, शब्द-संग्रह, पारिभाषिक शब्दावली कोश, प्रशासनिक शब्दावली की पुस्तकें तथा सरकारी कामकाज से सम्बन्धित हिन्दी रूपान्तर सम्मिलित है। कुछ हिन्दी सेवी संस्थाओं और हिन्दी के विद्वानों ने भी समय-समय पर इस दिशा में कार्य करके हिन्दी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

इस प्रकार के प्रशासनिक और कार्यालय साहित्य के क्षेत्र में शब्दकोशों का अपना अलग ही महत्व है। श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव द्वारा तैयार किया गया यह कार्यालय कोश ऐसे ही महत्वपूर्ण साहित्य के उपयोगी शब्दकोशों में से एक है। मुझे इस शब्दकोश की पाण्डुलिपि देखने का अवसर मिला। थी गोपीनाथ श्रीवास्तव ने वड़ परिश्रम से यह शब्दकोश तैयार किया है, जिसमें सरकारी कामकाज में प्रयोग में आने वाले अप्रेजी शब्दों के हिन्दी रूप तथा समानार्थी शब्द दिये गये हैं। दैनिक कार्यों में प्रयुक्त कुछ अप्रेजी वाक्याशों के हिन्दी रूप भी शब्दकोश में सम्मिलित हैं जिससे इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है।

श्रीवास्तव जी को इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है। इन्होंने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग, हिन्दी शब्दावली, सरकारी साहित्य के कोश तथा कार्यालय साहित्य सम्बन्धी कई शब्द-संकलन आदि प्रस्तुत कर सराहनीय कार्य किया है। वैसे तो तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस दिशा में पर्याप्त स्तरीय कार्य किया है, परन्तु अभी भी हिन्दी को अप्रेजी के स्थान पर स्थापित करने तथा दैनिक कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सहायक साहित्य की बड़ी उपयोगिता है। इस दृष्टि से इस कोशप्रयोग का बड़ा महत्व है। यह हिन्दी में काम करने वालों, हिन्दी सेवी संस्थाओं, कार्यालयों, विद्यालयों आदि के लिए सहायक सिद्ध होगा।

मैं लेखक और प्रकाशक को बधाई देते हुए इस पुस्तक की सफलता की कामगारी करता हूँ।¹

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व सर्वोच्च न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यों और सरकारी पत्रब्यवहार में अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त की जाती थी। विभागाध्यक्षों आदि के कार्यालयों में भी अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता था। अब तक देश दासता की कड़ियों से जकड़ा था, विदेशी शासकों की भाषा का राजभाषा के पद पर अधिष्ठापित हीना स्वाभाविक था।

किन्तु सन् १९४७ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् स्थिति बदल गई। यह आवश्यक हो गया कि न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों की भाषा जनता की भाषा हो। संविधान में राजभाषा के पद पर हिन्दी के प्रतिष्ठापित हो जाने से तथा हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों द्वारा हिन्दी राजभाषा घोषित कर देने से समस्त राजकीय कार्यों को देक्तानारी लिपि में लिखित हिन्दी में निष्पादित करना आवश्यक हो गया। ऐसे कोशों की आवश्यकता अनुभव की जाने सभी जो अब तक प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों के उपयुक्त हिन्दी पर्याय मुगमता से उपलब्ध करा सकें।

उपर्युक्त उद्देश्य से अनेक कोश तैयार किये गये। विभिन्न राज्यों में प्रशासन शब्दावलियाँ प्रकाशित की गईं। यद्यपि इन कोशों और शब्दावलियों से हिन्दी में कार्य करने में बहुत-कुछ सहायता मिली, तथापि ये प्रकाशन सर्वथा पूर्ण नहीं थे। इनमें विभिन्न अंग्रेजी पर्यायों के सूक्ष्म भेद नहीं दिये हुए थे और प्रायः एक ही शब्द के विभिन्न पर्याय दिये हुए थे, जो भ्रम उत्पन्न करते थे।

प्रस्तुत कोश में इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, विभिन्न प्रसंगों में प्रयुक्त एक ही अंग्रेजी शब्द के उपयुक्त विभिन्न पर्याय दिये गये हैं, अंग्रेजी वाक्यांशों के भी हिन्दी वाक्याश दिये गये हैं। इससे कोश की उपयोगिता बढ़ गयी है। हिन्दी पर्यायों का चयन इस प्रकार किया गया है कि वे सामान्यतया सभी प्रदेशों को ग्राह्य हों।

शब्दों के चयन में भारत सरकार के शिक्षा-मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पारिभाषिक शब्द-संग्रह से वड़ी सहायता ली गयी है। हम भारत सरकार तथा अन्य प्रादेशिक सरकारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

यदि यह कोश, जैसा कि हम विश्वास करते हैं, हिन्दी प्रेमियों, सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सका, तो हम अपना प्रयास सफल समझेंगे।

FOREWORD

Prior to independence, English language was used in superior courts, viz the High Court and the then Chief Courts. In the Courts of the Board of Revenue as also in those of the Commissioners, all proceedings were conducted and recorded in the English language. All notes and orders in the conduct of departmental business were written in the English language. This was natural as the country was under the rule of the British and English was their language.

Conditions have changed since the independence of the country. Administration in a democratic country cannot be run in a language alien to the people. For the successful running of the administration it is necessary that all governmental activities should be conducted in the language of the people—a language which they can easily understand and write. Hindi is the mother tongue of a very large portion of the Indian population. It has been declared the State language in several States. It has been given a place of pride in the Constitution of India and is the official language of the Union.

To facilitate the conduct of official correspondence in Hindi, several English-Hindi dictionaries and lexicons have been brought out by different States. They have proved of immense help to the Government employees and others. But most of the glossaries suffer from one deficiency or the other. They do not give different shades of meaning in Hindi of English synonyms.

The present dictionary seeks to remove all the deficiencies usually found in other lexicons and gives not only different shades of meanings of English synonyms and phrases commonly met with in official correspondence, but also gives accurate and precise Hindi equivalents of English words used in the conduct of official business and in day-to-day administration of the country.

Hindi equivalents have been selected on an all India basis keeping in view their adoptability by other States. The Consolidated Glossary of Technical Terms published by the Ministry of Education, Government of India, has been freely consulted and used in the

preparation of the present dictionary. My thanks are due to the Government of India and other State Governments.

If this dictionary proves useful to Hindi lovers, Government employees, students and teachers alike, we will consider our labour amply rewarded.

—Gopi Nath Srivastava

द्वितीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

परिवर्द्धित और परिवर्द्धित हृष में यह कोई साटकों के मम्मुद्र प्रम्भुता किया जा रहा है। इसमें न केवल बहुत में मन्द जांड़ दिए गए हैं अपिनु अप्रेजी के बहुत में पर्यायाची गन्द और उनके हिन्दी पर्याय भी दिए गए हैं जिनमें कोइ भी उपयोगिता बहुत बड़ गई है।

पुस्तक में नामान्य प्रयोग के अप्रेजी वापराओंमें के हिन्दी पर्याय भी दे दिए गए हैं।

यह नवीन संस्करण छात्रों, परीक्षार्थियों और कर्मचारियों के लिए समान हृष से उपयोगी मिठ होगा और इसका सर्वेन्द्र स्वागत किया जाएगा इसमें कोई गन्देह नहीं।

—गोपीनाथ श्रीवास्तव

2ND REVISED AND ENLARGED EDITION

This new edition presents a completely revised dictionary. Not only many more words have been added but also many English synonyms with Hindi equivalents have been given. Readers will find in this book synonyms such as Adjournment, Postponement, Prorogue, Suspension; Abdicate, Renounce, Ralinqiush; Irrelevant, Inconsistent, Inadherent; Allegation, Impartement, etc. etc. This dictionary thus enables readers to differentiate between five shades of meanings of synonyms. Its usefulness has increased manifold.

To make this dictionary more useful, Hindi equivalents of English phrases commonly used in offices have been given.

I am sure the revised dictionary will meet all the requirements of the students, examiners and employees and will be widely welcomed.

—Gopi Nath Sri ..

कार्यालय कोश
(अंग्रेजी-हिन्दी)

A DICTIONARY
OF
OFFICIAL TERMS
(English-Hindi)

अंग्रेजी-हिंदी पर्याय

Abandon	परित्याग करना
Abdicate	अधित्याग करना, पद-त्याग, राज्य-त्याग, सिहासन-त्याग करना
Give up	ठोड़ना, त्यागना
Renounce	स्वत्व त्यागना
Relinquish	परित्याग करना/स्वत्व त्यागना
Abandoned cargo	परित्यक्त माल
Abandonment of claim	दावे का परित्याग
Abasement	अवमान
Abate	उपशमन करना, कमी होना
Abatement, plea in	उपशमन अभिवचन
Abatement of action	वाद/कार्य उपशमन
Abatement of rent	भाड़े/किराये में कमी
Abatement of suit	वाद-उपशमन/वाद-समाप्ति
Abater	उपशमक
Abbreviation	संक्षेप; शब्द-संक्षेप
Abbreviations and contractions	संक्षेप और सहजि
Abdicate	अधित्याग करना
Renounce	स्वत्व त्यागना
Relinquish	परित्याग करना
Abdication	राज्य-त्याग, अधित्याग
Abduct	अपनयन करना, भगाना
Kidnap	अपहरण करना
Abet	अवप्रेरित करना, उकसाना
Encourage	प्रोत्ताहित करना
Abetment	अवप्रेरण, अवप्रेरणा, उकसाना
Abeyance	आस्थगन

Adjournment	स्थगन
Postponement	प्रास्त्यगन, रोकना
Prorogue	निलम्बन
Suspension	निलम्बित करना, सत्रावसान करना
Abeyance, in	आस्त्यगित, प्रसुप्त
Abide by	पालन करना
Abide by the rules	नियमों का पालन करना
Ability	योग्यता
Qualification	अहंता
Ability, academic	शैक्षिक योग्यता
Ability, artistic	कलात्मक योग्यता
Ability, constructive	रचनात्मक योग्यता
Ability, general	सामान्य योग्यता
Ability, linguistic	भाषा-योग्यता
Ability, potential	संभाव्य योग्यता
Ability, problem solving	समस्या-समाधान योग्यता
Ab initio	आदितः; आरम्भ से
Able-bodied	समर्पण, हृष्ट-पुष्ट
Abnormal	असामान्य
Abnormal circumstances	असामान्य परिस्थितियाँ
Abode	आवास
Habitation	वास
Residence	निवास
Abolish	अन्त करना, समाप्त करना (प्रथा, दीति); उन्मूलन करना (जमीदारी); तोड़ना (पद)
Abolition of post	पद समाप्त करना, तोड़ना
Abolition, titles	उपाधियों का अन्त
Abolition, untouchability	अस्पृश्यता का अन्त / निर्मूलन
Aboriginal	आदिवासी
Abortion	गर्भमाव; अवधन
Abortive trial	निष्फल विचारण, विचार
Above cited	कपर दिया हुआ, उपरि उद्धृत
Above mentioned	उपर्युक्तिवाचित
Above noted	उपर्युक्त

Above par	अधिक मूल्य पर, अधिमूल्य पर
Abreast	के बराबर
Abrogate	निराकरण करना
Abrogation of order	आदेश का निराकरण
Abseond	फरार होना
Absconding offender	फरार अपराधी
Absence	अनुपस्थिति, अभाव
Alibi	अन्यथता (विधि)
Absence of mind	अन्यमनस्कता
Absentee	अनुपस्थित
Absentee landlord	दूरस्थ जमींदार
Absentees and deserters	अनुपस्थित और भगोड़े
Absent minded	अन्यमनस्क, विमनस्क
Absolute	पूर्ण, परम, निरपेक्ष, निरंकुश
Absolute acceptance	पूर्ण स्वीकृति
Absolute and unconditional	सम्पूर्ण और बिना शर्त के
Absolute authority	परम प्राधिकारी/पूर्ण प्राधिकार
Absolute contract	निरपेक्ष संविदा
Absolute conviction	पूर्ण विश्वास, दृढ़ धारणा
Absolute monarch	निरंकुश शासक
Absolute monopoly	पूर्ण एकाधिकार
Absolute ownership	पूर्ण स्वामित्व
Absolved	विमुक्त
Absorb	खोले लेना, ले लेना, समाविष्ट करना, संविलीन करना
Abstain	पुरहज करना, बचाये रखना
Abstention	परहेज
Abstinence	दूषभोग स्थगन, परहेज
Abstract	सार, सारांश
Summary	संक्षेप
Abstract of estimate	प्रावक्कलन-सार, संक्षिप्त प्रावक्कलन
Abstract term	अमूर्त पद
Abstract thinking	अमूर्त चिन्तन
Absurd	अर्थहीन, अनर्गत, अद्युक्त
Irrelevant	अप्रास्ताविक, अप्रासंगिक

Inconsistent	असंगत
Incoherent	असम्बद्ध
Absurd statement	अयुक्त/अर्थहीन कथन
Abundant	प्रचुर
Abundant proof	प्रचुर प्रमाण
Abuse	दुरुपयोग; अपशब्द, गाती
Misuse	दुष्प्रयोग
Abuse of discretion	विवेक का दुरुपयोग
Abuse of law	कानून का दुरुपयोग
Abuse of official position	सरकारी पद का दुरुपयोग
Abuse of trust	अमानन/न्यास का दुरुपयोग
Academic	शैक्षिक, विद्या-सम्बन्धी
Academic Council	विद्या-परिषद्
Academic experience and attainments	शैक्षिक अनुभव और निष्पत्तियाँ/उपलब्धियाँ
Academic qualification	शैक्षिक अर्हता
Academic record	शैक्षिक वृत्त
Academy	अकादमी
Accede	मान लेना, अधिमिलन, शामिल होना
Accelerate	बढ़ाना, त्वरणित करना
Accelerate promotion	त्वरित पदोन्नति
Accent	लहजा
Accept	स्वीकार करना, मानना
Acceptable	स्वीकार्य
Admissible	आद्य
Acceptance	स्वीकृति, सकार
Acknowledgement	पावती, प्राप्ति-स्वीकार, अंगीकरण
Acceptance, conditional	साप्रतिबन्ध स्वीकृति
Acceptance, non	अस्वीकृति
Acceptance, qualified	शर्ती स्वीकृति
Acceptance of office	पद-स्वीकृति
Acceptance of tender	निविदा की स्वीकृति
Access	पहुँच, प्रवेश
Access, to have	पहुँच होना
Accession	अधिमिलन, शामिल होना (as of a state); राज्यारोहण (as of a king)

Accession on register	अवाप्ति पंजी
Accession to office	पदारोहण
Accessory	अतिरिक्त, उपसहायक
Accessory material	सहायक सामग्री
Accident, Calamity	संयोग, दुर्घटना
Accident inevitable	आपदा, दैवी विपत्ति
Accident and casualty	अपरिहार्य दुर्घटना
Accidental	दुर्घटना और अभिधात
Accidental error	आकस्मिक
Acclamation	आकस्मिक ब्रूटि
Acclamatisation	साधुवाद, समाभिनन्दन
Accommodation	परिस्थिति-अनुकूलन
Accommodation reservation of railway	आवास, स्थान, समायोजन रेलों में स्थान का आरक्षण
Accompanying letter	साथ का पत्र, सहपत्र
Accomplice	सह-अपराधी, सहापराधी
Companion	साथी
Partner	सहभागी
Accord	देना, प्रदान करना
Accord priority	प्राथमिकता देना
Accordingly	तदनुसार
According to	के अनुसार
According to law	कानून/विधि के अनुसार, यथाविधि
According to merits	योग्यतानुसार, गुणानुसार
According to order	आदेशानुसार
According to seniority	प्रवरतानुसार, ज्येष्ठतानुसार
Account	लेखा-हिसाब, खाता
Account capital and revenue	पूँजीगत और राजस्व लेखा
Account, current	चासू खाता
Accountant	लेखाकार
Accountant general	महालेखाकार
Account for	उत्तरदायी होना, लेखा देना
Accredit	प्रत्यायित करना
Accreditation	प्रत्यायन, प्रत्यय-पत्र देना
Accredited	प्रत्यायित

Accredited correspondent	प्रत्यायित संवाददाता
Accredited diplomat	प्रत्यायित राजनयिक
Accrue	जमा होना, निकलना
Accrued	उपचित, संभूत
Accrued interest	संभूत व्याज
Accumulate	संचय करना/होना
Accumulated	संचित
Accumulated surplus	संचित अतिरेक
Accuracy	यथार्थता, परिणुदता
Accurate	परिशुद्ध, ठीक-ठीक
Correct	शुद्ध
Exact	यथार्थ
Precise	सुव्यवत, सुतथ्य
Accuracy relative	मापेक्ष यथार्थता/परिणुदता
Accuracy test	परिणुदता-परीक्षण
Accurately	यथार्थतः
Accusation	अभियोग, दोषारोपण
Allegation	आग्रोप, मिथ्याभियोग
Impeachment	महाभियोग, अभिशंसन
Imputation	अभ्यारोप, लालन
Accused	अभियुक्त
Accused accomplice	अभियुक्त सह-अपराधी
Accuser	अभियोक्ता
Achievement	लक्ष्य, निष्पत्ति
Achievement, academic	शैक्षिक लक्ष्य/निष्पत्ति
Acknowledege	स्वीकार करना, प्राप्ति-स्वीकार करना, पावती देना
Acknowledgement	प्राप्ति-मूलना, पावती
Acknowledgement due	रसीदी पावती, प्राप्य स्वीकृति
Acquaint	परिचित करना
Apprise	अभिसूचित करना
Inform	सूचित करना
Acquire	अर्जित करना, ले लेना
Acquire land	मूमि अर्जित करना
Acquired character	अर्जित/उपार्जित लक्षण

Acquired immunity	अजित प्रतिरक्षा
Acquisition	अजेंन, अध्याप्ति
Requisition	अधियाचन, अपेक्षण
Acquisition of citizenship	नागरिकता का अजेन्
Acquisition of land	भूमि-अजेन
Acquit	विमुक्त करना
Release	छोड़ना
Liberate	मुक्त करना
Discharge	उम्मुक्त करना
Acquittance	निस्तारण
Acquittance register	निस्तारण पंजी, रसीदी रजिस्टर
Acquittance roll	वेतन-चिट्ठा
Acquitted honourably	ससम्मान दोषमुक्त
Act	कार्य; अधिनियम
Bill	विधेयक
Act of misconduct	अवचार, कदाचार
Act, private	अमार्वंजनिक/निजी कार्य
Act, public	सार्वजनिक कार्य
Acting	कार्यवाहक, कार्यकारी
Acting allowance	कार्यवाहक भत्ता
Acting appointment	कार्यवाहक नियुक्ति
Acting in his discretion	अपने विवेक से कार्य करते हुए
Acting in good faith	सद्भाव से कार्य करने हुए
Acting in official capacity	आधिकारिक हँसियत/रूप से कार्य करते हुए
Acting rank	कार्यवाहक ओहदा
Acting substantive rank	कार्यवाहक स्थायी ओहदा
Action	कारंवाई, कार्य, संघात
Battle	संग्राम
Combat	द्वन्द्व, संघोधन
Conflict	संघय
Contest	प्रतियोगिता; प्रतिशब्द
Fight	लडाई
Skirmish	सड़प
Action, civil	दीदारी दांड़ारी, आरेकाई

Action, criminal	फोजदारी कायंवाही/कारंवाईः
Action, line of	कायं-दिशा
Action, penal	दण्डाभियोग
Action preventive	निवारक कायंवाही/कारंवाईः
Action and reaction	क्रिया-प्रतिक्रिया
Action, remedial	उपचार कायंवाही/कारंवाईः
Action, subject of	वाद-विषय
Actionable	कार्ययोग्य, व्यवहार्य
Active	सक्रिय
Active consideration	सक्रिय विचार
Active constituent	सक्रिय घटक/अवयव
Active list	सक्रिय सेना-सूची, सामरिक सूची- कर्तव्यस्थ-सूची
Active partner	सक्रिय भागी, सक्रिय साझेदार
Active service	सामरिक सेवा, सक्रिय सेवा
Activities	क्रियाकलाप, क्रियाएं, कायंवाहीय
Activities development	विकासात्मक क्रियाकलाप
Acts	कृत्य, कार्य
Acts of commission and omission	कृता/कृत
Acts, short of war	युद्धासन्न कृत्य
Actual	वास्तविक
Actual cost	वास्तविक लागत
Adapt	अनुकूलन, अनुकूल करना
Adopt	महण करना; गोद लेना
Adaptable	अनुकूलनीय
Addendum and corrigendum	अनुपूरक और शुद्धिभन्न
Addendum	जोड़-पत्र
Annexure	नस्ती
Appendix	परिशिल्प
Schedule	अनुसूची
Enclosure	सहपत्र, संलग्नक
Addict	आसवत्, व्यसनी
Additional	अतिरिक्त
Supplementary	अनुपूरक
Additional assessment	अतिरिक्त कर-निधारण

Additional benefit	अतिरिक्त लाभ
Additional charge	अतिरिक्त प्रभार
Additional cover	अतिरिक्त रक्षावरण
Additional facility	अतिरिक्त सुविधा
Additional functions	अतिरिक्त कृत्य, अतिरिक्त कार्यालय
Additional grant	अतिरिक्त अनुदान
Additional pay	अतिरिक्त वेतन
Additional remark	अतिरिक्त अभ्युक्ति/कैफियत
Additional remuneration	अतिरिक्त पारिश्रमिक
Additions and alterations	परिवर्तन-परिवर्धन
Address	अभिभाषण, पता
Address, abbreviated	संक्षिप्त पता
Address of Governor	राज्यपाल का अभिभाषण
Address of welcome	स्वागत भाषण, अभिनन्दन-पत्र
Adhoc	तदर्थ
Adhoc requirement	तदर्थ आवश्यकता
Adjacent	निकटवर्ती, आसन्न
Adjoining	आसन्न, निकटस्थ
Adjoining territory	निकटस्थ प्रदेश/क्षेत्र
Adjourn	स्थगित करना, रोकना
Adjourn sine die	विनाधिस्थि स्थगित, अनिश्चित काल के लिए स्थगित
Adjournment	स्थगन
Postponement	आस्थगन
Adjournment motion	स्थगन प्रस्ताव
Adjudge	विनिर्णय करना, न्याय-निर्णय करना
Adjudicate	न्याय-निर्णय करना, अधिनिर्णय करना
Adjudication	न्याय-निर्णय, अधिनिर्णय
Arbitration	पंचनिर्णय विवाचन
Decision	निर्णय विनिश्चय
Conciliation	संराधना
Adjudication, order of	न्याय-निर्णय आदेश, अधिनिर्णय आदेश
Adjudicator	न्याय-निर्णयिक, अधिनिर्णयिक
Arbitrator	पंच-निर्णयिक
Mediator	भूष्यम्

Adjust	समायोजन करना, समंजित करना
Adjust amount	रक्षय समायोजित करना
Adjust provisionally	अनन्तिम रूप से समंजित / समायोजित करना
Adjustment of account	लेखा-समंजन, समायोजन
Adjustment of time	काल-स्थापन
Administrator	प्रशासन करना, दिलाना, देना
Administrator's oath	शपथ दिलाना
Administration	प्रशासन
Rule	शासन
Administration general	सामान्य प्रशासन
Administration of justice	न्याय प्रशासन
Administrative	प्रशासनिक, प्रशासकीय, प्रशासन-सम्बन्धी
Administrative approval	प्रशासनिक अनुमोदन
Administrative area	प्रशासन क्षेत्र
Administrative arrangement	प्रशासनिक प्रबन्ध
Administrative charge	प्रशासन-भार
Administrative control	प्रशासकीय नियंत्रण
Administrative convenience	प्रशासनिक सुविधा
Administrative expenses	प्रशासन-ध्यय
Administrative head	प्रशासन प्रधान
Administrative machinery	प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासी व्यवस्था
Administrative order	प्रशासनिक आदेश
Administrative power	प्रशासन-शक्ति, प्रशासन-अधिकार
Administrative sanction	प्रशासन-स्वीकृति
Administrative service	प्रशासनिक सेवा
Administrative set-up	प्रशासनिक ढाँचा/व्यवस्था
Administrative staff	प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग
Administrative system	प्रशासन पद्धति
Administrative technique	प्रशासन-तकनीक
Admissible	ग्राह्य, स्वीकार्य
Admissible evidence	ग्राह्य साक्ष्य
Admissible in proof	प्रमाण के लिए ग्राह्य
Admissible under rules	नियमानुसार स्वीकार्य

Admissibiliy question	प्रश्न-ग्राह्यता
Admission	प्रवेश; स्वीकृति
Admission fee	प्रवेश-शुल्क
Admission selective	चयनात्मक प्रवेश
Admission with permission	सानुमति प्रवेश
Admitted	गृहीत
Admitted in evidence	साक्ष्य में गृहीत
Admonish	भर्त्सना करना
Warn	चेतावनी देना, प्रबोधन करना
Adolescent	किशोर
Adolescent education	किशोर-शिक्षा
Adolescent stage	पूर्व पदावस्था
Adopt	मानना, अपनाना, दत्तक ग्रहण करना
Adoption	अगीकार किया जाना, दत्तक-ग्रहण
Adaptation	अनुकूलन
Adoption home	द्वारक घृह
Adoption of	का अगीकार किया जाना
Adoration	आराधना
Adult	वयस्क, प्रोढ, बालिग
Adult education	प्रोढ शिक्षा
Adult franchise	वयस्क मताधिकार, बालिग मताधिकार
Ad valorem	व्याप्तमूल्य
Advance	व्यक्त करना (as of opinion) अग्रिम धनराशि, पेशगी
Earnest money	सत्यकार, व्यापाना, शुचिद्रव्य
Advance copy	अग्रिम प्रति
Advance increment	अग्रिम वेतन वृद्धि, अग्रिम बढ़ोतरी
Advance permanent	स्थायी पेशगी/अग्रिम
Advantage	लाभ
Advantageous	लाभप्रद, लाभकर
Beneficial	हितकर
Useful	उपयोगी
Adventitious	अस्थानिक
Adventitious root	अस्थानिक जड़
Adversary	प्रतिपक्षी
Rival	प्रतिद्वंदी, उत्तरोद्धी

Adverse	प्रतिकूल
Opposed	विरुद्ध, विपरीत
Hostile	द्वेषपूर्ण, शत्रुतापूर्ण
Adverse comment	प्रतिकूल टिप्पणी
Adverse effect	प्रतिकूल प्रभाव
Adverse entry	प्रतिकूल प्रविद्धि/इन्दराज
Adverse party	प्रतिकूल पक्ष
Adverse remark	प्रतिकूल अम्भुक्षित/कथन
Advertise	विज्ञापित करना
Advertisement	विज्ञापन
Advertising material	विज्ञापन-सामग्री
Advice	परामर्श, सलाह, मन्त्रणा
Consultation	मशविरा, विमर्श
Suggestion	सुझाव
Advice to take	सलाह लेना, मन्त्रणा करना, परामर्श करना
Advice note	संज्ञापन-पत्र, सूचना-पत्र
Advice of Court	न्यायालय मन्त्रणा
Advice of despatch	प्रेषण-सूचना ।
Advice of payment	भुगतान-सूचना
Advisability	बोचित्य
Advisor	परामर्शदाता/सलाहकार, मन्त्रज
Consultant	परामर्शद
Advisory	परामर्शी/सलाहकार
Advisory board	सलाहकार बोर्ड
Advisory commission	परामर्शी आयोग
Advisory committee	सलाहकार समिति
Advisory council	मन्त्रणा-परिषद्
Advocacy	पक्षपोषण, वकालत
Advocate	अधिवक्ता
Affairs	मामले, कार्य
Affairs of the state	राज्य के कार्य/मामले
Affairs-settlement of	मामले का निपटारा
Affect	प्रभाव पड़ना
Affect prejudicially	प्रतिकूल प्रभाव डालना
Affidavit	शपथ-पत्र, हस्तक्षेपनामा

Deposition	अभिसाक्ष्य
Oath	शपथ
Affiliate	सम्बद्ध करना
Affinity	बन्धुता, निकटता, सजातीयता
Affirm	प्रतिज्ञान करना, पुष्ट करना
Affirm the decision	निर्णय की अभिपुष्टि
Affirmation	प्रतिज्ञान, अभिपुष्टि, अभिवचन
Corroboration	समर्थन, संपुष्टि
Affirmation solemn	सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा
Affirmative	स्वीकारात्मक
Afforestation	वनरोपण
After care	अनुरक्षण
After-life	मरणोत्तर जीवन
After-thought	पुनरश्च विचार
Against	घिलाफ, विरुद्ध
Against public interest	लोकहित के खिलाफ/विरुद्ध
Age	आयु, वयस; युग
Age exemption	वयम्/आयु सम्बन्धी छूट, वयस छूट
Age, historic	ऐतिहासिक युग
Age, iron	लौह युग
Age, normal	सामान्य आयु
Age, optimum	इष्टतम् आयु
Age superannuation	सेवानिवृत्ति-वयस
Agency	अभिकरण
Agenda	कार्य-मूली
Agent	अभिकर्ता, एजेंट
Aggravate	विगड़ देना, बढ़ाना
Aggregate	कुल, समग्र
Aggregate load	समग्र भार
Aggregate punishment	कुल दण्ड
Aggregate value	कुल मूल्य
Aggression	आक्रमण, हमला
Aggressive	आक्रमणरार्थी
Aggressor	आक्रमणकर्ता
Aggrieved	असन्तुष्ट, दिन, दीदिल

Agitation	आन्दोलन
Agree	सहमत होना, राजी होना
Agreeable	रुचिकर, स्वीकार्य
Agreed	सहमत, सम्मत
Agreed to, in principle	सिद्धांतः सहमत
Agreed scheme	सम्मत योजना
Agreement	करारनामा; रजामन्दी, प्रतिशापन, सहमति
Bond	बंध
Contract	समिदा, अनुबंध, ठेका
Agriculture	कृषि
Agriculture holding	जोत-क्षेत्र
Agronomy	सस्य विज्ञान
Aid	सहायता, मदद, सहायक साधन
Aid audio	थ्रव्य साधन
Aid audio visual	दृष्टि-थ्रव्य साधन
Aid first	प्रायमिक उपचार
Aid, grant in	अनुदान
Aid military	सैनिक सहायता
Aid-e-camp	परिसहायक
Aided school	सहायता प्राप्त स्कूल/विद्यालय
Aim	लक्ष्य, दैयेय
Object	उद्देश्य
Purpose	प्रयोजन
Aim to be attained	साध्य लक्ष्य
Air borne	विमान/वायु-वाहित
Air forces	विमान-वाहित सेना
Air conditioned	वातानुकूलित
Air cooled	वायु-शीतित
Air defence	हवाई रक्षा
Air mail	हवाई डाक
Air mail route	हवाई डाक मार्ग
Air tight	हवा बंद, वायुरुद्ध
Air way	वायु मार्ग
Air worthiness	उड़न योग्यता
Air worthy	उड़न योग्य

Alarm	घतरा, संकट
Alarm chain	घतरे की जंजोर
Alarm signal	घतरा-संकेत
Alien	अन्यदेशीय, विदेशी
Alienate	मन्त्रनय करना
Alienation of land	भूमि-मन्त्रनय
Transfer	हस्तांतरण
Alignment	मरेखन कीच, लिंग-विनाप
Alimony	निर्वाच इन
All-embracing	सर्व सम्बद्ध
All-inclusive	सर्व अपूर्ण, सर्व विवरणी
All out effort	समर्पण तृष्णा
All-round	सर्वकान्तिक
Allege	उल्लेख करना, आरोपित करना
Allegation	उल्लेख, आरोपित करना
Accusation	आरोपित करना
Alleged	उल्लेख
Alleged disparity	उल्लेख विवरण
Alleged misconduct	उल्लेख उल्लंघन
Allegiance	लिंग
Loyalty	समर्पण, उल्लेख
Patriotism	संरक्षण
Allegiance, oath of	लिंग
Alliance	लिंग
Alliance, defensive	लिंग
Alliance, subsidiary	लिंग लिंग
Allied	लिंग
Allied and associated	लिंग
Allied nations	लिंग लिंग लिंग
Allied services	लिंग लिंग, लिंग लिंग
Allies	लिंग लिंग
Allocate	लिंग
Allocated	लिंग, लिंग लिंग
Allocation	लिंग लिंग, लिंग लिंग
Allotment	लिंग, लिंग

Apportionment	प्रविभाजन, अनुपात विभाजन
Distribution	वितरण
Allocation of duties	काम का वटवारा/विभाजन
Allocation of expenses	खर्च का विभाजन
Allot	दाटना, नियत करना
Allotment	नियतन, वटन, प्रदिव्यि
Allotment of funds	निधि नियतन, निधि प्रदिव्यि
Allotment order	नियतन-आदेश, प्रदिव्यि आदेश
Allowance	कमी, बट्टा, भत्ता
Remission	परिहार, छूट
Allowance, city	नगर भत्ता
Allowance, compassionate	अनुकम्पा भत्ता
Allowance, compensatory	पूरक भत्ता
Allowance for weather	मौसम का ध्यान
Allowed	अनुमत
All-out effort	शक्ति भर प्रयत्न
All ranks	सर्व सेनिक
All rights reserved	सर्वाधिकार रक्षित/सुरक्षित
All risks	कुल जोखिय
All-round defence	चौंतरफा बचाव, चतुमुँखी सुरक्षा
ll-rounder	सर्वकुशल
Alphabetical list	वर्णक्रम मूच्छी
Alteration	परिवर्तन, अदल-बदल
Modification	परिमार्जन, परिष्कार करना
Amendment	संशोधन
Alteration material	मारवत्/तात्त्विक परिवर्तन
Alternate	द्वैकल्पिक, दूसरा
Alternate arrangement	दूसरा प्रबन्ध
Alternate delegate	एवजी प्रतिनिधि
Alternation	एकात्तरण/क्रमात्तरण
Alternation of generations	पीढ़ी एकात्तरण
Alternative	द्वैकल्पिक
Alternative route	द्वैकल्पिक मार्ग
Alternatively	विकल्पतः
Ambassador	राजदूत

Ambiguous	सदिग्धार्थक, उभयार्थक
Equivocal	द्व्यर्थ वक्र
Vague	अस्पष्ट
Incoherent	असम्बद्ध
Ambiguity	सदिग्धता, अनेकार्थता
Ambition	महत्त्वाकांक्षा
Amend	संशोधन करना
Correct	शोधन करना, ठीक करना
Modify	परिव्याख्या करना
Rectify	परिशोधन करना
Reform	सुधार करना
Revise	पुनरीक्षण करना
Amendable	संशोधनीय
Amending act	सशोधी अधिनियम
Amending bill	सशोधी विधेयक
Amends	प्रतिकार
Compensation	प्रतिकार, क्षतिपूर्ति
Amenities	सुख-सुविधा, सुख-साधन, सुविधाएँ
Amnesty	समा घोषणा, सर्वक्षमा
Pardon	समा!, राजक्षमा
Amplification	परिवर्धन
Amplitude	आयाम
Analogy	अनुरूपता
Analysis	विश्लेषण
Ancestral	पैतृक
Hereditary	वंशानुगत; पैतृक; पुरुषीनी
Ancestral land	पैतृक भूमि
Ancient	प्राचीन
Ancient monument	प्राचीन स्मारक
Ancient writings	प्राचीन लेख
Ancillary	अनुपगी, सहायक
Ancillary service	अनुपगी व्यवस्था/सेवा
Anecdote	उपाख्यान
Annex	अनुबद्ध करना, नत्यो करना, मिला लेना
Annexe	उप-मवन

Annexed territory	अनुबंध भू-भाग/प्रदेश
Anniversary	जयन्ती, यर्थ-दिन
Announce	ऐलान करना, आष्ट्रापित करना
Announcement	ऐलान, आष्ट्रापन
Broadcast	प्रसारण
Declaration	घोषणा
Proclamation	उद्घोषणा
Announcement, advance	पूर्व नूचना
Annual	वार्षिक
Annual return	वार्षिक विवरण
Annual verification	वार्षिक सत्यापन
Annuity	वार्षिकी
Annul	अभिशूल्य करना
Cancel	रद्द करना, काटना
Repeal	निरस्त करना
Revoke	वापस लेना
Rescind	विखंडित करना
Anomalous	असम्मत
Anomaly	असंगति
Answerable	उत्तरदायी, उत्तरदेय
Antagonist	प्रतिद्वन्द्वी, विरोधी, शमु
Antecedents	पूर्ववृत्त, प्राम्बृत
Antedated	पूर्वदिनाकित
Anti-air-gun	हवामार तोप
Anticipated	प्रत्याशित
Antidote	विधूर, प्रतिकारक
Apparent	प्रत्यक्ष, आभासी
Apparent weight	आभासी भार
Appeal	अपील, अनुरोध
Appealable	अपीलीय/अपील योग्य
Appear	उपस्थित होना
Appeasement	तुष्टीकरण, तोप
Appellant	अपीलकर्ता
Appendix	परिशिष्ट
Applicable	नागू, प्रयोज्य

Applicability	प्रयोज्यता
Applicant	आवेदक
Petitioner	याची, प्रार्थी
Application	आवेदन-पत्र; प्रयोग
Petition	याचिका
Representation	अस्थावेदन
Applied	व्यावहारिक, प्रयुक्त
Applied force	प्रयुक्त बल
Apply	सागू करना; प्रयोग करना
Appoint	नियुक्त करना
Appointment	नियुक्ति; समय नियतन
Nomination	मनोनयन
Cooptation	आमेलन
Apportion	प्रभाजित करना, सानुपात विभाज करना
Apportionment	सानुपात विभाजन
Apportionment of profits	लाभ-विभाजन, प्रभाजन
Appraisal	अंकना, मूल्य-निर्धारण, कूटना
Appreciation	मूल्य-वृद्धि, गुण-दोष विवेचन
Apprehend	आशका करना, पकड़ना
Apprentice	शिशिक्षा, शामिद्द, शिक्षमाण, पदशिक्षार्थी
Pupil	शिष्य
Candidate	उम्मीदवार
Petitioner	आवेदक; फरियादी प्रार्थी
Approach	पहुँच, उपागम
Approach, educational	शैक्षिक उपागम
Approval	अनुमोदन
Appropriate	विनियोग करना, समुचित
Appropriate action	समुचित कायंवाही, कारंवाई
Approval	अनुमोदन
Assent	अनुमति
Consent	सम्मति
Concurrence	सहमति
Approved	अनुमोदित
Approved service	अनुमोदित सेवा

Arrested movement	अवरुद्ध गति
Arrested vessel	बन्दी पोत
Art and architecture	कला और वास्तु-शिल्प
Art and craft	कला और शिल्प
Article	अनुच्छेद; वस्तु, पदार्थ
Commodity	क्रय वस्तु
Merchandise	वाणिज्य द्रव्य
Ware	भाण्ड
Goods	माल, सामग्री
Articles (of an association)	अन्तर्नियम
Articles issued	निर्गत वस्तुएँ
Articles of war	युद्ध नियमावली
Artificial	बनावटी, कृत्रिम
Artillery	तोपखाना
Artisan	दस्तकार, शिल्पी
Ascertain	निश्चित रूप से जानना
Ascertained facts	सुनिश्चित तथ्य
Aspect	पहलू
Aspect objective	वस्तु-पक्ष
As per	के अनुरूप
Assail	अभ्याक्रमण करना
Assault	हमला, प्रहार
Assent	अनुमति, सहमति
Assertion	दृढीकृत, दृढ़ कथन; प्रति पादन
Assess	कर-निधारण करना
Assessing authority	कर-निधारण-प्राधिकारी
Assessment	कर-निधारण
Levy	अभिनिधारण
Asset	परिसम्पत्ति
Assign	सौंपना, अभ्यर्पित करना
Assignment	निदिष्ट कार्य; अभ्यर्पण
Assumption	प्रहण, पूर्व-अनुमान, पूर्वानुमान
Assumption of charge	भार-प्रहण
Atonement	प्राप्तिश्चित

Authority, express	व्यक्त प्राधिकार
Authority, implied	निहित प्राधिकार, अव्यक्त प्राधिकार
Authority letter	प्राधिकार पत्र
Autocratic	निरकृश, तानाशाह, स्वेच्छाचारी
Auxiliary	सहायक, गोण
Avail	उपयोग करना
Avarice	लोभ
Avenue	वृक्षबीथि, बीथि
Aver	साप्रह कथन
Average	औसत, माध्य, सामान्य
Average life period	औसत जीवन-काल
Avoidance of tax	कर-परिहार
Avoidable	परिहार्य
Award	पत्रनिर्णय, निर्णय; इनाम
Awareness	चेतना, जागरूकता

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Abandonment of claim	दावे का परित्याग, दावा छोड़ना
Abatement (abatement of suit)	अवसान
Abnormal circumstances	वादावसान, वाद समाप्ति
Abolition of post	असामान्य परिस्थितियाँ
Above cited/quoted	पदोन्त्सादन, पद का तोड़ा जाना
Above mentioned	उपरि उद्धृत, ऊपर दिया हुआ
Above said	उपर्युलिखित, ऊपर लिखा हुआ
Abridge (to abridge the rights)	उपर्युक्त
Abrogation of orders	न्यून करना, कम करना
Absolute discretion	अधिकारों को कम करना
Absolute monopoly	आदेशों का निराकरण
Absolute priority	परम विवेक, पूर्ण विवेक
	पूर्ण/परम एकाधिकार
	परम पूर्वता

Absolutely necessary	परमावश्यक, बहुत ज़रूरी
Abstract statement of	निर्विति/विस्तारित प्रकरणों का संक्षिप्त
Cases disposed of	विवरण
Abundant proof	प्रबुर प्रमाण
Abuse of law	विधि दुष्प्रयोग, कानून का वेजा इत्तेश्वल
Abuse of official position	सरकारी पद का दुष्प्रयोग
Academic discussion	वैदिक चर्चा
Academic experience and attainments	गौणिक अनुभव तथा अस्थापित्या/प्रोफेशन
Academic qualifications	गौणिक अहेताएँ/विद्याहेताएँ
Accelerated promotion	द्वितीय पदोन्नति
Acceptance, conditional	सप्रतिबन्ध स्वीकृति, गती मंजूरी
Acceptance, qualified	विशेषित स्वीकृति, सप्रतिबन्ध स्वीकृति
Access, to have	पहुँच
Accordance, of ones own	आप ही आप, स्वयं, अपनी इच्छा से
Accordance with, in	के अनुसार
According to law	यावधि, कानून के अनुसार
According to merit	पोष्टानुसार, काविलीपत के अनुसार
According to the procedure prescribed	विहित/नियमित प्रक्रिया के अनुसार
According to seniority	वैष्ठतानुसार
Account	धाता, लेखा
on no account	किसी प्रकार नहीं
to take into—	विचार करना
call to—	स्पष्टीकरण मांगना, जवाब देना
Acquittance roll	वेतनावली
Acting allowance	कार्यकरण भता, कार्यकारी भता, एवजी/ कायत मुकाम का भता
Acting incumbent	कार्यदाहक/कार्यकारी पदाधारी
Acting in his discretion	स्पष्टिकेक से कायं करते हुए
Acts of commission and omission	हृत और अहृत, मल-चूक
Action, line of	कायं-रेखा, किया दिया
Action proposed to be taken	प्रस्तावित कायंवाही करने को है,
Active list	कर्तव्यस्थ सूची, सक्रिय सेवा सूची
Additional remarks	अतिरिक्त अध्यूक्ति, अतिरिक्त मंतव्यः
Additions and alterations	परिवर्धन और परिवर्तन

Address to	सम्बोधित करना
Adequate reasons	समुचित कारण
Adequately express, to	समुचित रूप से अभिव्यक्ति करना
Adjusted provisionally	अनंतिम रूप से समायोजित
Adjustment of accounts	लेखा समायोजन
Administrative approval may be obtained	प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाय
Administrative control	प्रशासी नियंत्रण
Administrative convenience	प्रशासन-सुविधा
Administrative staff	प्रशासी कर्मचारी वाँ, प्रशासी अमला
Admissibility of question	प्रश्न-प्राप्तता
Admissible under the rules	नियमानुसार प्राप्त, नियमाधीन प्राप्त
Admitted in evidence	साक्ष्य में गृहीत
Advance copy	अग्रिम प्रति
Advances repayable	प्रतिदेय अग्रिम
Advantage, to take	लाभ उठाना, मोका पाना
Adverse comments	प्रतिकूल टीका-टिप्पणियाँ, प्रतिकूल समालोचना
Advisory and coordinating functions	मंत्रणा और समन्वय कृत्य
Affair, settlement of an	ज्ञाहे का निपटान/चुकीता
Affair of the union or the state	संघ या राज्य के कार्य
Affect prejudicially	प्रतिकूल प्रभाव ढालना
Affirmation, solemn	सत्यनिष्ठापूर्वक अभिज्ञान/प्रतिज्ञा
Affirmative statute	सकारात्मक परिनियम
Affrant, to take as an	अपमान समझना, अपमानित होना
Aforesaid terms	पूर्वोक्त निबन्धन
Again and again now and again	बारम्बार कभी-कभी
Against public interest	लोकहित के प्रतिकूल/विशद्ध
Age of retirement	सेवा-निवृत्त वयस, पेशन पाने की उम्र
Age relaxation	वयस्सीमा शिथिलन
Alleged misconduct	अभिकथित दुर्घटवहार
All-embracing	सर्व समावेशक
All-inclusive quotation	सर्व समावेशी भाव

All-out effort	भरसक प्रयास
All rights reserved	मर्वाधिकार सुरक्षित
All-round improvement	संवेदी मुख्य सुधार
Allowed by law	विधि द्वारा अन्युग्रात, विध्युतमत
Alteration, material	सारवत् परिवर्तन, अहम तबदीली
Alternative accommodation	वैकल्पिक वासस्थान, दूसरा आवास
Ambitious scheme	महत्वाकांशी योजना
Amenable to control and discipline	तियंच्रण तथा अनुशासन मानने वाला
Amending notification	संशोधी विज्ञप्ति
Amendments of a substantial nature	सारभूत संशोधन
Amenities provided by Govt.	शामन द्वारा प्रदत्त/दी गई मुद्यनुविधार
Amount overdue	कालातीत राशि
And in any case	और किसी भी अवस्था में
Any contravention of this rule	इस नियम का कोई भी उल्लंघन
Any often law for the time being in force	तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि
Any other sufficient reason	कोई अन्य पर्याप्त कारण
Appeal, filing of	अपील दायर करना
Appear for interview, to	साक्षात्कार (समझ मेट) के लिए उपस्थित
Approved as proposed	"होना"
Approved subject to marginal comments	यथा प्रस्तावित अनुमोदित
Appropriate action	सीमान्त टिप्पणियों के अधीन अनुमोदित
Approved service	समूचित कार्यवाही/कार्रवाई
Arising therefrom	अनुमोदित सेवा
As a matter of course	तदुपरान्त
As by law established	साधारणतया, आम तौर से
As enjoined	यथाविधि स्थापित
As far as circumstances permit	यथादिष्ट, जैसा कि आदेश दिया गया
As far as permissible	जहाँ तक परिस्थितियों के अनुसार संभव हो

As far as possible	यथा सम्भव, जहाँ तक मुमकिन हो
As for as practicable	यथा व्यवहार्य, यथाशक्य, जहाँ तक हो सके
As for instance	उदाहरणार्थ, जैसे
As for as to	विषय में
(as for his qualification)	(उसकी अहंता के विषय में)
As herein after defined	यथा अन्त पश्चात् परिभ्राष्टित, जैसी कि इसमें आगे परिभ्राष्टा दी हुई है
As in face for the time being	तत्समय प्रवृत्त हो
As laid down	यथा निर्धारित
As may be considered expedient	जैसा इष्टकर (वांछनीय) प्रतीत हो
As may be mutually agreed upon	जो परस्पर सम्मत हो
As may be necessary	यथावश्यक, जो आवश्यक हो
As may be prescribed	यथा विहित
As may be specified	यथा निर्दिष्ट
As nearly as possible	यथा सम्भव निकट, जहाँ तक हो सके
As of right	माधिकार, अधिकार के रूप में
As presented to the Legislative	विधानसभा में यथा उपस्थापित/प्रस्तुत
As proposed	यथा प्रस्तावित
As provided by law	विध्यनुसार उपवधित, कानून के अनुसार
As regards	विषय, मम्बन्ध
(-his post)	(जहाँ तक उसके पद का मम्बन्ध है)
As required	यथापेक्षित, यथा अपेक्षित
As respects the particular matter in question	प्रश्नास्पद विषय-विशेष के बारे में
As revised	यथा संशोधित
As soon as possible	यथासंभव शीघ्र
As spoken	जैसी कि बात कर ली है
As the case may be	यथास्थिति
As the matter stands	जैसा कि इस समय मामला है, मामले की वर्तमान दशा में
Assets and Liabilities	परिस्थिति और देयता, परिस्थिति और दायित्व
Assumption of charge	पार-पहल
Assumption	पद-पहल
At any stage	किसी भी अवस्था/प्रक्रम में

At Govt. expense	शासन-भय पर, सरकारी सुचौं पर
At his own risk	अपने उत्तरदायित्व पर, अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी जोखिम पर
Attachment, liable to under—	काबिल कुर्की, जेर कुर्की, कुर्की के अधीन के निदेश से, की प्रेरणा से
At the instance of	विसम्बतम्
At the latest	इच्छानुसारेण, विकल्प
At the option	शीघ्रातिशीघ्र
At earliest convenience	मितोपभोग उपाय, मितव्य के उपाय
Austerify measures	अवसर से लाभ उठाना, अवसर हाद में
Avail of	न जाने देना
(—opportunity)	आपत्ति निष्फल रहेगी, उच्च कारामद न होगा
Avail the plea will not—	जोखिम से बचना, हानि-भय से बचना
Avail the risk of	परिहार्य विलम्ब
Avoidable delay	विनिमय की प्रतीक्षा है
Awaiting decision	अनुमोदन की प्रतीक्षा है
Awaiting approval	आदेशों की प्रतीक्षा है
Awaiting orders	

B

Back door entrance	पिछले द्वार से प्रविलि
Back ground	पृष्ठभूमि, पृष्ठ-आधार
Back ground material	पृष्ठाधार सामग्री
Back ground music	पाश्व संगीत
Back reference	पूर्व निर्देश/पिछला संदर्भ
Backing	समर्थन
Backward	पिछड़ा
Backward tribes	पिछड़ी जनजातियाँ
Bad	बुरा
Bad behaviour	दुष्प्रवहार
Bad character	दुश्चरित्र, बुरा शील
Bad conduct	बुरा आचरण
Bad debt	अशोध्य ऋण, डूबी रकम
Bad faith	असद्भाव, बदनियत
Bad in law	विधि अमान्य
Bad money	हीन मुद्रा
Bad visibility	कुदृश्यता
Badge	बिल्ला
Bail	जमानत, लग्नक
Surety	प्रतिभू
Security	प्रतिभूति
Guarantee	प्रत्याभूति
Bond	बन्ध
Bail to admit	जमानत मान लेना/कबूल करना
Bail to stand	जमानत करना, जासिन होना
Bailable	जमानत योग्य, जमानती
Bailable action	जमानती अभियोग
Bailable offence	जमानती अपराध
Bailable process	जमानती आदेशिका
Bail bond	जमानतनामा, प्रतिभूतिबन्ध

Bailee	उपनिहिती, धरोहर लेने वाला
Bailment	उपनिधान, धरोहर
Bailor	उपनिधाता
Balance	बाधिक्य, शेष; संतुलन
Remainder	वाकी
Residue	अवशेष
Surplus	फालतू, अधिशेष
Balance, closing	रोकड़ वाकी
Balance, opening	रोकड़ जमा, आदि शेष
Balanced action	संतुलित क्रिया/कार्यवाही
Balanced diet	संतुलित आहार
Balance due	बकाया
Balance of payment	भुगतान शेष
Balance of power	शक्ति-संतुलन
Balance trade	व्यापार-संतुलन
Balance sheet	पक्का चिट्ठा, संतुलन-पत्र, तुलन-पत्र
Ballot	मतपत्र
Ballot box	मतपेटी, शलाका पेटी
Ballot paper	मतपत्र
Ballot, secret	युक्त मतदान
Ban	रोक, प्रतिबन्ध
Banquet, State	राज-भोज
Banish	देश-निष्कासन
Deport	परदेश-निष्कासन, विवासन
Exile	निवासन, स्वदेश-निष्कासन
Banishment	रोध, रुकावट, न्यायालय; छड़
Bar	वकील परिषद्
Bar association	न्यायालय में
Bar, at the	दक्षता-रोध
Bar-efficiency	लौह छड
bar, iron	वैरिस्टर दीक्षा
Bar, to be called to the	बर्बर, नृशंस
Barbarous	सोदा
Bargain	आधार
Basis	

Base	आधार; पृष्ठभूमि
Basic	बुनियादी, आधारभूत
Fundamental	मूलभूत
Basic education	बुनियादी शिक्षा
Basic pay	मूल वेतन
Basic yield	आधारिक आय/प्राप्ति; आधारिक पैदावार
Battle	रण, सग्राम
Battle area	रणक्षेत्र
Battle, mock	नकली लड़ाई
Battle order	रण संभार
Battle position	रण स्थिति
Beat	हलका, गश्त
Beauty spot	रम्य स्थल
Before cited	पूर्व कथित
Before hand	पहले से
Before time	समय से पहले
Behaviour	व्यवहार
Conduct	आचरण
Behaviour, typical	वर्ण सामान्य व्यवहार
Belligerency	युद्धकारिता, युद्ध-सलमनता
Belligerent State	युद्धनिधित राज्य
Below par	अवमूल्य पर
Above par	अधिमूल्य पर
At par	सममूल्य पर
Bench	न्यायपीठ, बैच
Bench, full	पूर्ण न्यायपीठ
Beneficial	हितकर, लाभप्रद
Advantageous	लाभकर
Beneficiary	हिताधिकारी, लाभग्राही
Benefit of doubt	सदेह लाभ
Besiege	घेरा ढालना
Best price	अधिकतम मूल्य
Betray	विश्वासघात करना
Betterment	नवति
Beyond reasonable doubt	युक्तसंदेहातीत, युक्त सदेह ने परे

Bias

Prejudice	द्विकाव, अभिनन्ति
Biased opinion	पूर्वावलोकन, पूर्वग्रिहण
Bicameral	अभिनन्त मत
Bilateral	द्विसदन
Bill payable	द्विपक्षीय
Bill	देय विल
Black list	विद्येयक
Black mail	काली सूची, वज्रं सूची
Black market	दवाव से ऐठना
Blind shot	चोर बाजार
Block	अधस्थल, अंधविन्दु
Block area	खण्ड, ब्लाक
Blockade	क्षेत्र
Board	नाकावन्दी, धेरावन्दी, समवरोध
Board advisory	परिपद्, पण्डल, बोर्ड
Board of editors	परामर्श परिपद्
Body	सम्पादक पण्डल
Body local	निकाय; समूह; शारीर
Body—bodily infirmity	स्थानीय निकाय
Body guard	शारीरिक शैक्षित्य
Bonafide	अवग्रहक
Bonafide owner	वास्तविक, असली; सद्भाव
Bonafide payment	वास्तविक, असली स्वामी
Bonafide traveller	सद्भावी भुगतान
Bonafide mistake	सद्याचारी, असली यात्री
Bonafides	सद्भावित, सद्भावहृत भूल
Bond	बंधपत्र
Bonus	बोनस, अधिलाभांश
Dividend	लाभांश, हार्ड
Bonus dividend	लाभांश
Book transfer	खाता सक्रम
Book value	खाता मूल्य
Booked route	निर्धारित मार्ग
Border line	सीमा-रेखा

Borrower	ऋणप्राप्ति, कर्जा लेने वाला
Bound	बाध्य
Bound legally	विधितः बाध्य
Boundary	सीमा, हृद, सीमांत
Breach	भंग
Contravention	उल्लंघन
Violation	अतिक्रमण
Encroachment	उपाक्रमण
Transgression	उत्क्रमण
Infringement	अतिलंघन
Breach of discipline	अनुशासन भंग;
Breach of duty	कर्तव्य-भंग
Breach of faith	प्रतिज्ञा/विश्वास-भग
Breach of privilege	विशेषाधिकार-भग
Breach of trust	न्याम भग
Break	व्यवधान, भग विश्वासघात
Break in service	सेवा मे व्यवधान, मेवा-भंग
Break down	खराबी, विभग
Brevity	सक्षेप
Brief	पक्षमार, वाद-सारांश; संक्षेप
Brief check up	मरमरी जीच
Broad effect	व्यापक प्रभाव
Broad principles	सामान्य सिद्धांत
Broadcast	प्रसारण, प्रसार
Brochure	पुस्तका
Brutal	पाण्डिक
Inhuman	अमानवीय, अमानुषिक
Cruel	कूर
Savage	जंगली
Build-up	तैयारी
Budget	आय-व्ययक, बजट
Bulk	छुला, घोक
Bulk Cargo	छुला माल
Bulk indent	घोक माँग-पत्र
Bulk purchase	घोक खरीद

Burden	भार
Burden of proof	प्रमाण-भार
Bureau	ब्यूरो, कार्यालय
Bureaucracy	नीकरगाही, अधिकारीतम
Business	काम, कारोबार, व्यवसाय
Employment	नौकरी, सेवायोजन
Profession	चृति, उदास
Business acumen	व्यवसाय चातुर्य
Business connection	व्यवसाय सम्बन्ध
Business ethics	व्यवसाय नीति
Business hours	कार्य-समय
Business premises	कारोबार की जगह, व्यवसाय स्थान
Busy season	व्यस्त काल/समय
By authority	के प्राधिकार से
By count	गणनानुसार
Bye election	उपनिवाचन, उपचुनाव
By order	के आदेश से
By parcel post	पार्सल डाक से
By product	शैरण उत्पादन
By virtue of	के नाते, की हृसियत से, के आधार पर

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Bad books, in one's	किसी पर अवक्षपा होना
Bad faith, done in	बदनियत (बदभाव) से किया कार्य
Bad in law	निधि अमान्य
Bail for good conduct	सदव्यवहार/अच्छे आचरण के लिए
Balance available	जमानत
Balance brought forward	प्राप्य शेष अग्रानीत शेष

Breach of contract	संविदा-भंग
Breach of discipline	अनुशासन-भंग
Breach of faith	प्रतिज्ञा-भंग
Breach of law	विधिभंग, कानून तोड़ना
Breach of orders	आदेश-भंग
Breach of privilege	विशेषाधिकार-भंग
Breakage in transit	मार्ग मे टूट-फूट
Break in service	सेवा-भंग, सेवा-व्यवधान, सेवा-अंतराल
Brief resume	संक्षिप्ति, सारांश, खुलासा
Broad distinction	स्थूल भेद, मोटा फ़र्क
Broken period	खंडित अवधि
Burden of proof	सिद्धि भार
Business, in the course of	काम के दौरान
Business of Govt.	शासन कार्य
By reason of	के कारण
By virtue of his office	अपने पद की हैसियत से
By way of amendment	संशोधन के रूप मे

C

Cabinet	मत्रिमडल
Cabinet affairs	मविमंडल-कार्य
Cabinet makers	पेटीकार
Cadet	सैनिक छात्र, कॅडेट
Cadet corps	कॅडेट दल
Cadet lines	कॅडेट आवास
Cadre	संवर्ग
Cadre, emergency	आपातिक संवर्ग
Cadre, regular	नियमित संवर्ग
Calamity	विपत्ति, आपदा
Accident	दुर्घटना
Danger	खतरा
Mishap	अनिष्ट
Peril	सकट
Risk	जोखिम
Calculate	गणना करना, हिसाब लगाना, परिकलन करना
Calculating machine	गणनायन्त्र
Call	आह्वान, बुलावा, माँग
Convene	आयोजित करना
Call at	माँग पर
Call book	माँग-वही
Call money	माँग धन, अविलम्ब राशि
Call notice	माँग सूचना
Call unpaid	अशोधित अभियाचना
Call pay	हातिरी वेतन
Calling	व्यवसाय, आजीविका
Camouflage	छापावरण, छल
Camp	शिविर
Camp fire	अलाव

Campaign	अभियान
Cancel	रद्द करना, मनसुख करना
Annul	अभिशुल्पन करना
Repeal	निरस्त करना
Revoke	बापस लेना
Rescind	विखण्डित करना
Candidate	उम्मीदवार, अभ्यर्थी
Apprentice	शिक्षा, प्रशिक्षा
Petitioner	याची, प्रार्थी
Candidate, approved	अनुमति/स्वीकृत अभ्यर्थी
Candidate, listed	सूचीगत उम्मीदवार
Candidate, unlisted	सूचीगत उम्मीदवार
Canvass	बोट माँगना, मताधिन करना
Canvassing leaflet	प्रचार पर्चा
Capable	समर्थ
Capacity	धर्मता, सामर्थ्य, धारिता
Capacity, electric	विद्युत धारिता
Capacity of work	कार्य-धर्मता, कार्य-सामर्थ्य
Capacity out put	चत्प्रदान-धर्मता
Capita, per	प्रति व्यक्ति
Capital	पूँजी, मूलधन
Capital, active	सक्रिय पूँजी
Capital, authorised	प्राधिकृत पूँजी
Capital, called up	मौजी पूँजी
Capital, circulating	चल पूँजी
Capital, fixed	वचल पूँजी
Capital, floating	चल पूँजी
Capital, issued	जारी पूँजी
Capital, paid up	चुकती पूँजी
Capital, return on	पूँजी पर प्रतिफल
Capital, working	कार्यकर पूँजी, चालू पूँजी
Capital charge	पूँजी प्रभार
Capital cost	पूँजीगत लागत
Capital expenditure	पूँजीगत खर्च/व्यय
Capital formation	पूँजी निर्माण
Capital goods	पूँजीगत माल
Capital inflow	पूँजी का अन्तर्राह

Capital issue	पूँजी इजारा
Capital outflow	पूँजी का निर्गम
Capital profit	पूँजीगत लाभ
Capital offence	मृत्युदण्ड-भोग्य अपराध
Capitulation	आत्मसमर्पण
Caption	शीर्षक
Captive	युद्धवन्दी, बन्दी
Captivity	बन्दिता
Captor	बन्दीकर्ता
Capture	एकड़ना, बलात् प्रहण; बन्दीकरण
Cardinal points	आधारभूत विन्दु
Cardinal issue	आधारभूत वादपद
Care	परिचर्या; देख-रेख, सावधानी, अवेक्षा
Care and maintenance	देख-रेख और अनुरक्षण
Career	वृत्ति, जीविका
Career diplomat	वृत्तिक राजनयिक
Carefully	सावधानी में
Caretaker	अवधारा
Caretaker Government	काम चलाऊ सरकार
Cargo	नौभार, माल, नौभाण्ड
Carnal	दैहिक, शारीरिक, कामज
Carry into effect	कार्यान्वित करना
Case	मामला प्रकरण; मुकदमा, वाद; विषय
Case, civil	दीवानी मुकदमा/वाद
Case diary	घटना दैनिकी, केस डायरी
Case law	निर्णय विधि
Case referred	निर्दिष्ट विषय
Case study	व्यवित-अध्ययन, वाद-अध्ययन
Cast vote	मत देना
Caste	जाति, बणं
Caste system	जाति-व्यवस्था, जाति-प्रथा, बणंव्यवस्था
Casting vote	निर्णयक मत
Casual	बाकरिमक, नैमित्तक, अनियत, सामयिक
Casual connection	नैमित्तिक संयोजन

Casual employee	नैमित्तिक कर्मचारी
Casual labour	अनियत मजदूर, सामयिक श्रमिक
Casual leave	आकस्मिक छुट्टी/अवकाश
Casual vacancy	आकस्मिक/अनियत रिक्ति
Casualty	दुर्घटना; हताहत
Casualty ward	हताहत कक्ष
Catch word	सूचक शब्द
Catchment area	जलागम क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र
Category	वर्ग, श्रेणी, कोटि
Cause	वाड, मुकदमा, मामला; कारण
Cause and effect	कार्य-कारण
Cause list	वाद-मूल्य
Cause way	उच्चमार्ग
Footpath	पगड़ी
Sideway	पाश्वमार्ग
Caution	मावधानी, सतर्कता
Cautious	सावधान, समवधानी
Caution money	अवधान द्रव्य, प्रतिभूति धन
Cease to exist	अस्तित्वहीन होना
Ceiling price	उच्चतम मूल्य
Celebration	समारोह
Celestial body	खगोलीय पिंड
Censor	सेन्सर, दोषवेचक; पत्रावेक्षक
Censure	निन्दा करना; परिनिन्दा
Censure, vote of	निन्दा मत
Censure motion	निन्दा-प्रस्ताव
Census	जनगणना
Centre of interest	रुचि-केन्द्र
Cereal	धान्य, अम्बन, अनाज
Ceremonial	समारोह; रैतिक, रस्मी
Ceremonial dress	रैतिक पोशाक
Ceremonial function	रैतिक समारोह
Ceremonial occasion	रैतिक अवसर
Ceremonial parade	रैतिक परेड
Ceremony	संस्कार, अनुष्ठान, समारोह, रोति
Ceremony investiture	मान-समारोह

Ceremony, swearing in	शपथ-समारोह
Certificate	प्रमाणपत्र
Certificate, character	चरित्र-पत्र
Certificate, competence	सक्षमता-पत्र/समर्थता प्रमाण-पत्र
Certificate, fitness	आरोग्य-पत्र/प्रमाण-पत्र
Certificate, medical	चिकित्सा प्रमाण-पत्र
Certificate of charge	प्रभार-पत्र
Certificate, succession	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र
Certified copy	प्रमाणित प्रति
Cess	उपकर
Customs	सीमाशुल्क
Duty	शुल्क
Rates	स्थानीय कर
Toll	पथकर
Cessation	समाप्ति, विराम
Cessation of hostilities	युद्ध समाप्ति
Channel	मार्ग, सरणि
Channel, through proper	समुचित सरणि से, समुचित माध्यम से
Character	चरित्र, शील
Conduct	आचरण
Character roll	चरित्र पंजी
Character sketch	चरित्र लेख
Characterisation	चरित्र-चित्रण
Characteristics	लक्षण
Characteristic feature	विशिष्ट लक्षण
Charge	प्रभार; अभियोग; खर्च
Charge, contingent	आकस्मिक खर्च; प्रासंगिक व्यय
Charge, free of	निःशुल्क
Charge of office	पदभार
Charge report	कार्यभार सूचना
Charge sheet	अभियोग/आरोप-फलक, दोषारोप
Chargeable	प्रभाय
Charged affairs	कार्यद्रुत
Charge expenditure	प्रभारित व्यय
Charges depreciation	मूल्यह्रास प्रभार
Charges, maintenance	अनुरक्षण व्यय
Charges, overhead	सामान्य फुटकर खर्च

Charitable	धर्मयं
Charter, duties	इपूटी चाटंर, कर्तव्य-प्रभ
Check	जाँच, नियंत्रण, रोक
Check, internal	आन्तरिक जाँच
Check list	पड़ताल-मूल्यी
Check post	जाँच चौकी
Checked	परीक्षित, जाँचा हुआ
Child	बालक
Child, handicapped	विकलाग बालक
Child, incorrigible	असाध्य बालक
Child, problem	ममस्या बालक
Child, subnormal	अवमामान्य बालक
Chronological order/sequence	वृत्तिक श्रम
Circle	वृत्त, मंडल, हल्का
Circuit house	सर्किट हाउस
Circular	परिपथ, गश्ती चिट्ठी
Circumstances	परिस्थितियाँ
Circumstances, relevant	प्रासादिक परिस्थितियाँ
Circumstantial evidence	परिस्थिति साक्ष्य, घटना-परिस्थिति साक्ष्य
Citation	वाचन-पत्र; उद्धरण; उल्लेख
Civic	नागरिक
Civic election	नगर निवाचन
Civic rights	नागरिक अधिकार
Civil	सभ्य, शिष्ट; नागरिक; असैनिक, दीवानी
Civil, action	दीवानी मुकदमा/वाद
Civil administration	नगर-प्रशासन, असैनिक प्रशासन
Civil affairs	नगर-कार्य, असैनिक कार्य
Civil authority	असैनिक प्राधिकारी
Civil case	दीवानी वाद
Civil court	दीवानी अदालत, व्यवहार-न्यायालय
Civil defence	नागरिक सुरक्षा
Civil disobedience	सविनय अवज्ञा
Civil disorder	जनपद अशांति
Civil law	दीवानी कानून
Civil remedy	व्यवहारोपचार
Civil rights	नागरिक अधिकार

Civil suit	दीवानी दाद
Civil war	गृहयुद्ध
Civility	शिष्टता
Civilization	सभ्यता
Claim	दावा; मांग, अधिकार
Claim, false	झूठा दावा
Claim, verified	सत्यापित दावा
Claimant	दावेदार, दावी
Claimable	दावा योग्य
Clarification	स्पष्टीकरण
Class concept	वर्ग-संप्रत्यय
Class consciousness	वर्ग-चेतना
Class interest	वर्ग-स्वार्थ
Classification	वर्गीकरण
Classified document	वर्गीकृत प्रसेक्षण
Clause	वाक्यखण्ड; खण्ड
Clearance	निप्कासन, निकालना
Clear and positive proof	स्पष्ट और साक्षात् प्रमाण
Clemency	करुणा
Grace	अनुकूल्या
Lenity	उदारता, मृदुलता
Mercy	दया
Clock wise	दक्षिणावर्त
Clerical error	लेखन अशुद्धि/लेखन त्रुटि
Clerical staff	लिपिक वर्ग
Climate	जलवायु
Close control	निकट नियंत्रण
Close co-operation	प्रगाढ़ सहयोग
Close range	निकट परास
Close scrutiny	सूक्ष्म संवीक्षा, सूक्ष्म जाँच, सूक्ष्म परिनिरीक्षण
Close supervision	कड़ी नियंत्रणी
Close watch	कड़ी देख-रेख, कड़ा पहरा
Closure motion	समापन प्रस्ताव, संवरण प्रस्ताव
Coalition ministry	संयुक्त मंत्रिमंडल, मिला-जुला मंत्रिमंडल
Code	संहिता
Code figure	कूट अंक

Code language	कूट भाषा
Code of honour	शिष्याचार संहिता
Codification	संहिताकरण
Co-education	सहशिक्षा
Coercive force	बल प्रयोग, जोर-जवरदस्ती
Cognizance	संज्ञान
Cognizable offence	संज्ञेय अपराध, हस्तदोष अपराध
Coincidence	संयोग, सम्पात
Cold wave	शीत लहर
Collaboration	सहयोग
Collapse	निपात; सफलता; ढहना
Collateral	सांपारिक, आनुपर्याप्ति
Collection charges	वसूली प्रभार, समाहरण व्यय
Collective	सामूहिक
Collision averted	निवारित टक्कर
Collusion	दुसरंधि, कपट संधि
Colonial imperialism	उपनिवेशी साम्राज्यवाद
Colonial imperialism policy	उपनिवेश-नीति
Column	स्तम्भ
Columnist	स्तम्भ लेखक
Combined	सम्मिलित
Combined operation	संयुक्त क्रिया
Combined staff	सम्मिलित अमला
Combined system	मिश्र-विधि
Come into force	लागू होना, प्रवृत्त होना
Command	कमान, आदेश, समादेश
Comfort, articles of	सुख-वस्तुएँ
Comity of nations	सुहृद राष्ट्र मंडली
Command	समादेश
Commemorate	स्मृति मनाना, स्मरणोत्सव मनाना
Commemoration	संस्मृति, स्मारक
Commemorative medal	स्मारक पदक
Commemorative stamp	स्मारक टिकट
Commencement	प्रारम्भ
Commendatory letter	सिफारिशी पत्र, प्रशस्तात्मक पत्र
Commendable	स्तुत्य

Laudable	श्रस्ताध्य
Praiseworthy	प्रशसनीय
Commensurate	अनुरूप
Comment	टीका-टिप्पणी करना
Commentary	भाष्य
Commentry, running	चल-विवरण, चलबृत्तात, अंडो देवा हाल सुनाना
Commentator	टीकाकार, आलोचक
Commissioner	आयुक्त, कमिशनर
Commit for trial	विचारणार्थ सुपुर्दं करना
Commitment	वचनबद्धता वायदा, सुपुर्दगी
Commission	आयोग
Committee	ममिति, कमेटी
Committee, adhoc	तदर्थ समिति
Committee, select	प्रवर ममिति
Commodity	पर्य वस्तु/पदार्थ
Common	सामान्य
Common good	सर्वकल्याण, सर्वहित, सामान्य हित
Common ratio	सर्वानुपात
Common sense	सामान्य बुद्धि
Commonwealth	राष्ट्रमण्डल
Commotion	सक्षोभ
Communal	साम्प्रदायिक
Communicate	सूचित करना
Communication	सचार पत्र-व्यवहार
Communicative	अभिव्यक्तिशील
Communion	समागम
Communiqué	विज्ञप्ति
Community	समुदाय, समाज
Community centre	सामुदायिक केन्द्र
Commutation	लघुकरण, राशिकरण
Commutation of pension	पेशन का राशिकरण
Commutation of sentence	दण्ड घटाना
Compact area	सघन क्षेत्र
Comparative	तुलनात्मक
Compassion	अनुकम्पा
Compassionate fund	अनुग्रह निधि

Compassionate ground	कारण्य आधार
Compatible	संगत, अनुरूप
Compel	वाद्य करना
Compendium	सार-संग्रह, संग्रह
Compensation	प्रतिकर, मुआवजा
Competence	क्षमता
Competent	मदाम, कार्यकुशल
Efficient	कार्यक्षम
Competent authority	मदाम प्राधिकारी
Competent court	मध्यम न्यायालय
Competitive	प्रतियोगिता
Competition, cut throat	घातक प्रतियोगिता
Compilation	सकलन
Complain	गिकायत करना, परिवाद करना
Complement	पूरक, संपूरक
Complementary	पूरक, मंपूरक
Completion	समाप्ति, समापन
Completion report	समापन रिपोर्ट/प्रतिवेदन
Complex	जटिल
Compliance	अनुपालन
Complicity	सहभयराधिता
Complimentary copy	मानार्थ प्रति
Compliments, with	सामिनन्दन, सादर
Component parts	संघटक पुँजी
Composite body	सहृत निकाय
Composite culture	मिथ संस्कृति
Composition	रचना, कृति; समझौता
Composition of a debt	ऋण का निपटारा
Composition of difference	समझौता
Compound an offence	अपराध का प्रशमन/अभिसंधान
Compoundable	प्रशम्य, अभिसंधेय
Comprehensive	व्यापक
Comprehensive view	व्यापकार्थ मत
Compromise	समझौता करना
Compulsion	वाद्यता, चिकित्सा
Compulsory	अनिवार्य
Obligatory	वाद्यकर

Indispensable	अपरिहार्य
Necessary	आवश्यक
Compulsory deposit	अनिवार्य जमा
Compulsory retirement	अनिवार्य निवृत्ति
Compulsory service	वाध्य सेवा, अनिवार्य सेवा
Computation	संगणन
Computed value	संगणित मूल्य
Concentrated	केन्द्रित
Concentration camp	बन्दी शिविर
Concept	संकल्पना
Concern	स्थान
Concerned	सम्बन्धित
Concession	रियायत, सुविधा
Conciliation	सराधन, समझौता
Conciliation officer	सराधन अधिकारी
Concise	संक्षिप्त
Conclusion	निष्कर्ष; समाप्ति, समापन; उपसंहार-संधि करना
Conclusion of peace	निश्चायक, अन्तिम
Conclusive	निश्चायक प्रमाण
Conclusive proof	सामजस्य और शांति
Concord and peace	सहमति
Concurrence	सम्मति
Consent	अनुमोदन
Approval	अनुमति
Assent	समवर्ती सूची
Concurrent list	दोषित, निदित
Condemned	निष्प्रयोज्य वस्तुएँ
Condemned articles	मृत्युदण्डित किंदा
Condemned prisoner	प्रतिबन्ध
Condition	शर्त
Term	पूर्व पाल्य प्रतिबन्ध, पूर्वगामी
Condition precedent	शर्त
Conditional	सप्रतिबन्ध, शर्ती
Conditioning, air	वातानुकूलन
Condonation	माफी, क्षमा
Condonation of attendance	उपस्थिति की माफी

Conduct	संचालन करना
Confederation	राज्यमण्डल
Confer	प्रदान करना; परामर्श फरना
Conferred rights	प्रदत्त अधिकार
Conference	सम्मेलन, कांफ्रेस
Confirmation	पुष्टि
Corroboration	समर्थन, संपुष्टि
Conscription	अनिवार्य भरती
Confession	अंगीकरण, कहूल करना
Confidence	विश्वास
Confidential	गोपनीय; विश्वस्त
Confinement	परिरोध
Confirmation	पुष्टि; स्थायीकरण
Confirmation letter	पुष्टि-पत्र
Confiscation	समपदार, जब्ती
Conflict	विरोध, संघर्ष
Confluence	संगम
Conformity	अनुमारिता, अनुस्पता
Conformity in, with	के अनुरूप, के अनुसार
Confusion	भ्रम
Congratulation	व्याहार
Connected	संबद्ध
Connivance	मौनानुमति, मौन सहमति
Conscience	अन्तःकरण, अन्तरात्मा
Conscientious	अन्त करणानुयायी, ईमानदार
Objector	अन्त करण आपत्तिकर्ता
Consecutive	लगातार
Consensus	मतसंबध
Consensus of opinion	मतसंबध
Consent	सहमति, सम्मति
Consent, tacit	मौन सहमति, सम्मति
Consequence	परिणाम, कल
Consequent charge	अनुबर्ती परिवर्तन
Consequential	परिणामी, आनुयायिक
Incidental	प्रासंगिक
Consequential loss	परिणामस्वरूप हानि

Conservation of soil	भूमि-संरक्षण
Conservator of forest	अरण्यपाल
Consideration	विचार; प्रतिफल
Consideration in--of	प्रतिफल स्वरूप
Consigned	परेषित
Consignment	परेषित माल
Consigner	परेषक
Consistent	संगत
Consolidated	सहत, समेकित
Consolidation	चक्रवर्ती
Consortium	सहकार
Conspicuous service	विशिष्ट सेवा
Conspiracy	पङ्घन
Constituency	निर्वाचन क्षेत्र
Constituent	संघटक, रचक; निर्वाचक
Constituted assembly	संविधान सभा
Constituted	गठित
Constitutional law	संविधान विधि
Constrained	निरुद्ध, वाधित
Construction	रचना, निर्माण
Constructive	रचनात्मक
Construe	अर्थ लगाना
Consultation	परामर्श, मत्रण
Consumed	उपभुक्त
Consumer	उपभोक्ता
Consumer goods	उपभोग्य वस्तुएँ
Contact	सम्पर्क
Contagion	संसर्ग
Contagious	सासार्गिक
Contemplated	अवेक्षित
Contempt of Court	न्यायालय अवमान
Contention	तक, विवाद
Contentment	संतुष्टि
Satisfaction	संतोष, तृतीय
Contents	अन्तर्बस्तु, विषय-मूल्य
Contents of a letter	पत्र-वस्तु, पत्र-विषय
Contest	प्रतिरोध करना

Contesting states	विवादी राज्य
Context	प्रसंग, प्रकारण, सदम्
Contiguous	आसन्न, तिकटस्थ
Continence	समय
Continent	महाद्वीप
Continental	महाद्वीपीय
Continental broadcast	महाद्वीपीय प्रसारण
Contingencies	प्रासंगिक व्यय, फूटकर खर्च
Contingement	आनुषंगिक, आकस्मिक
Contingent benefit	आनुरंगी लाभ
Contingent charge	प्रासंगिक व्यय, आकस्मिक व्यय
Contingent event	समाव्य घटना
Continuation sheet	अनुवर्ती फलक
Continuous	अद्वितीय
Continuous service	लगातार सेवा, अविच्छिन्न सेवा
Continuous watch	निरन्तर निगरानी
Contraband	निपिद्ध, बजित
Contraband goods	निपिद्ध माल
Contract	समिदा, ठेका
Contradiction	परस्पर विरोध
Contradictory	परस्पर विरोधी
Contrary	प्रतिकूल, विपरीत
Contrary to law	विधि प्रतिकूल
Contravene	उल्लंघन करना
Contravention	उल्लंघन
Contribution	अशादान, योगदान
Contributory	अंशादायी, अंशदेय
Contrivance	प्रयुक्ति
Control	नियन्त्रण
Control room	नियन्त्रण कक्ष
Controversial	विवादास्पद
Convene	संयोजित करना, चुलाना
Convener	संयोजक
Convenience	सुविधा
Convention	अभिसमय; रुढ़ि; परिपादी; प्रथा; सम्मेलन

Constitutional	संविधानिक
Conversely	विलोमतः
Conversion	स्थान्तरण
Convertible	संपरिवर्तनीय
Convict	दोषी ठहराना; सिद्ध दोष
Criminal	अपराधी
Culprit	अभियुक्त
Captive	धंदी
Convincing	विश्वासजनक, संप्रत्यायक
Convocation	दीक्षान्त समारोह
Co-operation	सहयोग
Co-operative	सहकारी
Co-operate	सहयोग करना
Co-option	सहयोजन, सहबरण
Nomination	मनोनयन
Co-ordination	समन्वय
Co-ordinated service	समन्वित सेवा
Co-ownership	सहस्वामित्व
Co-partner	सहभागी
Copy	प्रतिलिपि, नक्स
Copyist	प्रतिलिपिक
Copyright	प्रकाशनाधिकार
Cordial	मैत्रीपूर्ण, सङ्घावपूर्ण
Cordial relations	मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध
Cordial welcome	हार्दिक स्वागत
Cordon off	घेरा ढालना
Cordon party	घेरा टोली
Core	आन्तरिक
Corporal punishment	शारीरिक दण्ड
Corporate body	निगम निकाय
Corporate life	सम्मिलित जीवन
Corporation	निगम, नगरमहापालिका
Corporator	महापालिका सदस्य
Corps	कोर
Corrected	शोधित, संशोधित
Corrective	दोष-निवारक
Correct solution	शुल हੜ

Counterflict	कूट, जाली, खोटा
Counter flow	प्रतिवाह
Counter foil	प्रतिपर्ण
Countermand	प्रत्यादेश, देना; प्रतिसहरण
Counter measure	प्रत्युपाय; प्रतिविधान
Counter part	प्रतिरूप, प्रतिवस्तु
Counter poised	प्रतितुलित
Counter proposal	प्रतिप्रस्ताव
Counter signature	प्रतिहस्ताक्षर
Counter stroke	प्रत्याघात
Counter suggestion	प्रतिनिदेशन
Country side	देहात
Country wide	देश भर में
Coup de tat	राज्य विप्लव, तख्ता उलट देना
Coup de grace	सहज विप्लव द्वारा अन्त
Coup de main	सहमा विप्लव
Courier	सदेशवाहक, पत्रवाहक
Courier service	वाहक व्यवस्था
Course	पाठ्यक्रम; मार्ग; प्रक्रिया
Course academic	शैक्षिक पाठ्यक्रम
Course complementary	पूरक पाठ्यक्रम
Course elementary	प्रारंभिक पाठ्यक्रम
Course normal	औपचारिक पाठ्यक्रम
Course general	सामान्य पाठ्यक्रम
Course honours	प्रवीण/आनंद पाठ्यक्रम
Course intensive	प्रगाढ़ पाठ्यक्रम
Course normal	सामान्य पाठ्यक्रम
Course of action	कार्यविधि
Course orientation	अनुस्थापन-पाठ्यक्रम
Course terminal	सावधि पाठ्यक्रम
Course water	जलमार्ग
Course of river	नदी का मार्ग
Course of study	अध्ययन पाठ्यक्रम
Court	न्यायालय; प्रांगण
Court, civil	दीवानी न्यायालय
Court, criminal	फौजदारी न्यायालय

Courts jurisdiction	न्यायालय देशवादिकार
Court of small causes	समुदाय न्यायालय, भृशासत्र यूक्तीया
Court of revenue	राजस्व न्यायालय
Court subordinate	अधीनस्थ न्यायालय
Court, supreme	महोत्तम न्यायालय
Court martial	मेना-न्यायालय, कोट मार्टिन
Court of appeal	अपेय न्यायालय
Court of wards	प्रतिपालक अधिकारण
Courtesy	गौबन्ध, गिष्टवा
Courtesy and etiquette	गौबन्ध और गिष्टावार
Courtesy call	गिष्टावारिक बैट
Covenant	प्राविदा, प्रतिग्राम
Cover	भावरण
Cover	प्रविना, प्रष्ठाम
Coverage	मीमांसा, घासि
Covering letter	स्पाला-मन; मह-मन
Covering list	उपरि गृषी
Crack shot	पश्चा नियांवार
Craft bidding	इचम भवानरण

Felon	घोर अपराधी
Criminal abortion	भ्रूणहत्या
Criminal	आपराधिक अभियोग
Criminal breach of trust	आपराधिक विश्वासघात
Criminal case	फौजदारी मुकदमा/अभियोग
Criminal force	आपराधिक बस प्रयोग
Criminal intent	आपराधिक अभिप्राय
Criminal law	दण्डविधि, फौजदारी कानून
Criminal offence	दण्डनीय अपराध, दण्डापराध
Criminal jurisdiction	आपराधिक ध्वेताधिकार
Criminal justice	दण्ड न्याय
Cripple	अपंग
Crisis	संकट स्थिति, सकटावस्था
Periodicity of crisis	संकट-सामयिकता
Criterion	कसौटी, मानदण्ड
Critical	आलोचक, आलोचनात्मक
Critical period	संकटकाल
Critical point	संकट विन्दु
Critical situation	नाजुक स्थिति
Critical state	नाजुक स्थिति/अवस्था
Critical thinking	विवेचनात्मक चिन्तन
Criticise	आलोचना करना, समालोचना करना
Criticism	आलोचना, समालोचना
Cross	रुष्ट; काटना; प्रति
Cross action	प्रत्युत्तर वाद/प्रति कायं
Cross appeal	प्रतिअपील, प्रत्यपील
Cross breeding	संकरण
Cross complaint	प्रतिपरिवाद
Cross country	क्षेत्रपार
Cross examination	जिरह, प्रतिपूछा
Cross list	अनुस्तीर्ण (शिक्षा) विषय-सूची
Cross reference	अन्तर्निर्देश; अन्योन्य संदर्भ
Cross roads	चौराहा
Cross voting	प्रति मतदान, प्रतिकूल मतदान
Cross wind	तिरछो हवा
Crowd	भीड़

Crucial	निर्णयक
Crucial period	निर्णयक काल
Crust of the earth	भूतटम्, भूपृष्ठ
Culinary	पारंगता
Culpable	संशोध, दण्डनीय
Culpable homicide	संशोध/दण्डनीय मानव हत्या
Culpable negligence	संशोध/दण्डनीय प्रमाद/गवेहनक
Culpit	होमी
Cult	ग्रन्थशास्त्र, पृथ, धर्म
Cult object	पुराण-प्रतार्पण
Culturable area	हृत्य शेष
Cultural	मानविक
Cultural affinity	जातीयि समाजा
Culture pattern	मनुष्यि रूप
Cumbersome	तुल्य, व्यापक
Cumulative effect	संख्यी प्रभाव
Cumulative factor	संख्यी व्यक्ति
Cumulative remedy	संविधि उपचार
Cumulative vote	संख्यी दाव
Cumulative weight	संख्यी भार
Curate	प्रदाताद-प्राप्ताद
Cure	रोदमुक्ति, चिकिता, इथर, गोदावरी
Currency	मुद्रा, वृत्ताद
Hard currency	हार्ड मुद्रा
Inflation of currency	प्रदातादीर्घा
Soft currency	प्रदाताद मुद्रा
Cutter	प्रादातादी
Cutter glass	प्रदातादी दौर देखता, फिर झूरि
Cutout	कट आउट
Cutter wall	प्रदाताद दौर देखता
Cutterbar	प्रदाताद
Cutter bar	प्रदाताद
Cutter bar	प्रदाताद फ्रेम
Cutter bar	प्रदाताद, बट्टी
Cutter bar and cutter frame	प्रदाताद-दौर देखता
Cutter bar	प्रदाताद, बट्टी, फ्रेम
Cutter bar	प्रदाताद एवं

Customary rights	रुद्धाधिकार
Custom free	सीमाशुल्क-मुक्त
Customs	सीमाकर, सीमाशुल्क
Custom barrier	सीमाशुल्क व्यवधान
Customs formalities	सीमाशुल्क सम्बन्धी औपचारिकताएं
Cut motion	कटोरी प्रस्ताव
Cut stone	गढ़ा पत्थर
Cypher	बीजाक, गूढ़लेख, शून्य, सिफर

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Call for the file	पत्रावली माँगना/फाइल तलब करना
Call to account	स्पष्टीकरण माँगना
Call upon to show cause	कारण बताने को कहना
Capacity to work	कार्य-सामर्थ्य
in the—of	के रूप में, वहैसियत
in official—	अधिकारी रूप में, वहैसियत ओहदा
Cardinal issue	आधारभूत बाद पद
Careful comparison	सावधानी से तुलना करना, सावधान तुलना
Careful observance	सावधानी से पालन/अनुपालन
Carried forward	अग्रेनीत
Carry into effect	कार्यान्वित करना, जारी करना
Carry weight	गुरुता रखना, बल रखना
(the argument/carries weight)	इस तर्क में बल है
Case, merits of the—	मामले के गुण-दोष, मामले की अच्छाइयाँ-नुराइयाँ
—to decide a case	हर दृष्टिकोण से विचार कर मामला निर्णीत करना
on its merits	-
-	-
in a number of cases	- बहुत सी स्थितियों में, बहुत से मामलों में
in case of need	आवश्यकता पड़ने पर
Case, dealt into	सम्बवहृत प्रकरण, निस्तारित प्रकरण

case for trial	संवीक्षा के लिए वाद
Cease and effect	कार्य-कारण
Cease, without due	यथोचित कारण के बिना
without reasonable cause	युक्तियुक्त कारण के बिना, बिना मानूल बजह
Cease to have effect	प्रभावशून्य होना, प्रभावी न रहना
Cease to operate	प्रवृत्ति में न रहना, प्रवर्तनशून्य होना
Ceremonial function	रीतिक समारोह (उत्सव)
Chain of circumstances	परिस्थिति श्रृंखला
Change of place	स्थान-परिवर्तन
Change over orderly	व्यवस्थित परिवर्तन
Channel of correspondence	पत्र-व्यवहार सरणि, पत्र-व्यवहार मार्ग
Channal, through proper	समुचित मार्ग से, समुचित अधिकारियों के माध्यम से, विधिवत्
Character and antecedents	चरित्र और प्रावृत्ति/पूर्ववृत्ति
Charge	अभियोग, आरोप, दोषारोप
to answer charge	जवाबदेही करना, स्पष्टीकरण करना
to assume charge	पदग्रहण करना, कार्यमार लेना, ओहर्ड संभालना
or	
to take charge	दोषारोपण करना, अपराधरोपण करना,
to draw up charg	जुर्म लगाना
or	
to frame charge	कार्यमार सौपना
to work over charge	दोषमुक्ति, इल्जाम से दस्तबरदारी
with drawal of charge	लोकमत जानने के लिए परिचालित (धूमाया गया)
Circulated for eliciting public	किसी भी दशा में, किसी भी हालत में
opinion	वर्तमान परिस्थितियों में, मौजूदा हालात में
Circumstances, under any	घटना परिस्थिति साक्ष
under the—	उपरि उद्धृत, ऊपर दिया हुआ
Circumstantial evidence	सेवा-श्रेणी
Cited above	खण्डणः
Class of service	स्पष्ट और संक्षिप्त
Clause by clause	स्पष्ट प्रमाण
Clear and concise	पूरे एक सप्ताह की पूर्व सूचना
Clear evidence	स्पष्टतः व्यक्त
Clear notice of a week	स्पष्ट शब्दों में प्रस्ताव
Clearly expressed	निकट सहयोग, प्रगाढ़ सहयोग
Clearly worded proposal	
Close co-operation	

Close scrutiny	सूझ्म परिनिरीक्षण
Closing of the function	उत्सव समापन, उत्सवावसान
Closing speech	समाप्ति भाषण
Coercive measures	चलप्रवर्ती उपाय
Collection charges	बसूली खर्च, समाहरण व्यय
Collection of data	आधार-सामग्री का संकलन, आँकड़ों का संग्रह
Collective expression of opinion	सामूहिक मताभिव्यक्ति
Collectively responsible	सामूहिक रूप से उत्तरदायी, समूहयुद्ध उत्तरदायी
Combined operation	संयुक्त क्रिया/संयुक्त कार्रवाई
Come into operation	प्रवर्तन में आना, लागू होना
Commemorative medal	स्मारक पद
Commendatory letter	संस्तावी पत्र
Commission of enquiry	जाँच/प्रतिपृच्छा आयोग
Committed for trial	अन्वीक्षा के लिए अभिप्रेषित, विचार के लिए उपायित
Committee of privileges	विशेषाधिकार समिति
Committee of ways and means	वर्षोपाय-समिति
Common good	सर्वकल्याण, सबकी भलाई
Common interest	सामान्य हित
Common irregularities	सामान्य अनियमितताएं
Communication, means of	संचार-साधन
Commutation of pension	पेंशन का राशिकरण, निवृत्ति-वेतन का राशिकरण
Comparative statement	तुलनात्मक विवरण
Compassionate grounds, on	कारुण्य आधार पर
Competent Court	सक्षम न्यायालय
Complete information	पूरी जानकारी
Comply with requirements	अपेक्षाओं को पूर्ति करना, जरूरतों को पूरा करना
Concentration of authority	अधिकार का संकेन्द्रण/केन्द्रीकरण
Conclusive and final	निश्चायक और अंतिम, कतई और आखिरी ठोस उदाहरण, निश्चायक उदाहरण
Concrete example	सक्षम प्राधिकारी की सहमति
Concurrence of the competent authority	

Conditional acceptance	सप्रतिवन्ध स्वीकृति, शर्ती मंजूरी
Condition, precedent	पूर्वगामी शर्त
Condition, expressed and implied	विहित और निहित शर्तें
Conduct and discipline	आचरण और अनुशासन
Confined to discussion	चर्चा तक संसीमित
Conflicting reports	परस्पर विरोधी प्रतिवेदन
Conflict of law	विधि संघर्ष
Connecting reference	सम्बन्धी निर्देश
Conseal, free and voluntary	स्वतंत्र और स्वैच्छिक सहमति
Consequence, of no	अमहत्वपूर्ण
Consequential loss	आनुपर्याप्ति का हानि
Consideration	विचार, दृष्टिकोण में रखना, ध्यान
(in dealing with the case if may be taken into—)	इस मामले को निपटाते समय इसे भी दृष्टिकोण में रखा जाय/इस पर भी विचार किया जाय/इसे भी ध्यान में रखा जाय।
in consideration of	प्रतिकल स्वरूप, के बदले में
it is for—whether	विचारणीय है कि क्या
under—	विचाराधीन
Consign to records	अभिलेखागार को सौनाना, परेपित करना
Consistency of conduct	आचरण दृढ़ता
Consistent	स्थिर, अविरोधी
as far as—with the provision	जहाँ तक उपबन्धों से संगत हो
Constituted by law	विधि द्वारा गठित
Constituted by or under	द्वारा या अधीन गठित/संस्थापित
Constitution of a committee	समिति का गठन
Constitutional remedies	संवैधानिक उपचार
Constructive criticism	रचनात्मक भालोचना
Construed, shall be	इसका यह अर्थ किया/समझा जायगा
Contempt of court	न्यायालय अवमान, तोहीन बदालत
Contention is untenable	तकनी असमर्थनीय है
Continuity of service	सातत्य सेवा, सेवा जारी रखना
Contrary to law	विधि विरुद्ध, विधि के प्रतिकूल
Contravention of the provision	के उपबन्धों का उल्लंघन
Conversant, fully—with	से पूर्णतया परिचित/मिज्ज
Convenicing proof	प्रत्यायक प्रमाण/विश्वासोत्पादक प्रमाण, यकिनी सदूत

Co-ordinating authority	समन्वय प्राधिकारी
Copy enclosed for ready reference	सुगम निर्देश के लिए प्रति संतान
Copy with a spare copy is enclosed	प्रतिलिपि एक अतिरिक्त प्रति के साथ संलग्न
Corrected to date	अद्यावधिक (आज तक) शोधित
Correspondence resting with your letter	आपके पश्च पर निलम्बित पत्रव्यवहार
Cost of maintenance	अनुरक्षण-ध्यय, रख-रखाव का खर्च, पोषण-परिव्यय
Course, matter of	साधारणतः:
Course of in the natural—	सामान्य क्रम में
Course of studies	पाठ्यक्रम
Course of employment	नियुक्ति पर्यन्त, नियुक्ति काल में
Creation of post	पद-सूजन
Credence give—to	विश्वास करना, यकीन करना
Credible information	विश्वसनीय सूचना
Criminal breach of trust	आपराधिक विश्वासघात
Critical situation	सकटकालीन परिस्थिति, नाटुक दृढ़ता
Crossing of efficiency bar	कार्यक्षमतारोध (दलदावरोध) पारन

D

Daily dietary	दैनिकी
Daily hours	दैनिक कार्य-घण्टे
Daily operating cost	दैनिक परिचालन लागत/परिव्यय
Daily progress chart	दैनिक प्रगति चार्ट
Daily rated worker	रोजादारी मजहूर
Daily routine	दैनिक कार्य
Daily wages	दैनिक मजहूरी
Days	मध्य
Dam	बांध, डम
Damage	क्षति, टॉट-फूट
Loss	हानि
Damagable articles	खराब होने वाली वस्तुएँ
Damaged cargo	क्षत माल
Damages	क्षतिपूत्र्य, हजनिया, हानि-पूत्रि
Damages suit	क्षतिपूत्रि वाद
Damage survey	क्षति-सर्वेक्षण
Damned lie	सफेद झूठ
Damp proof	सील-रोक
Danger	खतरा, खय
Mishap	अनिटि
Peril	संकट
Hazard	जोखिम
Risk	हानिमय, जोखिम
Jeopardy	विपद्
Dangerous	भयपूर्ण
Dangerous disease	भयानक रोग
Dangerous point	खतरा-बिन्दु
Dangerous trade	खतरनाक व्यापार
Dangerous zone	खतरनाक इलाका

Danger sign	खतरा संकेत
Dark coloured	श्याम वर्ण
Dark continent	अल्पज्ञात महाद्वीप
Data	आधार-सामग्री, अंकड़े
Data irrelevant	असम्बद्ध अंकड़े
Date fixed	नियत दिनांक
Dated	दिनांकित
Dated ante	पूर्व दिनांकित
Dated post	उत्तर दिनांकित
Date line	दिनांक-रेखा
D	दिनाक
Date of application	आवेदन-दिनांक
Date of commencement	प्रारम्भ-दिनांक
Date of issue	निर्गम दिनांक
Date of maturity	परिपाक-दिनांक, परिपवता दिनांक
Dating	तारीख-निर्धारण, तिथि-निर्धारण
Day book	रोजनामचा
Day dreaming	दिवास्वप्न
Day shift	दिन की पारी
Days of grace	रियायती दिन, अनुप्रह दिन
Dead	मृत
Lifeless	निर्जीव
Dead account	निप्तिक्षय लेखा
Dead article	अनाम वस्तु
Dead calm	पूर्ण शांति
Dead end	चरमान्त, अन्त
Deadlock	गत्यविरोध; गतिरोध
Dead weight	कुल भार
Deadening effect	शासक प्रभाव
Deadly	घातक
Dead slow	बिल्कुल धीरे
Dead stock	देकार माल, अविक्रेय माल
Dead stop	बिलकुल रुक जाओ
Deal	व्यवहृत करना; व्यापार करना
Deal with a person	व्यक्ति से व्यवहार करना, व्यक्ति से निपटना
Deal with a file	प्रावली निपटाना

Deal with a situation	
Dealer	स्थिति का मुकाबला करना
Merchant	विक्रेता
Trader	विणिक, सौदागर
Peddler	व्यापारी
Dealings	फेरी वाला
Dealing with	लेना-देना, लेन-देन, व्यवहार
Dealing assistant	से सम्बन्धित
Dear money	प्रकरण सहायक, सम्बन्धित सहायक
Dearness	महँगा रूपया, उच्च व्याज रूपया
Death anniversary	महँगाई
Debar	मृत्यु-दिवस, पुण्य तिथि
Deprive	रोकना, विवर्जन, वर्जित करना
Hinder	रोक लगाना, विवर्जित करना
Prohibit	वर्चित करना
Dequation	अडचन ढालना
Debarred from service	प्रतिबद्ध करना
Debase	अनहं करना
Debatable matter	सेवा वारित
Debate	दूषित करना
Debenture	विवाद-विषय, विवाद-विषय
Debility	वाद-विवाद, वाद
Debit	प्रहरण-पत्र, डिवेंचर
Debit advice	दुर्बलता
Debit balance	नामे ढालना, खर्च में ढालना
Debt	नामे सूचना/संज्ञापन
Debt accruing	बाकी
Debt floating	
Debt perpetual	
Debt capital	
Debt charges	
Debt legislation	
Debt limit	
Debt exemption	

Debtor	अधमर्जन, ऋणी, देनदार
Creditor	उत्तमर्जन, देनदार
Decade	दशी, दशक
Decay	क्षय
Decay product	क्षयज पदार्थ
Deceit	घोखा
Fraud	कपट
Decency	शिष्टता, भद्रता, शिष्टाचार
Decentralised	विकेन्द्रीकृत
Deceptive	आतिजनक
Decide	विनिश्चय करना
Determine	अवधारण करना
Conclude	निष्कर्ष निकालना
Decidedly	निश्चित रूप से
Deciding vote	विनिरचायक मत
Decision	विनिश्चय, निर्णय
Declaration	घोषणा
Dyeing declaration	मृत्युकालीन घोषणा
Declaration form	घोषणा-पत्र
Declaration of solvency	मम्पन्नता की घोषणा
Declaration of war	युद्ध घोषणा
Declarative law	घोषणात्मक विधि
Declaratory decree	घोषणात्मक आज्ञाप्ति/फिरो
Declared	घोषित
Declared value	घोषित मूल्य
Declarer	घोषक
Decontrol	विनियन्त्रण, कन्ट्रोल हटाना
Decoration	मजावट; विभूषण
Decoration, military	सैनिक विभूषण सम्मान
Decorative	सजावटी
Decorum	शालीनता, शिष्टता, शिष्टाचार, सौंठद
Decoy	फेसाना, लूभाना, बरगलाना
Decree	हिंगरी, आज्ञाप्ति
Edict	राजाज्ञा
Proclamation	उद्घोषणा
Law	विधि

Statute	
Decree holder	परिनियम डिगरी धारी, आज्ञाप्ति धारी
Dedicated (as of book)	समर्पित
Deduction	कमी, कटौती; निगमन
Deduction at source	स्रोत पर कटौती
Deductive reasoning	निगमनिक तकं -
Deed	विलेख, दस्तावेज़
Agreement	अनुबन्धन पत्र, करारनामा
Deed of gift	दान विलेख, दानपत्र
Deed of lease	पट्टा
Deed of mortgage	बन्धक पत्र
Deed of sale	विक्री-पत्र
Deed of settlement	व्यवस्थापन पत्र
Deed of document	दस्तावेज़, लेख्य
Deed of instrument	करण-पत्र
Deem	समझना
Deface	विरूपित करना, मुहर लगाना
Defaced coin	विरूपित सिक्का
Defaced stamp	मुहर लगा स्टैम्प
Defacement	भोहर लगाना; विरूपित
Defacto	वस्तुतः
Defacto government	वस्तुतः सरकार
Defacto recognition	तथ्येन मान्यता
Dejure de facto	विधितः; अधिकारतः
Defamation	मानहानि
Defamation suit	मानहानि का दावा
Default	चूक, अभाव
Defaulter	चूककर्ता, बकायादार
Default in payment	भुगतान न करना
Defeat	हार, पराजय; हराना
Defect	दुष्टि, दोष, खराबी
Defect latent	अप्रकट दोष
Defect malnutrition	हीम-पोषण दोष
Defect physical	शारीरिक दोष
Defective	दोषपूर्ण, सदोष, त्रुटिपूर्ण
Defence	प्रतिरक्षा

Defence forces	प्रतिरक्षा सेना
Defence installation	प्रतिरक्षा संस्थापन
Defence organisation	प्रतिरक्षा संगठन
Defence services	प्रतिरक्षा सेवाएँ
Defend	प्रतिबाद करना, बचाव करना
Vindicate	प्रतिसमर्थन करना, निर्दोष सिद्ध करना
Defendant	प्रतिवादी
Defended area	प्रतिरक्षित क्षेत्र
Defender	प्रतिरक्षक
Defensive	रक्षात्मक, रक्षी, प्रतिरक्षी
Defensive war	प्रतिरक्षात्मक युद्ध
Defer	आस्थगित करना
Deferred	आस्थगित
Deferred pay	आस्थगित वेतन
Deferred payment	आस्थगित मुगतान
Defiance	अवज्ञा
Deficient	हीन, अपूर्ण, [पुनिहीन आहार as in diet]
Deficiency	न्यूनता, अभाव, कमी
Deficit	घाटा, कमी
Deficit area	कमी का क्षेत्र
Deficit budget	घाटे का बजट
Define	परिभाषा करना, निश्चित करना
Definite	निश्चित, सीमित
Definite form	निश्चित रूप
Deflation	अपस्फीति
Deformation	विरूपण
Deformed	विकृत, विरूपित
Deformity	विरूपता; विकृति
Deformity, mental	मानसिक विकृति
Deformity, physical	शारीरिक विकृति विरूपण
Defraud	घोखा देना, कपट से लेना
Defunct	निपिक्षय, निष्प्रभार, समाप्त
Defunct company	निपिक्षय कम्पनी, निष्चेष्ट कम्पनी
Defy	अवज्ञा करना

Degradation	अवक्रमण, दर्जा घटाना, पदावनति;
Degraded	पदावनत, अवक्रमित
Degree	दिशी; अंश, कोटि, मात्रा
Degree of accuracy	परिशुद्धता मात्रा
Degree of civilisation	सम्यता-विकास स्थिति
Dejure	विधित., विधिसम्मत
Dejure recognition	विधि-मान्यता
Defacto	वस्तुतः
Delay	देरी, विलम्ब
Procrastinate	टालमटोल करना
Delay report	विलम्ब रिपोर्ट
Delayed	विलम्बित
Delaying tactics	विलम्बकारी चाले
Delegate	प्रतिनिधि; सौंपना
Delegated responsibility	सौंपा दायित्व, प्रत्यायुक्त उत्तरदायित्व
Delegation	शिष्टमठन, प्रतिनिधिमंडल
Delegations of powers	शक्तिप्रत्यायोगन; अधिकारों का प्रतिनिधान
Delete	निकाल देना, काट देना
Deletion orders	विलोपन आदेश
Deliberate	जान-वूझकर किया हुआ; विमर्श करना
Deliberately	जान-वूझकर
Deliberative body	विचारक निकाय
Delicate question	भाजुक सवाल/प्रश्न
Delicious	सुस्थानु
Delimit	हदबन्दी करना, सीमा निर्धारण करना
Delimitation	परिसीमन, हदबन्दी, सीमा-निर्धारण
Delineation	चित्रण
Delinked	अलग की हुई, पृष्ठक
Delinquency	अपचार
Delinquent	अपचारी
Delivery	वितरण, सुपुर्दंगी; माल छुड़ाई; प्रसव
Delivery express	तुरंत वितरण
Delivery spot	सुपुर्दंगी स्थान
Delivery, to take	माल छुड़ाना

Delivery window	वितरण दिनांकी
Deluge	संप्लावन करना
Delusion	विश्व्रम
Demagogue	जनान्दोलक, जनोत्तेजक
Demand	माँग, अभियाचना
Demand, effective	समर्थ माँग
Demand, restricted	सीमित माँग
Demand factor	माँग-गुणांक
Demand notices	माँग नोटिस
Demand slip	माँग-पर्ची
Demarcation	सीमांकन, सीमानिर्धारण
Demarcation line	सीमा-रेखा
Demeanour	मुद्रा, चैल्टा, चाल-ढाल, भाव-भगिमा
Demigod	अंशावतार
Demilitarisation	विसंगीकरण
Demobilisation	सैन्य विघटन, सैन्य वियोजन
Democracy	लोकतंत्र, प्रजातंत्र
Democratic	लोकतंत्रात्मक
Democratic Republic	लोकतंत्रात्मक गणराज्य
Demonetisation	विमुद्रीकरण
Demonstration	प्रदर्शन; निरूपण
Demonstrative	प्रदर्शनात्मक; निश्चायक
Demoralisation	नैतिक पतन
Demoralised	नीतिभ्रष्ट
Demote	पदावनत करना, पद घटाना
Demotion	पदावनति, अवनति
Demur	आपत्ति करना
Demurrage	डेमेरज, विलम्ब शुल्क
Denaturalization	अनागरिकीकरण
Denaturalize	अदेशीयकरण
Denial	अस्वीकार, इन्कार, वंचित करना, प्रत्याछ्यान, अनंगीकरण
Denial of justice	न्याय-वंचन
Denial of rights	अधिकार-वंचन
Denomination	मूल्य वर्ग; नाम; अभिधान

Denominational	साम्प्रदायिक, वर्णीय
Denominational institution	जाति/साम्प्रदायिक संस्था
Denominational value	अंकित मूल्य
Denote	बताना, सूचित करना, व्यक्त करना
Denounce	अवज्ञापित करना
De nove	नये सिरे से
Dense	सघन, घना
Density	घनत्व, घनता
Department	विभाग
Departure	प्रस्थान; छूटना
Departure of train	गाड़ी का प्रस्थान/रवानगी
Dependent	आश्रित, पराधीन
Depletion	क्षय, हसन
Deploy	फैलाना, प्रविस्तारण
Deponent	अभिसाक्षी, बयान देने वाला
Deportation	विवासन, देश-निकाला
Depose	बयान देना, अभिसाक्ष्य देना
Deposit	निषेप
Deposit call demand	माँग जमा
Deposit current	चालू जमा
Deposit, fixed	नियतावधि जमा, सावधि निषेप
Deposit-time	सावधि जमा
Deposition	अभिसाक्ष्य बयान
Depositor	जमाकर्ता
Depository	निषेप-स्थान
Depravity	अप्टता
Depreciate	मूल्य-ह्रास होना
Depreciated cost	ह्रसित मूल्य
Depreciation	अवमूल्यन, मूल्यह्रास
Depreciation of charges	मूल्यह्रास प्रभार
Appreciation	अधिमूल्यन
Devaluation	अवमूल्यन
Deputation	प्रतिनियुक्ति; शिष्टमण्डल
Deputy	उप-, प्रति-
Derequisition	अधिग्रहण-मोचन, अधिग्रहण से छुड़ाना

Dereliction	उपेक्षा, विमुखता
Dereliction of duty	कर्तव्य की उपेक्षा, कर्तव्य विमुखता
Derived	व्युत्पन्न
Derogation	अप्रतिष्ठा, अनादर; अल्पीकरण, अपकर्य
Derogatory	अनादरपूर्ण, अप्रतिष्ठाजनक
Descendant	वंशज, संतति
Descending order	अवरोही-क्रम, अवरोह-क्रम
Ascending order	आरोही-क्रम, आरोह-क्रम
Descent	वंशक्रम, वशानुक्रम, उद्भव
Descent lineal	पैतृक वंशक्रम
Descriptive	वर्णनात्मक
Descriptive language	वर्णनात्मक भाषा
Descriptive toll	विवरण-नामावली
Desertion	अभित्याग, भाग जाना, पलायन
Deserving	योग्य, सुपात्र
Design	नमूना, फ़िजाइन, अभिकल्प
Plan	आयोजना/योजना
Scheme	योजना
Project	परियोजना
Design	संचितन; कुर्चितन
Premeditation	पूर्वचितन
Designated	नामोहिट
Designation	पदनाम, अधिधान
Desirability	वांछनीयता
Desirable	अभीष्ट, वांछनीय
Desired action	वांछित कार्यवाही/कारंवाई
Despatch	प्रैपण, भेजना
Despatch note	प्रैपण पत्र, रवानगी पत्र
Destination	गंतव्य स्थान, मंजिल
Destiny	नियन्ति, भाग्य
Destitute	निराधित
Destruction	विनाश
Destruction wanton	मनमाना विनाश
Detached	अलग किया हुआ
Detailed	व्योरेवार, विस्तृत

Detailed analysis	विस्तृत विश्लेषण
Detailed report	विस्तृत भाष्या/रिपोर्ट
Detain	निरुद्ध करना, रोकना
Detention	निरोध, अवरोध, रोका जाना
Detention of train	गाड़ी का रोका जाना
Detect	पता लगाना
Deterioration	ह्रास, कमी, बिगड़ना
Determination	संकल्प, निश्चय, अवधारण
Determination of priorities	अप्रता-निर्वाचन, प्राथमिकता अवधारण
Determined	निर्धारित, अवधारित
Determining factor	निर्धारक उपादान, निर्धारी कारण
Deterrent	निवारक, निवत्तक
Deterrent punishment	निवत्तक दण्ड
Detriment	हानि
Detrimental	हानिकर
Injurious	अहितकर
Detriment to the interests of—	के लिए हानिकर
Devaluation	अवमूल्यन
Devaluation of currency	मुद्रा का अवमूल्यन
Development	विकास, उन्नति, प्रगति
Improvement	सुधार
Progress	उन्नति
Development, allround	सर्वांगीण विकास
Development, arrested	अवरुद्ध विकास
Development, emotional	भावात्मक विकास
Development, personality	व्यक्तित्व विकास
Development, physical	शारीरिक विकास
Deviation	विचलन
Deviation from right path	सदमार्ग से विचलित होना
Device	युक्ति
Devolution	अन्तरण, घागभन, अवकमण
Devotion	निष्ठा, भक्ति
Devotion of duty	कर्तव्य निष्ठा
Devout	भक्त, भक्तिनिष्ठ
Holy	पादन

Pious	धर्मशील
Religious	धार्मिक
Dexterity	निपुणता, कौशल
Diagnosis	निदान
Dictation	इमला, श्रुतलेख
Dictatorship	तानाशाही
Diction	कथन-शैली, वाक्य-पद्धति
Style	लेखन-पद्धति
Dictum	अभ्युक्ति, उक्ति
Difference	भेद, अन्तर
Difference, age	आयु-भेद, वयस-भेद
Difference, essential	तात्त्विक भेद
Difference, inborn	जन्मजात भेद
Difference, innate	सहज भेद
Difference, rank	कोटि-भेद
Difference of opinion	मत-भेद
Differentiate	अवकलन करना, विभेद करना
Differentiation	विशिष्टीकरण, विभेदीकरण
Difficulty	कठिनाई
Obstacle	बाधा
Diffidence	आत्मसंशय
Diffused	विसरित, छितरा, विस्तृत
Digest	सार-संग्रह, निबन्ध, निचय; पचाना
Digestive	पाचक
Digestive efficiency	पाचन-शमता
Digit	अंक
Dignitary	संघ्रांत जन/व्यक्ति, उच्चपदधारी
Dignity	गरिमा
Glory	गौरव
Digression	विषयांतर
Dilation	अभिस्तरण, फैलाव
Dilatory	विलम्बकारी, विलम्बी
Dilatory tactics	विलम्बकारी युक्ति
Dilemma	द्विविधा
Diligence	परिश्रमशीलता, अध्यवसाय, कर्मचिता

Diligent	मध्यवसायी
Dimension	परिमाप, आयाम
Diminution	ह्रास, घटाव
Diplomacy	राजनय
Diplomat	राजनयिक, राजनयज्ञ
Diplomatic bag	राजनयिक डाक ईंता
Diplomatic corps	राजनयिक दूतवर्ग
Diplomatic move	'राजनयिक चाल
Dire	घोर, भयंकर
Dire consequences	भयंकर परिणाम
Direct	प्रत्यक्ष; निर्देश देना
Direct action	सीधी कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही
Direct appointment	सीधी नियुक्ति
Direct approach	सीधी पहुँच
Direction	निर्देश
Order	आदेश
Command	समादेश
Directive	निर्देश, निर्देशात्मक
Directive principles	निर्देशी सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत
Direct knowledge	प्रत्यक्ष ज्ञान
Direct recruitment	सीधी भर्ती
Directly	प्रत्यक्ष रीति से
Directorate	निर्देशालय
Directory	निर्देशिका, निर्देशिका
Disability	विकलांगता; अशक्तता; निर्योग्यता
Inability	अयोग्यता
Incapacity	असमर्थता
Ineligibility	अपात्रता
Disadvantageous	अलाभकारी
Disagree	असहमत होना
Disagreement	असहमति
Disapprobation	अननुमोदन, नाप्रसंदणी
Disapproval	अननुमोदन, निरनुमोदन
Disarmament	निरस्त्रीकरण
Disarmament, moral	नैतिक निरस्त्रीकरण

Disarming	हथियार छीनना, निष्क्रिय करना
Disband	भंग करना, तोड़ देना
Disbandment	तोड़ना, विघटन
Disburse	राशि वितरण करना
Disbursement of pay	वेतन वितरण
Discard	निवालना, फेंक देना
Discord	फूट, अनबन
Discernment	विवेकिता/विवेचन-समता
Discharge	उन्मोचन; निर्वहन
Acquit	विमुक्त करना
Liberate	मुक्त करना
Release	छोड़ना
Discharge (of process)	उन्मोचन; निर्वहण
Discharge (of water)	निस्सरण, निस्सारण
Discharge (of an employee)	वरदास्त करना
Discharge (of a prisoner)	उन्मुक्त करना, रिहा करना
Discharged	उन्मुक्त; दोषमुक्त
Discharge of liability	दायित्व-मुक्त
Discharged from service	सेवा-मुक्त
Disciplinary	अनुशासनीय, अनुशासन सम्बन्धी
Disciplinary action	अनुशासन-कायंवाही, आनुशासनिक कायंवाही
Disciplinary measure	अनुशासनिक उपाय
Disclaim	स्वत्व त्याग करना; दावा छोड़ देना, अस्वीकार करना
Disclosure	प्रकटन
Disconnection	वियोजन, काटना
Discontent	असन्तोष
Discontinuance	विच्छेद, बन्द कर देना, विराम
Discount	बट्टा; अपहार
Discourse	प्रबचन
Discovered territory	अन्वेषित भू-भाग
Discredited	अपश्वस्त
Discredited document	अपश्वस्त लेख्य
Discreet	विवेकी, सतर्क, गंभीर

Discrepancy	असंगति, विसंगति, विभेद, भिन्नता
Discretion	विवेक, स्वविवेक, समझ-बूझ
Discretionary	[विवेकाधीन
Discriminate	विभेद करना
Discrimination	विभेद, विवेचन
Discrimination, racial	प्रजातीय भेदभाव
Disdain	धूपा, अवज्ञा, तिरस्कार
Discriminatory	भेदमूलक
Discussion	विचार-विमर्श, चर्चा
Disease	रोग, बीमारी
Disease, epidemic	महामारी
Disease, infectious	संक्रामक रोग
Disease carrier	रोगवाहक
Disease susceptibility	रोग शकास्पदता
Disembargo	अधिरोध हटाना
Disembarkation	जहाज से उतारना
Disequilibrium	वैषम्यावस्था
Disfigure	विरूपण करना
Disfranchisement	मत वंचन, मत-निरोध
Disgrace	अपयश, बदनामी
Disharmony	विस्वरता, वेसुरापन; असामंजस्य
Dishonest	वेईमान
Dishonour	नकारना (cheque, bill), अनादर
Disinclination	अप्रवृत्ति
Disinfectant	रोगाणुनाशक, नसंक्रामक
Disinfection	निस्संक्रमण, रोगाणुनाशन
Disinherit	दाय-वंचित करना, दायच्युत करना
Disintegration	विवर्ण, विभेदन, वियोजन
Disinterested action	निष्काम कर्म, निलिप्त कार्य
Disinterestedness	निष्कामता, निःस्व व्यंता
Dislocation	विस्थापन
Dislocation of business	व्यवसाय विस्थापन, कार्य विस्थापन
Disloyalty	दोह, गदारी, निष्ठाहीनता
Dismemberment	विघटन, विभाजन

Dismiss	पदच्युत करना, वर्दास्त करना
Disobedience	अवज्ञा
Disorder	अव्यवस्था; शातिभंग
Disorderly	उच्छृंखल
Disorderly behaviour	उच्छृंखल व्यवहार
Disorderly conduct	उच्छृंखल आचरण
Disorganization	विगड़न, विघटन
Disparage	अबवाद करना, अनादर करना
Disparity	असमता, असमानता
Dispense with	अलग करना
Disperse	तितर-वितर करना; भंग करना/होना
Dispersal of seeds	बीज विसरेना
Dispersal area	विसर्जन क्षेत्र
Displace	विस्थापित करना
Displaced person	विस्थापित व्यक्ति
Displacement	विस्थापन
Display	प्रदर्शन, सजावट, दिखाना, प्रदर्शित करना
Display of items	वस्तु-प्रदर्शन
Disposal	निस्तारण, निपटान; प्रबन्ध; विक्रय
Disposal of business	काम निपटाना, कार्य-निस्तारण
Disposition	तरतीब, विन्यास; प्रवृत्ति
Disposition of mind	मनोभाव
Dispossession	कब्जा हरण, धारणच्युति
Disproportion	व्यनुपात
Dispute	विवाद
Disqualification	अनर्हता, अयोग्यता
Disqualified	अनर्ह, अयोग्य
Disregard	अवहेलना, उपेक्षा/उपेक्षा करना
Disrespect	निरादर, अनादर
Disobedience	अवज्ञा
Insubordination	अनधीनता
Disposition	स्वभाव, वृत्ति, मनोवृत्ति
Disrespectful	निरादरपूर्ण
Dissatisfaction	असन्तोष

Discrepancy	असंगति, विसंगति, विभेद,
Discretion	विवेक, स्वविवेक, समझ-
Discretionary	विवेकाधीन
Discriminate	विभेद करना
Discrimination	विभेद, विवेचन
Discrimination, racial	प्रजातीय भेदभाव
Disdain	पूणा, अवज्ञा, तिरस्क
Discriminatory	भेदमूलक
Discussion	विचार-विमर्श, च
Disease	रोग, बीमारी
Disease, epidemic	महामारी
Disease, infectious	संक्रामक रोग
Disease carrier	रोगवाहक
Disease susceptibility	रोगशक्ति
Disembargo	जहाज से
Disembarkation	बैषम्या
Disequilibrium	विरूप
Disfigure	मत र
Disfranchisement	अप
Disgrace	विस
Disharmony	बेद
Dishonest	नह
Dishonour	आ
Disinclination	रो
Disinfectant	निर
Disinfection	दाय
Disinherit	
Disintegration	विषट्टन
Disinterested action	निष्काम
Disinterestedness	निष्कामता,
Dislocation	विस्थापन
Dislocation of business	व्यवसाय विस्थ.
Disloyalty	द्रोह, गदारी, नि
Dismemberment	विषट्टन, विभाजन

Distress warrant	अभिहरण अधिपत्र
Distressed	विपद्ग्रस्त
Distribution	वितरण, वाँटना
Distribution point	वितरण-बिन्दु
Distributory	रजबहा
Distrust	अविश्वास
Disturb	बाधा ढालना, विघ्न ढालना
Disturbance	बाधा; अशांति, गड़बड़
Disturbance, emotional	भाव-विक्षोभ
Disturbance, periodic	आवर्ती विक्षोभ
Disturbance of peace and order	शांति और व्यवस्था का भंग
Disturbed regions	विक्षुद्ध प्रदेश
Disuse	अनुपयोग
Disutility	तुष्टिहीनता
Disvalue	विमूल्य
Ditto	यथोपरि, तदेव
Divergent	अपसारी, विभिन्न
Divergent views	विभिन्न मत
Diversification	नाना रूप करना, विविधता
Diversification	मोड़, विशाखन, घ्यपवत्तन
Diversification of traffic	यातायात का विशाखन
Diversity	भिन्नता, विवर्मता
Divert	बदलना, दूसरे मार्ग पर ले जाना-
Divided	विभाजित
Dividend	लाभाश
Dividend, deferred	आस्थगित लाभाश
Dividend, paid	दत्त लाभाश
Dividend, preference	अधिमानी लाभाश
Bonus dividend	अधिलाभ
Dividing line	विभाजक रेखा
Doctrine	मत, सिद्धांत, वाद
Doctrine of evolution	विकासवाद
Doctrine of inherent rights	सहजाधिकार सिद्धांत
Doctrine of lapse	संयन्त्रिति

<i>Dissemination</i>	विकीर्णन, प्रसार
<i>Dissemination of disease</i>	रोग-प्रसार
<i>Dissemination of seed</i>	बीज विसरण
<i>Dissemination of news</i>	समाचार-प्रचार
<i>Dissension</i>	भत्तेद
<i>Dissent</i>	विसम्मति, असहमति
note of dissent	विसम्मति/असहमति टिप्पणी, विमत
<i>Dissenting opinion</i>	विमति
<i>Dissenting judgement</i>	विमत निषेध
<i>Dissertation</i>	शोध-निवन्ध
<i>Dissipation</i>	विसरण, दुष्यंसनिता
<i>Dissipation of energy</i>	बल-क्षय; कर्जा-क्षय
<i>Dissolution</i>	विलयन; भंग, विघटन
<i>Dissolution of marriage</i>	विवाह-विच्छेद
<i>Distant</i>	दूरस्थ
<i>Distillery</i>	आसवनी, मध्य-निर्माणशाली
<i>Distinct</i>	मिळन; व्यक्त, विशिष्ट
<i>Distinction</i>	भेद, अन्तर; उपाधि
<i>Distinctive</i>	विशिष्ट, प्रभेदक, पृथक, मिळन
<i>Distinctive number</i>	पृथक संख्या
<i>Distinctive post</i>	विशिष्ट पद
<i>Distinctly</i>	स्पष्टतः
<i>Distinguish</i>	प्रभेद करना
<i>Distinguished</i>	पारंगत, प्रसिद्ध, विशिष्ट
<i>Distinguishing sign</i>	पहचान-चिह्न
<i>Distorted</i>	विकृत
<i>Distorted image</i>	विकृत प्रतिबिम्ब/विम्ब
<i>Distorted form</i>	विकृत रूप
<i>Distortion</i>	विरूपण
<i>Distortion of facts</i>	तथ्यों का तोड़-मरोड़
<i>Distraction</i>	विक्षेप
<i>Distress</i>	विपत्ति, दुःख; अमिहार
<i>Distress call</i>	सहायतार्थ पुकार
<i>Distress communication</i>	विपत्ति संदेश

Distress warrant	अभिहरण अधिपत्र
Distressed	विपद्ग्रस्त
Distribution	वितरण, वाँटना
Distribution point	वितरण-बिंदु
Distributory	रजबहा
Distrust	अविश्वास
Disturb	वाधा ढालना, विघ्न ढालना
Disturbance	वाधा; अशांति, गड़बड़
Disturbance, emotional	भाव-विक्षोभ
Disturbance, periodic	आवर्ती विक्षोभ
Disturbance of peace and order	शांति और व्यवस्था का भंग
Disturbed regions	विक्षुल्य प्रदेश
Disuse	अनुपयोग
Disutility	तुष्टिहीनता
Disvalue	विमूल्य
Ditto	यथोपरि, तदेव
Divergent	अपसारी, विभिन्न
Divergent views	विभिन्न भत
Diversification	नाना रूप करना, विविधता
Diversion	मोड़, विशाखन, ध्यपवर्तन
Diversion of traffic	यातायात का विशाखन
Diversity	भिन्नता, विवर्मता
Divert	बदलना, दूसरे मार्ग पर ले जाना
Divided	विभाजित
Dividend	लाभांश
Dividend, deferred	आस्थगित लाभांश
Dividend, paid	दत्त लाभांश
Dividend, preference	अधिमानी लाभांश
Bonus dividend	अधिलाभ
Dividing line	विभाजक रेखा
Doctrine	मत, सिद्धांत, वाद
Doctrine of evolution	विकासवाद
Doctrine of inherent rights	सहजाधिकार सिद्धान्त
Doctrine of lapse	लय-नीति

Document	लेख्य, दस्तावेज
deed	विलेख
instrument	करण पत्र
Documentation centre	लेख्य केन्द्र
Documentary evidence	लेख्य साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य
Documentary proof	लेख्य प्रमाण
Dogmatic	मतापही, कट्टर पूर्वाग्रही
Dogmatic approach	कट्टर दृष्टिकोण
Domestic	घरेलू, पालतू
Domestic question	आन्तरिक मामला
Domicile	अधिवास; अधिवासी
Domicile of origin	जन्माधिवास
Dominance	प्रभुत्व, प्रबलता
Dominant	प्रबल, प्रभावी
Dominant character	प्रभावी लक्षण
Dominion	डोमेनियन, अधिराज्य
Colony	उपनिवेश, बस्ती
Donor	प्रदाता, दाता
Dormant	प्रसुप्त
Double standard	द्वंध मानक
Doubt	शंका, संशय, संदेह
benefit of doubt	संदेह लाभ
Doubtful	संदिग्ध
Downgrade	पदावनति, दर्जा घटाना
Downpour	मूसलाधार बर्फ
Draft	प्रालेख, मसीदा, प्रारूप
Drafting	प्रालेखन, प्रारूपण
Drawing officer	आहरण अधिकारी
Disbursing officer	वितरण अधिकारी
Double Dealing	कपटाचरण
Drawback	कमी, श्रुटि, असुविधा
Drill	क्वायद, व्यायाम; छेद करना
Dual	द्वित
Dualism	द्वितवाद
Dual purpose	दुकाजी, दोहरा उद्देश्य

Due	देय, प्राप्त
Due authority	उचित प्राधिकार
Due course, in	यथासमय
Due date	नियत दिन
Due notice	उचित नोटिस/सूचना
Dues	देय
Duly	विधिवत्, यथोचित्, सम्यक् रूप से
Duly qualified	विधिवत् अहंता प्राप्त, विधिवत् अहं-
Duplicate	दूसरी प्रति, अतिरिक्त, दूसरा
Duplication	द्विरूपकरण, प्रतिलिपिकरण
Duplicity	द्वैध चाल
Durable	टिकाऊ, स्थायी
Duress	दबाव
During the pleasure of	के प्रसाद पर्यन्त
During the suit	बाद काल में, बादपर्यन्त
During the term of office	पदावधि में, पदावधि पर्यन्त
Dutiable goods	शुल्क योग्य/कर देय माल
Dutiful	कर्तव्यनिष्ठ
Duty	कर्तव्य, काम, कर्तव्य-भार; शुल्क
Duty, custom	सीमाशुल्क
Duty, free	शुल्क-मुक्त
Duty, on	कर्तव्य पर
Duty, off	कार्य-समय के बाद
Duty, official	सरकारी काम/इयूटी, पदीय कर्तव्य
Duty, shift	पारी इयूटी

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय-

Daily average of cases disposed of	निवंत्ति प्रकरणों का दैनिक औसत
Date of application	आवेदन-दिनांक
Date, of the same	उसी दिनांक का, उसी तारीख का

Date of publication of notice.	सूचना-प्रकाशन दिनांक
Date of relief	पदावमुख्त दिनांक
Day duty	दिवस कर्तव्य, दिन का काम
Days of grace	अनुभ्रह दिन
Day to day administration	देनदिन प्रशासन
Deal into a case	प्रकरण का निवटाना
Dalt into initially	आरम्भ में कार्यवाही की गयी
Debanded from service	नौकरी से प्रतिपिछ, वर्जित
Decentralisation of industries	उद्योगों का विकेन्द्रीकरण
Decide in merits	गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय/निर्णय करना
Decision on point of law	प्रत्येक दृष्टिकोण से निर्णय लेना
Declaration of allegiance	विधि प्रश्न पर विनिश्चय
Declared null and void	निष्ठा घोषणा
Declared policy	प्रवृत्तिहीन घोषित
Deduction at source	घोषित नीति
Deemed to be vested	स्रोत पर कटौती
Default of, in (house to be attached in default of payment)	निहित समझा जायगा न करने पर, के अभाव में (अदायगी न करने पर मकान कुर्क कर लिया जायगा)
Defeat the intention of law, to	विधि का अभिप्राय विफल करना
Deficiency, to make good	कमी पूरी करना
Defiance of law	विधि भवजा, कानून की विसाफवज्ञ करना
Degree of utility	उपयोगिता की मात्रा
Delay is regretted	विलम्ब के लिए खेद है
Delegation of power	अधिकार हस्तांतरण
Deleate situation	विषम स्थिति, नाजुक हालत
Demand an explanation	स्पष्टीकरण मांगना, जवाब तलब करना
Deneliation of duty changed into—	कर्तव्य-विमुखता कर्तव्य विमुखता का, आरोप लगाया गया है
Derogation from the power of	शक्तियों/अधिकारों का अल्पीकरण
Description of contents	अन्तर्वस्तुओं का विवरण

Detached view	वेलौस राय, असंसक्त विचार
to take a— of the case	विषय में असंसक्त होकर विचार करना
Detailed report	सविस्तर प्रतिवेदन
Determination of priorities	अगुवा निर्धारण
Difference —of opinion	भेद, अन्तर
it makes great--	मत-भेद
	इसमें बड़ा भेद है, यह बात बहुत महत्व-पूर्ण है
Direct action	सीधी कार्यवाही
Direct approach	सीधी पहुँच
Direction and control	निदेश और नियन्त्रण
Directed to invite a reference to the correspondance resting into D.M.'s letter	जिला अधिकारी के पत्र पर निलम्बित पत्र-यवहार की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है
Directive principles	निदेशक सिद्धान्त
Directly or indirectly	प्रत्यक्षतः अथवा परोक्ष रूप से
Dire necessity	नितात आवश्यकता
Disadvantage conditions of service shall not be varied to his	सेवा की शर्तों में उसको अलाभकारी परिवर्तन न किया जायगा
Discharge	कार्य निर्वहण में
in the—of duty	कर्तव्यों के निर्वहन (पालन) में
in the—of function	अनुशासनोपाय
Disciplinary measure	विभेद का समाधान
Discrepancy, reconcile	विवेक
Discretion	न्यायालय के विवेक में
in the—of the court	न्यायिक विवेक
Individual	विवेकानुदान
Discretionary grant	विवेकगत शक्ति (संविधान)
Discretionary power	विभेदकारी यवहार
Discriminatory practice	कार्य विस्थापन
Dislocation of business	उच्छृंखल आचरण
Disorderly conduct	दरों में असमानता
Disparity in rates	नीकरी से छङ्गना
Dispense with service, to	

E

Earlier estimate	पूर्व अनुमान/प्रावकलन
Early cultivation	अग्रीती जोत
Early historic	प्रारम्भिक ऐतिहासिक स्थल
Early stages	शुरुआत, आरम्भिक अवस्था
Early warning	पूर्व चेतावनी
Earmarked	रक्षित, चिह्नित, पृथक रखा गया
Earned	अर्जित, उपार्जित
Earned income	उपार्जित आय
Earned leave	उपार्जित/अर्जित छट्टी
Earnest money	वयाना/मत्यंकार, शुचिद्रव्य
Advance	अग्रिम धन, पेशगी
Earning	कमाई, आय, उपार्जन
Earning gross	कुल कमाई
Earning net	शुद्ध आय
Earning dependents	अर्जक आश्रित
Easement	अनुभोग, सुखाधिकार
Easement, suit of	अनुभोग वाद, सुखाधिकारवाद
Economic	आर्थिक
Financial	वित्तीय
Monetary	मोद्रिक
Economic adjustment	आर्थिक समायोजन
Economic boycott	आर्थिक बहिष्कार
Economic break down	वर्ष-व्यवस्था-भग
Economic crisis	आर्थिक संकट
Economic data	आर्थिक आँकड़े
Economic exploitation	आर्थिक शोषण
Economic forces	आर्थिक शक्तियाँ

Dispense Justice, to	व्याप करना
Disposal of case	मामले का निपटारा/प्रकरण का निवारण
Disposal to be expedited	शीघ्रता से निपटाया जाय
Dissemination of information	सूचना का प्रसार
Disturbance of peace	शांतिभंग
Do the needful	यथावश्यक करना
Done or intended take done	किया गया हो या जिसे करने का अभिप्राय हो
Doubt, benefit of	सन्देह लाप
Draft for approval	अनुमोदनार्थ प्रालेख
Draft as decided	निवेशानुसार प्रालेख
Draw attention	ध्यान दिलाना/आकृष्ट करना
Due authority in that art	सम्प्रकृति का सम्प्रकृत गठन
Due constitution of a committee	समिति का सम्प्रकृति करना
Due course of law	विधि का यथोचित क्रम
Due process of law	यथोचित विधि प्रक्रिया
Due weight, to give	यथोचित महत्व देना
Duly authorised in that behalf	उस बारे में यथाविधि प्राधिकृत
Duly qualified	यथाविधि अहं, आवश्यक योग्यता प्राप्त
Duly verified	यथाविधि सत्यापित
During the discussion	चर्चा के समय, बहस के दौरान
During the presence of	के प्रसाद पर्यन्त
During the term of office	पदावधि में
Duties of office	पद के कर्तव्य
Duty official	पदीय कर्तव्य, सरकारी काम
Duty, sense of	कर्तव्य-ज्ञान
Dying declaration	मृत्युकालीन घोषणा

E

Earlier estimate	पूर्व अनुमान/प्राप्तकलन
Early cultivation	अग्रीती जोत
Early historic	प्रारम्भिक ऐतिहासिक स्थल
Early stages	शुरुआत, प्रारम्भिक अवस्था
Early warning	पूर्व चेतावनी
Earmarked	रक्षित, चिह्नित, पृथक रखा गया
Earned	अर्जित, उपार्जित
Earned income	उपार्जित आय
Earned leave	उपार्जित/अर्जित छुट्टी
Earnest money	वयाना/मत्यंकार, शुचिद्रव्य
Advance	अग्रिम धन, पेशगी
Earning	कमाई, आय, उपार्जन
Earning gross	कुल कमाई
Earning net	शुद्ध आय
Earning dependents	अर्जक आश्रित
Easement	अनुभोग, सुखाधिकार
Easement, suit of	अनुभोग वाद, सुखाधिकारवाद
Economic	आर्थिक
Financial	वित्तीय
Monetary	मौद्रिक
Economic adjustment	आर्थिक समायोजन
Economic boycott	आर्थिक बहिष्कार
Economic break down	बर्थ-व्यवस्था-भंग
Economic crisis	आर्थिक संकट
Economic data	आर्थिक आँकड़े
Economic exploitation	आर्थिक शोषण
Economic forces	आर्थिक शक्तियाँ

Economic freedom	आर्थिक स्वाधीनता
Economic holding	लाभकर जोत
Economic structure	आर्थिक हैचा
Economical	सस्ता, मितव्ययी
Economically sound	आर्थिक दृष्टि से ठीक
Economy	अर्थव्यवस्था, किफायत
Economy, controlled	नियंत्रित अर्थव्यवस्था
Economy, mixed	मिश्र अर्थव्यवस्था, मिली-जुली अर्थव्यवस्था
Economy, planned	आयोजनाबद्ध अर्थव्यवस्था
Economy, unplanned	आयोजना रहित अर्थव्यवस्था
Economy measures	मितव्यय-उपाय
Economy slip	मितव्यय-पर्ची
Ecstasy	हृषोंस्माद, अत्यानन्द
Edible	भूख, खाद्य, भोज्य
Edict	राजाज्ञा
Decree	आज्ञित, डिक्री
Proclamation	उद्घोषणा
Edifice	भवन, इमारत
Editing	संपादन
Edition	संस्करण, लघु/संक्षिप्त संस्करण
Editor	संपादक
Editorial	संपादकीय
Education	शिक्षा
Education, adult	प्रोड शिक्षा
Education, basic	बुनियादी शिक्षा
Education, creative	सृजनात्मक शिक्षा
Education, general	सामान्य शिक्षा
Education, higher	उच्च शिक्षा
Education, secondary	माध्यमिक शिक्षा
Education, vocational	व्यावसायिक शिक्षा
Educational adviser	शिक्षा-सलाहकार/परामर्शी
Educational background	शैक्षिक पृष्ठभूमि
Educational standard	शिक्षा-स्तर
Efface	मिटाना

Obliterate	अभिलोप करना
Expunge	निकाल देना
Erase	उद्धरण, मिटाना
Effect	प्रभाव; परिणाम
Effect, atmospheric	वातावरण-प्रभाव
Effect, climatic	जलवायु-प्रभाव
Effect from, with in	से वस्तुतः, कार्यतः
Effective	कारगर, प्रभावी, फलोत्पादक, सफल
Efficacious	कार्यकर
Effectual	प्रभावशाली
Effective agent	प्रभावी कारक
Effective call (P&T)	सफल काल
Effective range	कारगर मार
Effects	सम्पत्ति
Assets	परिसम्पत्ति, सामान
Effeminate	स्त्रीण, जानाना; दुर्बल
Efficiency	कार्य कुशलता, दक्षता, कार्यक्षमता, कार्य-पटुता
Efficiency bar	दक्षता रोध
Efficient	कार्यक्षम, कार्यकुशल
Effigy	पुतला
Effort	प्रयास
Egoist	अहंवादी, स्वार्थी
Elaboration	विस्तार
Elapse	बीतना, व्यतीत होना
Election	चुनाव, निर्वाचन
Election, direct	प्रत्यक्ष निर्वाचन
Election, indirect	परोक्ष निर्वाचन
Election booth	चुनाव-कोष्ठ
Election campaign	निर्वाचन अभियान
Election expenses	निर्वाचन-व्यय
Election malpractice	निर्वाचन-अनाचार
Election petition	निर्वाचन-याचिका
Election tribunal	निर्वाचन-अधिकारण

Elective office	निर्वाचित पद
Electoral	निर्वाचकीय, निर्वाचक-सम्बन्धी
Electoral college	निर्वाचक मंडल
Electoral right	निर्वाचन अधिकार
Electoral roll	निर्वाचक-नामावली/सूची, मतदाता-सूची
Electorate	निर्वाचक वर्ग
Electorate, communal	मान्यतादायिक चुनाव पद्धति
Electorate, joint	संयुक्त चुनाव-पद्धति
Electric	विद्युत, विजली
Electricity	दिव्युत, विजली
Element	तत्त्व, अवयव
Element, essential	आवश्यक तत्त्व
Element, rare	विरल तत्त्व
Elementary	प्रारम्भिक, प्राथमिक
Elementary analysis	प्राथमिक विश्लेषण
Elementary functions	प्रारम्भिक कर्तव्य
Elevated	उन्नत, उत्थापित, उत्थित
Elevated land	उत्थापित/उत्थित भूमि
Elevation	उत्थापन, उन्नयन, उठान
Eligibility	पात्रता
Eligibility field	पात्रता क्षेत्र
Eligible	पात्र, योग्य
Eliminate	निकालना, हटाना
Elite	विशिष्ट वर्ग
Elope	सहपलायन करना, साथ भाग जाना
Eloquence	वासिमता, वाक्-पटुता
Elucidation	स्पष्टीकरण, विशदीकरण
Explanation	व्याख्या
Emanate	निर्गत होना
Emancipation	मोक्ष, मुक्ति, उद्धार
Embankment	बांध, बंध, भराव
Embargo	अधिरोध; रोक
Embarkation	नौ-रोहण
Embarrassing	उलझन में डालने वाला, उलझन पूर्ण
Embarrassment	किंकर्तव्यमूदता; उलझन

Embassy	राजदूतावास; राजदीप्त
Embedded	सन्निहित
Embellishment	अलंकरण
Embezzle	गवन करना, हड्डपना
Misappropriate	अपप्रहृण करना, दुर्विनियोग करना
Emblem	छवजा
Emergency	आपात, आपातिक
Emergency case	आपात रोगी
Emergency duty	आपात-कार्य
Emergency ward	आपात रोगी-कक्ष
Emergent	आपाती
Emigrant	उत्प्रवासी
Emigree government	प्रवासी सरकार
Eminent	श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित
Emissary	दूत; गुप्तचर
Emoluments	उपलब्धियाँ, परिलब्धियाँ
Emotion	मनोभाव, भाव, आवेग
Emotional adjustment	भावान्तरक समंजन
Emphasis	जोर, बल
Empire	साम्राज्य
Employ	नौकर रखना, नियोजित करना
Appoint	नियुक्त करना
Employee	कर्मचारी
Employee seasonal	मोसमी कर्मचारी
Employee's contribution	कर्मचारी अंशदान
Employer	मालिक, नियोजक
Employer's liability	सेवायोजक/मालिक का दायित्व
Employment	रोजगार, नौकरी
Employment, full	पूर्ण रोजगार/सेवायोजन
Employment, partial	अंशकालिक रोजगार
Employment, seasonal	मोसमी रोजगार
Employment, whole time	पूर्णकालिक रोजगार
Employment exchange	रोजगार दपतर, सेवानियोजन-कार्यालय
Employment prospect	रोजगार संभावनाएँ
Emporium	भण्डार, पर्यावाना

Empower	अधिकार देना, शक्ति देना।
Empties	खाली हिल्बे
Enable	योग्य बनाना
Enact	अधिनियमित करना, अधिनियम। बनाना।
Encamp	हेरा ढानना, जिविर लगाना
Enclave	विदेश अंतःक्षेत्र
Encashment premature	समयपूर्व भुगतान
Enclosed	संलग्न, बन्द
Enclosed letter	संलग्न पत्र, सहपत्र
Enclosed space	बन्द जगह
Enclosure	अनुलग्नक, सहपत्र, बाढ़ा, अहाता। प्रोत्साहन
Encouragement	उपाक्रमण, अधिक्रमण, दशा लेना।
Encroachment	अनधिकार प्रवेश
Tresspass	उत्क्रमण
Transgression	अतिलंघन
Infringement	अतिक्रमण
Violation	भारग्रस्त
Encumbered	भार
Encumbrance	बन्त; परिणाम; प्रयोजन; उद्देश्यः
End	पृष्ठांकित
Endorsed	पृष्ठांकिती
Endorsee	पृष्ठांकन, समर्थन
Endorsement	पृष्ठांकक
Endorser	घर्मादा, घर्मस्व
Endowment	ऊर्जा
Energy	शक्ति
Power	उपभुक्त ऊर्जा/विद्युत्
Energy consumed	लागू करना, प्रवर्तन करना
Enforce	मजदूरी से रुकना
Enforced halt	प्रवर्तन, लागू करना/होना
Enforcement	मताधिकार दान
Enfranchisement	आवश्य, बाढ़ा, वचनबद्ध; नियुक्ति;
Engagement	आवश्य देनिकी/डायरी
Engagement diary	

Engineer	अभियंता, इंजीनियर
Enigma	प्रहेलिका, पहेली
Enjoin	आदेश देना
Enjoyment	उपभोग, रसास्वादन; आनन्द
Enjoyment, aesthetic	सौन्दर्यनिन्द
Enlargement	परिवर्धन, वृद्धि, अपवृद्धि, बढ़ना
Enlargement of territory	क्षेत्र-विस्तार
Enlighten	समझाना, जानकारी देना, सूचित करना
Enlist	नाम लिखाना, भरती होना
Enliven	अनुप्राणित करना, सजीव बना देना
Emass	सामूहिक रूप से
Enlist	भर्ती करना; सूची में नाम लिखना
Enquiry	पूछताछ, जाँच
Interrogation	परिप्रेक्षण, पूछाता
Enquiry, departmental	विभागीय जाँच
Enquiry, extensive	विस्तृत जाँच
Enquiry, intensive	गहन जाँच
Enquiry, secret	गुप्त जाँच
Enquiry office	पूछताछ कार्यालय
Enrichment	समृद्धि, संवर्धन
Enrolment	नामांकन; भरती
Enroute	मार्ग में, रास्ते में, वरास्ता
Ensign	झंडा, छवज
Ensnare	फँसाना
Ensure	सुनिश्चित करना
Ensuing	आगामी
Entail	अनुक्रम-व्यवधान करना
Entanglement	उलझन
Enter	प्रवेश करना; दर्ज करना
Enterprise	उद्यम
Enterprise, private	निजी उद्यम
Entertain	ग्रहण करना; दाखिल करना
Entertainment	मनोरंजन, प्रमोट
Entertainment tax	मनोरंजन कर

Enthusiasm	उत्साह, उमंग
Entice	बहकाना, फुसलाना
allure	प्रलोभन देना, लुभाना
Entire	पूर्ण
Entitled	के अधिकारी, नामक
Entitled to treatment	इलाज/उपचार के लिए अधिकारी
Entitlement criteria	हकदारी की कस्टीटी
Entity	अस्तित्व, सत्ता
Entourage	चातावरण; परिसर; संगी-साथी, संगत
Entrance	प्रवेश-द्वार
Entreaty	अभ्यर्थना
Request	प्रार्थना, निवेदन, अनुरोध
Solicitation	अभियाचना
Entrepreneur	ठेकेदार, उद्यमी
Entrust	सौपना
Entrusty with duty	काम सौपना
Entry	इन्द्राज, प्रविष्टि, प्रवेश
Entry adverse	प्रतिकूल प्रविष्टि
Enumerate	परिगणना करना
Enunciate	प्रतिपादित करना
Enunciate, general	सामाज्य प्रतिपादन
Environment	चातावरण, पर्यावरण
Environmental influence	पर्यावरण-प्रभाव
Envisaged	संकलिपित
Envoy	दूत
Ambassador	राजदूत
Attache	सहचारी
Envy	स्पर्धा
Epidemic	महामारी
Epithe	विशेषक, विशेष नाम, उपनाम
Epitome	निष्कर्ष, गार
Epoch	काल (युगांतर)
Equal	बराबर, समान
Equal in all respects	सर्वांग-सम, हर दृष्टि से बराबर
Equaliser	समकार, समकारी

Equality	समता, समानता
Equality, social	सामाजिक समता
Equality of opportunity	अवसर-समता
Equality of status	पद-समता
Equality of treatment	ब्यवहार-समता
Equanimity	समचिन्तता, समत्व
Equation	समीकरण
Equator	विपुवत् रेखा, भूमध्य रेखा
Equidistant	समदूरस्थ
Equilateral	समबाहु
Equilibrium	साम्यावस्था, संतुलन
Equanimity	धीरज, धैर्य, समवुद्धि
Equipment	सज्जा, मामग्री, उपकरण, उपस्कर
Equitable	न्यायसंगत; निष्पक्ष
Fair	न्यायोचित
Equitable distribution	न्यायसंगत/साम्यिक वितरण
Equity	साम्या, मुनीति, साम्य
Equivalent	तुल्य, समप्रभावी, वरावर
Equivocal	अनेकार्थक, द्व्यर्थक, संदिग्ध
Ambiguous	उभयार्थक
vague	अस्पष्ट
Era	काल, सवत्
Eradication	उन्मूलन
Erosion	अपक्षरण, काट, कटाव, भूक्षरण
Erosion, river	नदी-अपक्षरण
Erosion, wind	पवन-अपक्षरण
Erratic	अनियत
Error	त्रुटि, गलती, भूल
Error, clerical	लिपिक त्रुटि, दफ्तरी भूल
Error of Law	विधि भूल
Errors and omissions	भूल-घूक
Erudition	पाण्डित्य, विद्वत्ता
Eruption	स्फटन
Escalate	बढ़ाना
Escapist	प्रायानन्धादी

Escort	अनुरक्षी, अनुरक्षक, मार्गरक्षी
Espionage	गृप्तचर्या, जासूसी
Espirit de cor	संघभाव; संघ भवित
Essense	सार, तत्व
Essential	प्रमावश्यक
Compulsory	अनिवार्य
Necessary	आवश्यक
Obligatory	बाध्यकर, अनिवार्य
Essential attribute	तात्त्विक विशेषण
Essential commodities	अत्यावश्यक पदार्थ
Essential oil	गन्ध तेल
Essential organ	मौलिक अंग
Essential qualifications	अनिवार्य भर्हताएँ/योग्यताएँ
Essential services	अनिवार्य सेवा
Essentially	अनिवार्यत, आवश्यक रूप से
Materially	सारतः
Substantially	तत्वतः
Establish	स्थापित करना, कायम करना
Establishment	स्थापना, अधिष्ठान
Estate	सम्पदा, सम्पत्ति
Estimated	अनुमानित, प्राक्कलित
Estoppel	विवंधन; प्रतिरोध
Eternal	शाश्वत, अनादि-अनन्त
Ethical	नीति विषयक, नीतिक
Ethics	नीतिशास्त्र
Ethos	लोकाचार, स्वभाव, प्रकृति
Etiquette	शिष्टाचार
Evacuee	निष्क्रान्त
Evade	टालना
Evaluate	मूल्य निश्चित करना
Evaluation	मूल्यांकन
Evasive	टालू
Event	घटना
Eviction	वेदखली, निष्कासन
Evidence	साद्य, गवाही; प्रमाण

Testimony	परिसाक्ष्य
Evidence, circumstantial	पारिस्थितिक-प्रमाण, परिस्थिति-साक्ष्य
Evidence, cogent	सबल साक्ष्य
Evident	स्पष्ट
Evolution	विकास, उद्विकास
Exact	यथार्थ
Exact time	सही समय
Exactly	ठीक-ठीक
Exaggeration	अत्युक्ति, अतिशयोक्ति
Exalted	उच्च, उन्नत
Examination	परीक्षा, जाँच
Examiner	परीक्षक
Ex cadre post	निःसंवर्ग पद
Excellence	श्रेष्ठता
Excellency	परम श्रेष्ठ
Excepted	वजित
Exceptional	आपवादिक, विशिष्ट
Excess	आधिक्य, अतिरिक्त
Excess payment	अधिक भुगतान
Exchange	विनिमय
Exchange at a discount	बट्टे पर विनिमय
Exchange at a premium	बढ़ोती पर विनिमय
Exchange at par	सममूल्य विनिमय
Exchange below par	अवमूल्य विनिमय
Exchange rate	नियत विनिमय-दर
Excise	उत्पाद शुल्क, आदकारी
Excited	उत्तेजित
Excitement	उत्तेजना
Exciting	उत्तेजक
Exclusive	अनन्य, एकमात्र
Exclusive list	अनन्य भूची
Exclusive power	अनन्य शक्ति
Exclusive right	अनन्य अधिकार
Executed	निष्पादित

Execution	निपादन; कासी
Executive	कार्यकारी, कार्यपालक
Executive power	कार्यकारी शक्ति
Executive staff	कार्यकारी अमला
Exemplary	उदाहरणात्मक, अनुकरणीय
Exemplary punishment	उदाहरणात्मक दण्ड
Exempt	मुक्त
Exercise, in-of	के प्रयोग में
Exercise of power	अधिकार/शक्ति प्रयोग
Ex gratia	अनुग्रहपूर्वक
Exhaustive	स्वतःपूर्ण, सर्वांगपूर्ण
Exhibit	प्रदर्शन; प्रदर्शित करना
Exhort	प्रबोधित करना
Exhortation	प्रबोधन
Exigency	आवश्यकता, अपेक्षा
Exigencies of situation	स्थिति की अपेक्षाएं/आवश्यकताएं
Exile	निवासन, निवासित करना
Banishment	विवासन
Ex-India	भारत के बाहर
Ex-mill	मिल के बाहर
Ex-officio	पदन
Existence	अस्तित्व
Exit	निर्गम, निकास
Exonerate	दोषमुक्त करना, निर्दोष ठहराना
Exorcist	ओज्ञा
Expansion	विस्तार
Ex parte	एकपक्षीय, इकतरफा
Expatriation	देश-त्याग
Expectant	अपेक्षी
Expectant mother	गमनवती स्त्री
Expediacy	वांछनीय
Expedient	
Expedite	
Expedition	
Expeditious	

Quick	अविलम्ब
Speedy	द्रुत
Prompt	तुरन्त
Expeditionary forces	अभियान-सेना
Expenditure	व्यय, खर्च
Expenditure, recurring	आवर्ती व्यय
Expenditure, non-recurring	अनावर्ती व्यय
Expenses	व्यय
Experience	अनुभव
Experience, wide	व्यापक अनुभव
Experiment	प्रयोग
Expert	विशेषज्ञ
Explanation	व्याख्या, स्पष्टीकरण, जवाब-तलब
Explanatory	व्याख्यात्मक
Explanatory note	व्याख्यात्मक टिप्पणी
Explicit	सुस्पष्ट, साफ़-साफ़
Explicit function	स्पष्ट कर्तव्य
Exploratory	समन्वेषी
Exponent	व्याख्याता; प्रतिपादक
Export	निर्यात
Export priorities	निर्यात-अग्रताएं
Exposition	प्रतिपादन
Expost	वास्तविक
Expost facto	कार्योत्तर
Expost facto sanction	कार्योत्तर मजूरी/स्वीकृति
Express	अभिव्यक्त करना, तुरन्त
Express delivery	तुरत वितरण
Express letter	तुरन्त पत्र
Express and implied	अभिव्यक्त और ध्वनित/अन्तर्निहित
Expression	अभिव्यक्ति
Expression creative	सृजनात्मक अभिव्यक्ति
Expressive	अर्थ व्योधक
Expressly	प्रत्यक्ष रूप से
Clearly	स्पष्टतः
Precisely	मुनाफ्यतः

Exprobation	धिक्कार, भत्सना
Expropriation	सम्पत्तिहरण, स्वामित्वहरण
Expulsion	निष्कासन
Ex right	अलाभ
Extension	विस्तार
Extensive	व्यापक, विस्तृत
Extenuating	लघकारी
External	बाह्य
External matters	परराष्ट्र मामले
Extinct	विलुप्त
Extortion	अपकर्यण
Extra	अतिरिक्त
Extract	उद्धरण, सार, अर्थ निकालना
Extra curricular	पाठ विषयेतर
Extradition	प्रत्यर्पण
Extra mural	कक्षेतर
Extraneous	बाह्य, अप्रासंगिक, असम्बद्ध
Extra ordinary	असाधारण
Uncommon	असामान्य
Unusual	गैर-मामूली, अरीतिक
Extra territorial	राज्य क्षेत्रातीत
Extreme	चरमसीमा
Extremist	उप्रवादी
Extrinsic value	परतः मूल्य
Extrovert	बहिर्मुखी
Exuberance	प्राचुर्य, बाहुल्य, आधिक्य
Eye-witness	दर्जन-साक्षी, प्रत्यक्ष साक्षी

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Early stage	आरंभिक अवस्था, शुरूआत
Ear marked	अलग से रखा गया, रक्षित
Easy reference	सुगम निवेश
Economic blockade	आर्थिक नाकाबन्दी
Economic crisis	आर्थिक संकट
Economic measure	आर्थिक उपाय
Educationally unqualified Effect	शिक्षा-दृष्टि से अनहुं/अयोग्य कार्यन्वित करना, अमल में साना
Carry into effect	दरबसल, वास्तव में
shall have effect	प्रभावी होना, लागू होना
to give effect to	प्रभावी बनाना, लागू करना
to take effect	लागू होना, जारी होना
to the effect	इस उद्देश्य का
Efficiency of administration	प्रशासन कार्यशक्ति
Efficiency bar	कार्यशक्ति-रोध, दक्ष ता-रोध
Effective control	प्रभावी नियंत्रण
Emergent meeting	आपाती अधिवेशन
Empowered in that behalf	इस सम्बन्ध में अधिकृत
End	उद्देश्य; समाप्ति
to come to an end	समाप्त होना
in the end	अंत में
Enquire the present position of the case, to	इस मामले की विधिति बता है इसकी जाँच करना।
Enquiries in the matter are under way	मामले की जाँच की जा रही है
Enquire into a charge	जुम्ब की जाँच
Entertain the claim	दावा प्रहृण करना

Entirely optional	सर्वेषां वैकल्पिक
Entrust with duty	कर्तव्य सौंपना
Equivalent rank	समान पद
Equivalent to	के समान
Equality of opportunity	अवसर समता
Equally entitled	समान अधिकृत
Error apparent on the face of the record	अभिलेख से मुस्पष्ट भूल
Error of judgement	निर्णय-विभ्रम
Essential services	सारभूत सेवाएँ, अतिवाय सेवाएँ
Established by law	विधि द्वारा स्थापित
Established practice	रुढ़ि
Evenly balanced	समतुलित
Even since	तब से, जब से
Every now and then	समय-समय पर, बार-बार
Event in the ~of	के होने पर
Events at all	हर दशा में, हर सूरत में
Evidence	साक्ष्य
Circumstantial evidence	परिस्थिति साक्ष्य
Evidence	
Conclusive	निश्चायक साक्ष्य
Hearsay	श्रूत साक्ष्य
Mational—	मालूम साक्ष्य
Examine, to properly	प्रस्तावों की परीक्षा कोजिए
Exemple., to set on	अच्छा आदर्श रखना
Except as expressly provided	स्पष्टतया उपर्युक्त अवस्था को छोड़कर
Except as otherwise provided	अन्यथा उपर्युक्त अवस्था को छोड़कर
Except in so far as they may not be in consistant with	जहाँ तक वे असंगत न हों
Except with the previous sanction of	पूर्व स्वीकृति से ही
Exceptional and emergent cases	अतिमान्य और आपाती मामले
Executive action	कार्यकारी/कार्यपालक कार्यवाली के अधिकारों का प्रयोग करके
Excercise the powers of	

Expediate, it is not	इष्टकर नहीं है
Expiration of the term of office	पदावधि की समाप्ति
Express delivery	शोध डाक द्वारा
Expression, medium of	अभिव्यक्ति का माध्यम
Express understanding	स्पष्ट समझौता
Extract taken	उद्धरण लिया जाय

F

<i>Fable</i>	बाध्यान, कथा, गहरा
<i>Fabricate</i>	गढ़ना, बनाना; मिथ्याचरण
<i>Fabricate evidence</i>	साक्षय गढ़ना, कूठी गवाही
<i>Fabulous</i>	काल्पनिक, मनगढ़न्त
<i>Facade</i>	दिखावा; मुहरा
<i>Face value</i>	वंकित मूल्य
<i>Facilitate</i>	सरल बनाना, सुन्दर बनाना
<i>Facility</i>	सुविधा
<i>Facsimile</i>	प्रतिकृति, अनुसिपि
<i>Facsimile signature</i>	प्रतिकृति हस्ताक्षर, अनुसिपि हस्ताक्षर
<i>Fact</i>	तथ्य
<i>Fact getting</i>	तथ्य-प्राप्ति
<i>Fact in-issue</i>	वाद-तथ्य
<i>Faction</i>	गुट, पक्ष, दल
<i>Factionalism</i>	गुटबन्दी
<i>Factitious</i>	नकली, बनावटी, कृतिम
<i>Factor</i>	कारक; कारिन्दा; घट
<i>Factual</i>	वास्तविक, सत्य
<i>Factual knowledge</i>	तथ्य-ज्ञान
<i>Faculty</i>	संकाय; मनःशक्ति
<i>Failure</i>	असफलता, विफलता
<i>Failure of crop</i>	फसल का न होना
<i>Failure to attend</i>	उपस्थित न हो सकना
<i>Failure of engine</i>	इंजन की खराबी
<i>Fair</i>	उचित; स्वच्छ; न्यायोचित; मेला
<i>Equitable</i>	साम्योचित, साम्यमुक्त
<i>Reasonable</i>	उचित, युक्तिसंगत
<i>Fair copy</i>	स्वच्छ प्रति

Fair and equitable	न्यायोचित और साम्युक्त
Fair dealing	निकृपट व्यवहार
Fair knowledge	पर्याप्त ज्ञान, अच्छा ज्ञान
Fair play	सम व्यवहार, निष्पक्ष व्यवहार
Fair price	उचित मूल्य
Fair wages	उचित मजदूरी
Fair whether	साफ मौसम
Fairness	साम्योचित्य न्याय
Fairmindedness	निष्पक्ष भाव
Fait accompli	सम्पन्न कार्य, सिद्ध कार्य
Faith	निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास
Faith, breach of	विश्वास-भग
Faithfulness	निष्ठा, बफादारी
Loyalty	राजनिष्ठा, राजभवित
Faithful service	निष्ठापूर्वक सेवा
Fall	पतन, गिरना, गिरावट
Fall into arrears	बाकी पड़ना
Filacious	सदोष, भ्रातिकारी
Fallacious argument	सदोष/दोषपूर्ण तर्क, भ्रातिकारी तर्क
Fallacy	तर्कंदोष, तर्कभास; हेत्वाभास; भ्राति
Fallacy of coexistence	सह-प्रस्तित्व दोष
False	झूठा, मिथ्या, असत्य, नकली
False alarm	झूठी चेतावनी
False claim	झूठा दावा
False evidence	मिथ्या साक्ष्य
False position	गलत/मिथ्या स्थिति
False return	मिथ्या विवरणी
Falsification	मिथ्या बनाना
Falsification of accounts,	मिथ्या लेखा बनाना, झूठा हिसाब बनाना
Familiar	परिचित
Family	कुटुम्ब, परिवार, कुल
Family, aboriginal	आदिवासी कुटुम्ब
Family, human	मानव कुटुम्ब
Family, joint	संयुक्त परिवार
Family arrangement	पारिवारिक समझौता

Family custom	कुलाचार, पारिवारिक रीति
Family head	कर्त्ता, परिवार मुखिया
Family planning	परिवार नियोजन
Family tree	वंश वृक्ष
Famine	दुर्भिक्ष, अकाल
Famine relief	दुर्भिक्ष सहायता
Fanaticism	धर्मसिद्धता, कट्टरता, दुराप्रह
Fancy	चिंच; ध्रम; आसक्ति
Fansfare	तृप्यनाद, धूमधाम
Fantasy	हवाई कल्पना, अति कल्पना, स्वप्न चित्त,
Farce	स्वैर कल्पना
Farcical	स्वांग, ढोंग, विडम्बना
Fare	हास्यास्पद
Farewell	किराया, भाड़ा
Farewell address	विदाई, विदा
Farewell party	विदाई अभिनन्दन-पत्र
Farming	सेतो-कृषि
Farsight	दूरदृष्टि
Farsightedness	दूरदृशिता
Fatal	घातक
Fatalism	भाग्यबाद, देवबाद
Fatality	नियति, भावी; नश्वरता
Fatigue	यकावट, यकान; कठोर काम
Fatigue duty	कठोर काम की दृश्यटी, यमदण्ड
Fault	दोष, चूक
Fault finding	छिद्रावेषण/दोष निकालना
Faulty	दोषपूर्ण
Favour	अनुग्रह, हृपा; पदापात, पक्ष
Favourable	अनुकूल
Suitable	उपयुक्त
Favourable balance of trade	अनुकूल व्यापार-सेप
Favourable order	अनुकूल आदेश
Favouritism	पदापात
Feasibility	व्यवहार्यता, औचित्य

Feature	लक्षण; रूपरूप
Feature characteristic	विशिष्ट लक्षण
Feature, musical	संगीत रूपक
Feature writer	रूपक लेखक
Federal	संघीय
Federal state	संघ राज्य
Federation	संघ, महासंघ, फेडरेशन
Fee	शुल्क, फीस
Gratuity	उपदान, आनुतोषिक
Honorarium	मानदेय
Feeble	क्षीण
Feeble mindedness	मन्दबुद्धिता, दुर्बल मनस्कता
Feeder	पोषक; सभरक
Feeding habit	खाद्य स्वभाव
Fellow	अधिष्ठात्र (विष्व० वि०) पार्षद
Fellow, research	शोध छात्र, अध्येता
Fellowship	अधिष्ठात्रवृत्ति, शिवायवृत्ति; मंत्री, भाईचारा
Fence	बाड़, घेरा
Fencing	घेरा, जंगला
Female	महिला, स्त्री, नारी
Female attendant	परिचारिका
Ferry	धाट, नोधाट; पार के जाना
Ferry boat	धाट नाव
Ferry service	पार उत्तराई व्यवस्था
Fertile	उत्पजाक, उर्वर
Fertiliser	उर्वरक
Fertilisation	गर्भायान, नियेचन
Fertility	उर्वरता, उपज-शक्ति; जनन-क्षमता
Festival	उत्सव
Festoon	तोरण, बन्दनवार
Feudal	सामन्ती
Feudal age	सामन्त युग
Feudal system	सामन्त प्रथा
Feudalism	सामन्तशाही, सामन्तवाद

<i>Fictitious</i>	फैज़ी, अवास्तविक
<i>Fickle</i>	चंचल, अस्थिर
<i>Imaginary</i>	कृत्रिम
<i>Artificial</i>	काल्पनिक
<i>Fidelity</i>	निष्ठा; वकादारी; पातिव्रत्य
<i>Fidelity bard</i>	निष्ठा बन्ध
<i>Field</i>	धोन; खेत
<i>Field duty</i>	मैदानी दृष्टूटी
<i>Field firing</i>	मैदानी गोलाबारी
<i>Field work</i>	क्षेत्र-कार्य
<i>Fiend</i>	पिशाच, खल, दुष्ट
<i>Fifth columnist</i>	प्रचमांगी
<i>Fighter</i>	लड़ाक, योद्धा
<i>Fighting forces</i>	रोधी सेनाएं
<i>Fighting unit</i>	लड़ाकू यूनिट
<i>Figures</i>	बॉक्स
<i>Figurative</i>	आलकारिक, प्रतीकात्मक
<i>Figure head</i>	पुतली
<i>File</i>	फाइल, प्रावली, मिसिल
<i>File a suit</i>	नालिश दायर करना
<i>File an application</i>	आवेदन-पत्र देना
<i>File cover</i>	प्रावली आवरण, मिसिल कवर
<i>File movement</i>	प्रावली संचलन
<i>Final</i>	अंतिम
<i>Final approach</i>	अंतिम पहुँच
<i>Final clause</i>	अंतिम खण्ड
<i>Final destination</i>	अंतिम गन्तव्य स्थान, आखिरी मजिल
<i>Final meeting</i>	अंतिम बैठक, आखिरी बैठक
<i>Final report</i>	अंतिम रिपोर्ट/आवधा
<i>Final payment</i>	अंतिम भुगतान
<i>Final settlement</i>	समापक भुगतान, अंतिम भुगतान
<i>Final stage</i>	अंतिम अवस्था/प्रक्रम
<i>Finally</i>	अंतिम रूप से
<i>Finance</i>	वित्त

Financial	वित्तीय
economical	आर्थिक
Monetary	मोद्रिक
Financial advice	वित्तीय सलाह/परामर्श
Financial advisor	वित्तीय परामर्शदाता/सलाहकार
Financial commitment	वित्तीय बदला
Financial concurrence	वित्तीय सहमति
Financial control	वित्तीय नियंत्रण
Financial irregularity	वित्तीय अनियमितता
Financial liability	वित्तीय दायिता
Financial obligation	वित्त आभार
Financial propriety	वित्तीय थौंचित्य
Financial transaction	वित्तीय लेन-देन
Financial year	वित्तीय वर्ष
Fundings	निष्कर्ष, जौध-परिणाम
Finger print	अंगुली-छाप
Finished	तैयार, तैयारशुद्धा
Finished goods	तैयार माल
Fire arms	आगेयास्थ, गोला-बाहुद
Fire arms and ammunitions	आगेयास्थ और गोला-बाहुद
Fire proof	अग्निसह
Fire risk	आग का खतरा
Fire services	अग्निशमन सेवा
Fire fighting	आग बुझाना
Fire hazard	अग्नि संकट
First aid	प्राथमिक उपचार
First information report	प्रथम सूचना रिपोर्ट
First reading	प्रथम वाचन
Fiscal	राजस्व सम्बन्धी, राजकोषीय
Fiscal policy	राजकोषीय नीति
Fit	ठीक, उचित, उपयुक्त, योग्य
Fit for use	काम के लायक, काम के योग्य
Fitness	स्वस्थता, योग्यता, उपयुक्तता
Fitness certificate	स्वस्थता प्रमाणपत्र
Fitted	लगा हुआ, सुसज्जित

Fixation	नियत करना, स्थिर करना, निर्धारित करना
Fixation of pay	वेतन निर्धारण
Fixation of quota	कोटा निर्धारित करना
Fixed	नियत, निश्चित
Fixed deposit	नियतवधि जमा, सावधिक जमा
Fixed pay	नियत/निश्चित वेतन
Fixed rate	नियत दर
Fizzle	असफल रहना, बेकार हो जाना
Flabbergast	विस्मय या हळका-बळका कर देना
Flair	जन्मजात प्रवृत्ति; सूक्ष्मदर्शिता
Flank	बाजू
Flaunt	इठलाना, इतराना, तड़क-भड़क दिखाना
Flat rate	समान दर
Flaw	दोष
Fleet	वेडा
Flexible	नम्य, सचीला
Flight	उड़ान
Flimsy	सारहीन, धोया
Floating capital	चालू पूँजी
Floating debt	अल्पकालिक ऋण
Flogging	कोड़े लगाना
Floor price	कम से कम कीमत
Flop	असफल होना
Flounder	लड़खड़ाना
Flow of traffic	यातायात प्रवाह
Fluctuation	उच्चावचन/घट-बढ़/उतार-चढ़ाव
Fly leaf	कोरा पन्ना
Flying accident	उड़ान दुर्घटना
Folder	फोल्डर, आवरक; मुड़ाई मशीन
Folio	पन्ना, फोलियो
Folk lore	लोक कथा
Folk song	लोक गीत
Folk ways	लोक रीतियाँ
Follow up action	अनुबर्ती कार्यवाही/कार्रवाई

Following	निम्नलिखित, निम्नांकित
Foment	उत्सेजित करना, भड़काना, उकसाना
Foot hold	आधार, पाँद जमाना
Foot note	पाद-टिप्पणी
Forbid	निषेध करना
Prohibit	प्रतिविद्ध करना/निपिद्ध करना
Force	बल; यत्त प्रयोग करना; बाध्य करना
Force, dissipative	विद्धोषी बल
Force, effective	फलकारी बल
Forced labour	बेगार
Forced landing	मजबूरन उतरना
Forced sale	बलात् विक्रय
Forecast	पूर्वानुमान
Fore-going	पूर्वगत, पूर्ववर्ती
Foreign	विदेशी
Foreign affairs	विदेश-कार्य
Foreign income	विदेश-जन्य आय
Foreign mail	विदेश डाक
Foreign national	विदेशी राष्ट्रीय
Foreign policy	विदेश-नीति
Foreign relations	विदेश-संबंध
Foreign service	विदेश सेवा
Foreign trade	विदेश-व्यापार
Forejudge	पहले से निर्णय लेना
Forenoon	पूर्वाह्नि
Foresight	पूर्व दृष्टि; अग्रावलोकन
Forest	वन, जंगल
Forest, reserved	सुरक्षित वन
Fore stalling	पेशबद्दी
Foretaste	पूर्वानुभव
Forestation	वन संवर्धन
Forest guard	वन रक्षी
Forest ranger	वन राजिक
Forest utilisation	वन उपयोग
Foreward	प्रावक्थन

Preamble	प्रस्तावना
Preface	वामुख
Introduction	भूमिका
Forfeit	जब्त करना, रुज्यसाति होना
Forfeited	राज्यसात्कृत, जब्त
Forged	कूट, जाली
Forged document	जाली दस्तावेज
Forger	जालिया, जालसाज
Forgive	क्षमा करना, माफ़ करना
Form	फार्म, प्रपत्र; रूप
Form, standard	मानक प्रपत्र
Form of address	संबोधन का रूप
Formal	अधिकारिक, रीतिक; विधिवत्
Formal act	अधिकारिक कार्य
Formal call	अधिकारिक भेट
Formal evidence	अधिकारिक साक्ष्य
Formal function	अधिकारिक समारोह
Formal investigation	विधिवत् जाँच
Formal issue	अधिकारिक मामला
Formal notice	अधिकारिक नोटिस
Formal sanction	अधिकारिक स्वीकृति/मंजूरी
Formal visit	अधिकारिक आगमन
Formality	अधिकारिकता
Formally	अधिकारिक रूप से, वाचाप्ता
Formation	संघटन, निर्माण, रचना
Formative stage	निर्माणावस्था
Formerly	इससे पूर्व, भूतपूर्व
Formula	सूत्र
Formulate	बनाना; रूप देना, सूचित करना
Formulate a scheme	योजना बनाना
Formulation of law	विधि निरूपण
Forthwith	तुरंत, तत्काल, तत्त्वाण
Fortify	सुदृढ़ करना, किलावन्दी करना, प्रबन्ध बनाना
Fortitude	धैर्य

Fortnight	पद्धति, द्विसप्ताह
Fortnightly	पादिक
Fortuitous	आकस्मिक, देवकृत
Fortunate	भाग्यशाली
Forum	वाक्‌पीठ; क्षेत्र, स्थल
Forward	अग्रसारित करना, अग्रप्रेपण, आगे भेजना; अग्रवर्ती
Forward action	आगे को चलना
Forward area	अग्रक्षेत्र
Forward control post	अग्रवर्ती नियन्त्रण चौकी
Forward motion	अग्रगति
Forward position	अग्रस्थिति
Forward post	अगली चौकी
Forwarding	अग्रेपण, अग्रसारण
Forwarding letter	अग्रेपण/अग्रप्रेपण पत्र
Forwarding note	अग्रसारण पत्र/नोट
Foul weather	बुरा मौसम
Foundation	नीव, चुनियाद; धर्मदा; शिलान्यास; प्रतिष्ठान
Foundation, lay	शिलान्यास करना
Foundation, without	निराधार, वेबुनियाद
Founder	संस्थापक
Founder member	संस्थापक सदस्य
Fragmentation	विषयण्डन
Fragmentation of holding	जोत विष्णुण्डन
Frame	चौखटा, ढाँचा; रचना
Frame charges	आरोप लगाना
Frame a rule	नियम बनाना
Frame structure	ढाँचा निर्मित करना
Franchise	मताधिकार
Frantic	प्रचण्ड, उग्र, उत्तेजित
Fraternity	ध्रातृत्व, यथुता
Fraud	घोखा, कपट, जालसाजी
Fraud upon law	विधि के प्रति कपट
Fraudulent	कपटपूर्ण

Fraudulent claim	छलपूर्ण/कपटपूर्ण दावा
Fray	दगा, झगड़ा
Free	नि.शुल्क; स्वतन्त्र; मुक्त
Free consent	स्वतन्त्र सहमति
Free delivery	नि.शुल्क वितरण
Free education	नि.शुल्क शिक्षा
Free period	खाली घंटा
Freedom	स्वतन्त्रता, भाजादो
Freedom, degree of	स्वातन्त्र्य मात्रा
Freedom of choice	वरण-स्वतन्त्रता
Freedom of communication	सचार-स्वतन्त्रता
Freedom, expression	अभिव्यक्ति-स्वतन्त्र्य
Freedom of speech	वाक्-स्वातन्त्र्य
Freedom of thought	विचार-स्वातन्त्र्य
Freedom of worship	उपासना-स्वातन्त्र्य
Free from	से स्वतन्त्र
Free from disease	निरोगी
Free from encumbrance	भार रहित
Free gift of nature	प्रकृति की सहज देन
Free hand-to give	स्वतन्त्र रूप से काम करने की अनुमति
Free pass	मुफ्त पास
Free play	ढील, गुजाइश
Free service	नि.शुल्क सेवा
Free trade	मुक्त व्यापार
Free world	स्वतन्त्र संसार
Free world market	बुला विश्व बाजार
Freight	भाड़ा
Freight inward	आवक भाड़ा
Freight outward	जावक भाड़ा
Friendly countries	मित्र देश
Frivolous	तुच्छ, नाधीज
From	प्रेयक
From to	सेवा में
From time to time	समय-समय पर
Frustration	नैराश्य, कुप्ठा

Fuel	ईंधन
Fuel consumption	ईंधन खपन
Fugitive	भगोड़ा, फरार
Full	पूर्ण
Full age	वयस्कता
Full bench	पूर्ण पीठ
Full bench decision	पूर्ण पीठ निर्णय
Full blood	संगत
Full court	पूर्ण न्यायालय
Full fare	पूरा किराया
Full moon	पूर्ण चन्द्र
Full pay	पूरा वेतन
Full power	पूर्णाधिकार, पूरी शक्ति
Full rate	पूरी दर
Full value	पूरा मूल्य
Full wagon load	पूरा वैगन भार
Fully guaranteed	पूरी गारन्टी सहित
Function	कार्य, कृत्य, समारोह
Function, vital	महत्वपूर्ण कार्य, मार्मिक कार्य
Functional	क्रियाशील
Functional area	कायदिमक क्षेत्र
Functional defects	क्रियादोष
Functional disease	क्रियागत रोग
Functional group	क्रियाशील समूह
Functionaries	कार्यकर्ता, अहलकार
Functions and powers	कार्य और शक्तियाँ
Fund	निधि
Fund, benevolent	हितकारी निधि
Fund, consolidated	संहृत निधि
Fund., endowment	संदान निधि
Fund., provident	भविष्य निधि
Fund, sinking	निषेप निधि
Fundamental	मौलिक, मूलमूल
Basic	आधारभूत, बुनियादी
Fundamental duties	मूल कर्तव्य

Fundamental features	आधारभूत विशेषताएँ
Fundamental rule	मूल नियम
Fundamental rights	आधारभूत अधिकार/मौलिक अधिकार
Fundamental principles	मूल सिद्धांत
Fundamental stage	आद्यावस्था
Fundamental value	आधारभूत मूल्य
Funded debt	निधिक ऋण, स्थायी ऋण
Furnished	साज-सामान-युक्त, मुसजिल
Furnishings	साज-सामान
Furniture	उपस्कर, कर्णीचर
Furore	जोश, उमंग
Futility	व्यर्थता, असारता, तुच्छता
Future position	भावी स्थिति

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Face	
on the face	देखने से, प्रत्यक्षतः
Fact in issue	वाद वस्तु, वाद तथ्य
Fact, question of	तथ्य प्रश्न
Fact, matter of	वास्तव में तथ्य तथा अंक
Fact and figure	वास्तव में
Facts of the case	प्रकरण के तथ्य
Fact end of the session	समा का अन्तिम भाग
Failing which serious action will be taken	न करने पर कठोर कार्यवाही को जायारी
Fair knowledge	मामूली जानकारी
Fall into arrears	बाकी पड़ना, अवशिष्ट रहना
—the work fell into arrears	काम बाकी पड़ गया, कार्य अवशिष्ट रह गया
Fall in line with Gout, in this respect, to	इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के अनुरूप कार्य करना

Fall short of	कम होना
—of expectation	प्रत्याशा से कम होना
Fallacious argument	धृतिकारी तर्क
Fancy fair	एचिर मेला
Far-reaching effect	दूर असर
Favour with your views	गुण्या अपने विचार व्यक्त करें
Favourable circumstances	अनुकूल परिस्थितियाँ
Fear or favour	भय या पश्चापात
without—	भय या पश्चापात के बिना
Features, essential	विशिष्ट वार्ते
— of the scheme	योजना को विशिष्ट बार्ते
Fictitious account	अवास्तविक लेपा, फर्जी हिसाब
File a document	लेख्य निवेशित करना, दस्तावेज पेश करना
File	
kept into —	प्रावली में रखना
please papers enter	कागजात प्रावली में रखना
to restore paper to the	कागजात को प्रावली में फिर में रखना
to deposit	प्रावली दाखिल दफ्तर करना/जमा करना
to open	प्रावली खोलना
to put up	प्रावली प्रस्तुत करना
Final decision when arrived at will to communicate	अन्तिम विनिश्चय होने पर सूचित किया जायगा
Finally disposing of the matter	विधय का अन्ततः निस्तारण
Financial irregularities	वित्तीय अनियमितताएँ
Fixation of pay	बेतन निर्धारण/निश्चयन
Flagrant breach of rules	नियमों का घोर उल्लंघन
Following procedure to be adopted	निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण हो
Formal call	ओपचारिक भेट
Formal notice	ओपचारिक सूचना
Formal occasion	ओपचारिक अवसर
Formal warning	यथाविधि चेतावनी
Form of question	प्रश्नों का रूप

For approval	अनुमोदनार्थ
For compliance	अनुपालनार्थ
For daily purpose	दैनिक प्रयोजनों के लिए
For expression of opinion	मत की अभिव्यक्ति के लिए
For example	उदाहरणार्थ
For non-residential purposes	निवासेतर प्रयोग के लिए
For official use only	केवल सरकारी प्रयोग के लिए
For perusal and return	पढ़कर लौटाने के लिए
For practical purpose	व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए
For ready reference	सुगम निदेश के लिए
For reason not connected with	असम्बद्ध कारणों के लिए
For public benefit	लोकहित के लिए
For the consideration of	के विचार के लिए
For the first time	पहली बार
For the general good	सार्वजनिक हित के लिए
For the time being in force	तत्समय प्रवृत्त
Foregoing provision	पूर्ववर्ती उपबन्ध
For want of	के अभाव में
Forwarded for necessary action	आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया।
Forwarded and recommended	अप्रेपित
Free and voluntary	अप्रेपित और संतुत
From generation to generation	स्वतंत्र और स्वेच्छक
From time to time	परम्परागत, पीढ़ी दर पीढ़ी
Full dress debate	समय-समय पर
Full time worker	पूर्ण वाद-विवाद
Further consideration, for	पूर्णकालिक कार्यकर्ता आगे विचार के लिए

G

Gain	लाभ
Gain a footing	पाँव जमाना
Gainful occupation	उपकारी धन्धा
Gallant	वीर, बहादुर
Gallantry award	शौर्य पारितोषिक, शूरता पुरस्कार
Gallery	दीर्घा, वीथि/गैलरी, वीथि
Gallery, visitors	दर्शक दीर्घा/वीथि
Gateway	प्रवेश-द्वार
Gathering	जमाव, समूह
Gazette	गजट, राजपत्र
Gazette, extraordinary	असाधारण गजट
Gazetted	राजपत्रित
Gazetted holiday	राजपत्रित छुट्टी
Gazetted officer	राजपत्रित अधिकारी
Gazetted post	राजपत्रित पद
General	सामान्य, महा-; प्रधान
Simple	सरल
Ordinary	साधारण
General administration	सामान्य प्रशासन
General manager	प्रधान प्रबन्धक, महाप्रबन्धक
General, accountant	महालेखाकार
General public	सामान्य जनता, सर्वसाधारण
General	सामान्य
General duties	सामान्य कृत्य/कार्य
General election	सामान्य/साधारण चुनाव/निर्वाचन
General idea	सामान्य भत/विचार
General inference	सामान्य अनुमिति; सामान्य अनुमान
General issue	सामान्य बादबद निष्कर्ष
General knowledge	सामान्य ज्ञान

General layout	सामान्य विन्यास
General meeting	सामान्य बैठक
General notion	सामान्य विचार
General practice	सामान्य प्रथा
General procedure	सामान्य प्रक्रिया
General rule	सामान्य नियम
General test	सामान्य परीक्षण
General verdict	सामान्य अधिभत
General welfare	सर्वहित
Generalisation	सामान्यीकरण
Generalised	सामान्यीकृत, ध्यापक
Generality	व्यापकता, सामान्यता
Generally	साधारणतया/सामान्यतया
Genuine	वास्तविक; प्रामाणिक; यथार्थ, अकृतक
Genuine need	वास्तविक आवश्यकता
Genuine signature	वास्तविक हस्ताक्षर
Genuine text	प्रामाणिक पाठ
Gist	भावार्थ, सारांश
Substance	सार
Give effect to	कार्यान्वित करना
Glossary	शब्दावली
Goal	उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय
Godown	गोदाम, कोष्ठागार
Warehouse	भाण्डागार
Good	अच्छा
Good behaviour	अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार
Good cause	समुचित कारण
Good character	सुचरित्र, अच्छा चरित्र
Good conduct	सदाचरण, अच्छा आचरण
Good conscience	शुद्ध अन्तःकरण
Good faith	सद्भाव, सदिच्छा, सद्भावना
Good government	मुशासन
Good neighbour policy	सत्त्वडोसी नीति
Good offices	भद्यस्थता; सत्प्रयास, सत्प्रयत्न
Good order	सुच्यवस्था, अच्छी स्थिति

Good reason	पर्याप्त कारण
Good sense	सद्बुद्धि
Good will	मुनाम, मुख्याति, सद्भावना
Goods	माल, वस्तुएं
Govern	शासन करना
Governed	शासित
Governing board	प्रबन्ध मण्डल, शासी मण्डल
Governing body	शासी निकाय
Government	शासन/सरकार
Government affairs	राजकाज/सरकारी मामले
Government business	सरकारी काम
Government, constitutional	वैधानिक सरकार
Government dues	सरकारी पावने
Government, elective	निर्वाचित सरकार
Government, federal	संघीय सरकार
Government, interim	अत्तरिम सरकार
Government, parliamentary	संसदीय शासन
Government, presidential	राष्ट्रपति-शासन
Government, representative	प्रतिनिधि सरकार
Government, responsible	उत्तरदायी सरकार
Government, self	स्वशासन
Government servant	सरकारी कर्मचारी
Governmental machinery	शासन तंत्र
Governor	राज्यपाल, गवर्नर
Grace days	अनुष्ठह/रियायती दिन
Gradation	कोटिक्रम, पदक्रम
Gradation list	पदक्रम सूची
Gradation of articles	वस्तुओं का श्रेणीकरण
Grade	श्रेणी, वर्ग, कोटि, दर्जा, स्तर
Grade promotion	स्तरोन्नति
Grade selection	प्रवर श्रेणी
Gradual	धीरे-धीरे, क्रमिक
Graduate	स्नातक
Graduate, post	स्नातकोत्तर
Graduate, under	अभिस्नातक

Grant	अनुदान; रवीकृति; प्रदान करना
Grant in aid	सहायक अनुदान
Grant, interim	अन्तरिम अनुदान
Grant, maintenance	अनुरक्षण अनुदान
Grant, non-recurring	अनावर्ती अनुदान
Grant, recurring	आवर्ती अनुदान
Grant, supplementary	अनुपूरक अनुदान
Grantee	अनुदान-प्राप्तीता
Grantor	अनुदाता
Graphic	रेखाचित्रीय
Graphic description	रेखाचित्रीय विवरण/उल्लेख
Graphically	रेखाचित्रीय विधि
Gratis	निःशुल्क, मुफ्त
Gratification	परितोषण
Gratification, illegal	अवैध परितोषण
Gratuitous	आनुग्रहिक, मुफ्त, बिन साँगा, निष्प्रतिफल
Gratuitous relief	आनुग्रहिक सहायता
Gratuity	उपदान, आनुतोषिक
Fees	शुल्क, देय
Honorarium	मानदेय
Grave	गंभीर
Serious	सर्वत, गंभीर
Severe	उप्र
Gravity	गुरुत्व, गंभीरता
Gravity, force of	गुरुत्व-बल
Gravitational pull	गुरुत्वीय विचाव
Greeting card	शुभकामना पत्र/काढ
Greeting telegram	बधाई-तार, अभिनन्दन-तार
Grievance	शिकायत, परिवेदना, व्यथा
Grievance, redress of	शिकायत दूर करना, परिवेदना-निवारण, व्यथा-निवारण
Grievous hurt	गहरी चोट
Gross	राकड़, कुल; भारी
Gross abuse	भारी दुरुपयोग
Gross amount	कुल राशि/रकम
Gross assets	कुल परिसंपत्ति; कच्ची निकासी

Gross earning	कुल उपार्जन, समग्र उपार्जन
Gross income	कुल आय, कुल आमदनी
Gross misconduct	घोर दुराचरण
Gross neglect	घोर उपेक्षा
Gross negligence	घोर उपेक्षा, घोर प्रमाद
Gross receipts	सकल प्राप्ति, कुल प्राप्ति
Gross revenue	कुल राजस्व, सकल आय, कुल आमदनी
Gross total	कुल योग
Gross value	कुल मूल्य
Gross weight	कुल भार
Ground	भूमि, जमीन
Ground, barren	बजर भूमि
Ground, boggy	दलदस्ती जमीन
Ground attack	स्थल आक्रमण
Ground based air force	भू-स्थित वायुसेना
Ground defence	जमीनी व्याप
Ground equipment	भूमि उपस्कर, स्थल उपस्कर
Ground floor	पहली मंजिल, निचली मंजिल
Ground level	भूमि-तल
Ground losses	भू-क्षति
Ground plan	भू-चित्र, भू-योजना; नीव विन्यास
Grounds	आधार
Group	समूह, वर्ग
Group, aesthetic	कला वर्ग
Group, constructive	रचनात्मक वर्ग
Group, literary	साहित्य वर्ग
Group, scientific	विज्ञान वर्ग
Group consciousness	समूह चेतना
Group display	सामूहिक प्रदर्शन
Group formation	समूह-विरचना
Group incharge	समूह-इन्वार्ज, समूह प्रभारी
Group interest	वर्ग-हित
Grouping	समूहीकरण, वर्गीकरण
Grouping error	समूहन-त्रुटि
Growth	वृद्धि; विकास

Growth, mental	मानसिक वृद्धि/विकास
Growth, stunted	अवरुद्ध वृद्धि/विकास
Growth rate	वृद्धि दर
Guarantee	गारंटी, प्रत्याभूति
Security	प्रतिभूति
Surety	प्रतिमू
Bail	जमानत, समनक
Guarantor	प्रत्याभूत, गारंटीकर्ता
Guard	रक्षक, रक्षी, गार्ड, गारद
Guard, advance	अग्र गारद, अग्र दस्ता
Guard, posting of	गारद तैनात करना
Guard, to relieve	गारद बदलना, रक्षी बदलना
Guard against	बचाव करना
Guard book	रक्षण-पुस्तक/पंजी
Guard of honour	सम्मान गारद
Guardian	अभिभावक, प्रतिपालक, चली
Custodian	सरकार
Guardianship	संरक्षकता
Guest	अतिथि
Visitor	यात्र्यागत
Guest house	अतिथि-गृह
Guidance	मार्ग-प्रदर्शन; निर्देशन
Guide	मार्गदर्शक; निर्देशक; निर्देशिका
Guide book	निर्देशिका, संदर्शिका
Guided missile	नियंत्रित मिसाइल
Guilt	दोष, अपराध
Guilt complex	अपराध ग्रंथि
Guilt feeling	दोषी भावना
Guiltless	निर्दोष
Guilty	दोषी
Guts	साहस

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Gain wrongfully	अवैध/अनुचित रूप से प्राप्त करना
Gallantry award	शौर्य पारितोषिक
General rule, as a	सामान्यतया
General set up	सामान्य व्यवस्था
General way, in a	सामान्यतया
Genuineness of the case	मामले की प्रामाणिकता
Give effect, to	कार्यान्वित करना
Give precedence	पूर्वता देना
Give a satisfactory account	संतोषजनक उत्तर देना
Good	
to make - the less in good faith	क्षतिपूर्ति करता सद्भावना से
Good behaviour	सदाचार
Good order, in	सुक्रम में
Grant of permission	इजाजत देना, अनुमा देना
Grievance, respect of	व्यवा-निवारण, शिकायत की दूरी
Gross moral turpitude	घोर नैतिक पतन
Gross negligence	घोर उपेक्षा
Grounds of appeal	अपील का आधार
Grounds on which	जिन आधारों पर
Guilty, to plead	अपराध स्वीकार करना

H

<i>Habeas corpus</i>	वदी प्रत्यक्षीकरण
<i>Habit</i>	आदत, स्वभाव, प्रकृति; अभ्यास
<i>Nature</i>	प्रकृति
<i>Tendency</i>	प्रवृत्ति
<i>Habitable</i>	वासयोग्य, रहने योग्य
<i>Habitual</i>	निवास स्थान
<i>Habitation</i>	वास, निवेश, निवास
<i>Habits of speech</i>	वाक् स्वभाव
<i>Habitual</i>	अभ्यस्त, आदी
<i>Regular</i>	नियमित
<i>Natural</i>	प्राकृतिक
<i>Habitual criminal</i>	अभ्यस्त अपराधी
<i>Habitual defaulter</i>	स्वभावतः बाकीदार, आभ्यासिक व्यतिकर्मी
<i>Habitual offender</i>	आभ्यासिक अपराधी, अभ्यस्त अपराधी
<i>Habitual robber</i>	अभ्यस्त लुटेरा
<i>Hair line</i>	बारीक रेखा
<i>Half</i>	बर्धं, आधा
<i>Half period</i>	बर्धं-काल
<i>Half rate</i>	आधी दर
<i>Half title</i>	संक्षिप्त शीर्षक
<i>Half yearly</i>	बर्धं-वार्षिक, छमाही
<i>Halt</i>	क्याम, अवस्थान, विराम
<i>Halting allowance</i>	अवस्थान भत्ता, विराम भत्ता
<i>Halting place</i>	विराम-स्थान
<i>Halts</i>	पड़ाव
<i>Hand book</i>	पुस्तिका, हस्तक
<i>Handicap</i>	बाधा, अभ्यास

Handicraft	हस्तशिल्प, दस्तकारी
Handling charges	चढ़ाई-उतराई यर्चं
Handloom	करघा
Hand operated	हस्तचालित
Hand over	देना, सौपना
Hand to hand fighting	मुठभेड़
Hand written	हस्तलिखित
Harassment	परेशानी, तग करना, पीड़न
Harbour	संश्रय देना, आश्रय देना
Hard and fast rules	पक्के नियम
Hard case	कठोर मामला
Hard cash	नकदी
Hard currency area	दुर्लभ-मुद्राधोत्र
Hard labour	कठोर थम
Hardened	कठोर; अम्यस्त
Hardened criminal	अम्यस्त अपराधी
Harmony	तालमेल, सामंजस्य, समन्वय
Haulage charges	दुलाई यर्चं
Hazard	जोखिम, खतरा, विपद
Hazard, occupational	व्यावसायिक खतरा
Hazardous	सकटमय, आपदापन्न
Hazardous operation	खतरनाक क्रिया
Head	मुख्य, प्रधान; शीर्ष
Head assistant	मुख्य/प्रधान सहायक
Head accountant	प्रधान लेखाकार
Head clerk	मुख्य लिपिक, बाबू
Head lamp	सामने की बत्ती
Head light	अग्रदीप, बड़ी बत्ती
Head lines	मुख्य समाचार, सरलेख
Head office	प्रधान कार्यालय
Head of state	राज्याधिपति, राज्य-अध्यक्ष
Head on	आमने-सामने
Head on collision	सामने की टक्कर
Head quarters	मुख्यालय
Head way	अग्रणीति, प्रगति, आगे बढ़ना

Head way, to make	प्रगति करना, उल्तति करना
Heading	शीर्षक
Health	स्वास्थ्य
Health certificate	स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
Health resort	स्वास्थ्य साम विहार
Health school	स्वास्थ्य विद्यालय
Health visitor	स्वास्थ्य चर
Healthy	स्वस्थ
Wholesome	स्वास्थ्यप्रद
Salutary	स्व.स्थवर्धक
Hearsay	मुनी-मुनाई, शुतमान
Hearsay evidence	जनशूत साक्ष
Hearing	मुनवाई, समात
Heavy industries	भारी उद्योग
Heinous crime	गंभीर अपराध
Heir	दायाद, वारिस, उत्तराधिकारी
Heir apparent	प्रत्यक्ष दायाद/वारिस/उत्तराधिकारी
Heir collateral	सांपाश्विक दायाद/वारिस/उत्तराधि- कारी
Heir, legal	बैंध दायाद/उत्तराधिकारी/वारिस
Heir, presumptive	संभावित/प्रकल्पित दायाद/उत्तराधिकारी
Held in abeyance	आस्थगित, रोक रखा गया
Held over	रोका हुआ
Hereafter	इसके बाद, भवित्व में
Hereby	एतद्वारा, इसके द्वारा
Hereditary	आनुवंशिक, वंशानुगत, पैतृक, मौरूसी,
Hereditary rights	पुस्तैनी
Heredity	मौरूसी हक, वंशानुगत अधिकार
Heritage	वंशानुगत
Inheritance	दाय
Legacy	दायप्राप्ति
Bequest	रिवय, पैतृक सम्पत्ति
Hereinafter	प्ररिवय
Hereinbefore	इसके आगे
	इसके पहले

Heretofore	जैवे तक
Here under	नीचे, इसके अधीन
Here with	इसके साथ
Hierarchy	पद सौपान
Hierarchy of labour	श्रम सौपान
High court	उच्च न्यायालय
High sea	महासमुद्र
High treason	महा राज्यद्वेष
High watermark	उच्चतम जलस्तराक
Higher authority	उच्चतर प्राधिकारी
Higher level	उच्चतर स्तर
Higher state	उच्चतर अवस्था
Highest	उच्चतम
Highest bid	सबसे ऊँची बोली
Highest good	परमार्थ, परम हित
Highest level discussion	उच्च स्तरीय विचार-विमर्श
Highest power committee	उच्चाधिकार समिति
Highest traditions	महान् परम्पराएँ
Highway robbery	बटमारी
Hindrance	बाधा, अड़चन
Impediment	खाकावट, विघ्न
Obstruction	अवरोध, अडंगा
Hire purchase	भाड़ा क्रय, किराया-खरीद
His excellency	परम थेठ, महामहिम
His Highness	महामान्य
His holiness	परम पादन
His honour	माननीय
His lordship	लाईं महोदय
Historical	ऐतिहासिक
Historical monument	ऐतिहासिक स्मारक
Historical relic	ऐतिहासिक अवशेष
Historical site	ऐतिहासिक स्थल
History card	वृत्त कार्ड
History sheet	इतिवृत्त, वृत्त पत्र; अपराध-लेख
Hoard	अपसंचय करना

Hold (office)	पद ग्रहण करना।
Holding	जोत, क्षेत्र, चक्र
Holding, unconconomic	बलाभकर जोत
Homage	श्रद्धा; श्रद्धांजलि
Home	गृह
Home affairs ministry	गृह मन्त्रालय
Home government	स्वदेश सरकार
Home guard	गृह-रक्षी, होमगार्ड
Home land	स्वदेश
Home rule	स्वशासन
Homicide	मानवध
Homicide, culpable	दण्डनीय मानव हत्या
Homogeneous	सम, समाग, समरूप, समजातीय
Honesty	ईमानदारी, शुचिता
Integrity	सत्यनिष्ठा
Honorarium	मानदेय
Prize, Award	पुरस्कार
Reward	पारितोषिक
Honorary	वर्वेतनिक, मानद
Honorific prefixes	सम्मान-शब्द
Honour, title of	मानोपाधि
Honour a bill	बिल/हुंडी सकारना
Honourable	माननीय
Honourably acquitted	सम्मान सहित विमुक्त
Hope	आशा
Anticipation	प्रत्याशा
Expectation	सप्रतीक्षण
Hostage	वंधक व्यक्ति
Hostess	सत्कारिणी
Hostile	विरोधी, प्रतिकूल, यानुतापूर्ण
Hostile act	गानुतापूर्ण/विरोधी कार्य
Hostile propaganda	विरोधी प्रचार
Hostile witness	प्रतिकूल साक्षी/गवाह
Hostilities	युद्ध
Hourly broadcast	घटेवार प्रसारण

Hourly observation	घटेवार प्रेक्षण
Hour of business	कार्य-समय
Hours of employment	काम के घटे
Household goods	घरेलू चीजें/वस्तुएं
Household furniture	गृह-उपस्कर
House keeper	गृह प्रबन्धक, गृहान्वेषक
Housing	निवासन, निवास-ध्यवस्था
Human	मानवीय, मानव
Humanitarian grounds	मानवीय आधार, मानवहित का आधार
Humane	मानवोचित, सहृदय, दयालु
Humanity	मानवता, मानव जाति
Hypothesis	परिकल्पना, प्रावकल्पना
Hypothetical	उपकाल्पनिक, प्रावकल्पिक
Hypothetical proposition	साक्षेप तर्कवाक्य
Hypothecated	दृष्टिबन्धक रखा हुआ
Hypothecation	दृष्टिबन्धक

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्याँश के हिन्दी पर्याय

Have the effect of	का प्रभाव होना
Have the force of law	विधिसम प्रभावी होना
Have recourse to	का सहारा लेना, का उपाध्रथ लेना
Having regard to the circumstances of the case	प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर
Heard and finally decided	सुना तथा अतिम हृष से विनिश्चय
Heard in person	स्वयं सुना, स्वयंश्रुत
Heard to pay	ध्यान देना
Held in truth	न्यास-घृत
Heaven of the affecting	आगे दिए हुए
Held in abeyance	आस्थगित
Held in obey	पद धारण करना

Ibid (Ibidem)	तर्त्रिव, वही
Idea	विचार, कल्पना; प्रत्यय
Idea abstract	अमूर्तं प्रत्यय
Ideal	आदर्श
Idealistic	आदर्शवादी
Identical	समरूप, सर्वसम, समान
Identical scale of pay	एकरूप वेतन मान
Indentical time scale of pay	वेतन का समान समय मान
Identification	अभिज्ञान, पहचान, शिनाई
Identification card	पहचान कार्ड, अभिज्ञान पत्रक
Identification mark	पहचान चिह्न
Identification paper	पहचान-पत्र
Identification parade	पहचान/शिनाई परेड
Identity	अभिज्ञान, पहचान, शिनाई
Identity card	पहचान-कार्ड, अभिज्ञान-पत्रक
Identity slip	पहचान पर्ची
Ideological	संदान्तिक
Ideology	विचारधारा
Idiocy	जड़ता, जड़बुद्धिता
Idiomatic translation	मुहावरेदार अनुवाद
Idiot	जड़, जड़मति, जड़बुद्धि, मूड़
Idolatory	मूर्तिपूजा
Ignominy	अवकीर्ति, कर्सक
Ignorance	अवभिज्ञता
Ill advised	कुर्मंचित्
Ill-being	दुर्सिष्टि
Illegal	अवैध, गंरकानुनी
Unlawful	अविधिक, विधिविरुद्ध
Illegal gratification	अवैध वरितोपण

Illegal practice	अवैध आचरण
Illegal war	अवैध युद्ध
Illegible	अपाठ्य
Illegible message	अपाठ्य संदेश
Illegitimate	जारज, अधमंज, अवैध
Illfame	अर्कीति, वदनामी
Ill gotten	अन्यायाजित
Illicit	अनुचित, अधर्म्य, निषिद्ध
Illiteracy	निरक्षरता
Illiterate	निरक्षर
Illogical	तर्क विहृद
Ill-treatment	दुर्व्यवहार
Illusion	भ्रम, माया
Illusion, optical	दृष्टि-भ्रम
Illusory	भ्रामक
Illustrated	सचित्र/सोदाहरण निर्दर्शित करना
Illustrated article	सचित्र लेख
Illustrated talk	सोदाहरण भाषण/वाती
Illustration	निर्दर्शन, उदाहरण
Instance	दृष्टान्त
Illustrative	निर्दर्शनात्मक, निर्दर्शी
Illustrative material	दृष्टांत-सामग्री
Illustrious	प्रश়ণात
Illwill	वैमनस्य, दुर्भावना, कुभावना
Image	विम्ब, प्रतिविम्ब, परछाही
Image, blurred	অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব
Image, distinct	স্পষ্ট অভিব্যক্ত প্রতিবিম্ব
Image, distorted	বিকৃত প্রতিবিম্ব
Image, erect	অনুলোম প্রতিবিম্ব
Image, inverted	উলটা প্রতিবিম্ব
Image, magnified	আবগ্নিত প্রতিবিম্ব
Image, real	বাস্তবিক প্রতিবিম্ব
Image, virtual	অভাসী প্রতিবিম্ব
Imagery	কলরনা সূচি; মূর্তিকলা
Imaginary	কাল্পনিক

Imagination	कल्पना
Imagination, creative	सृजनात्मक कल्पना
Imagination, fantastic	हवाई कल्पना
Imbalance	असंतुलन
Imbecile	दुर्बल, मूढ़
Imbibe	अन्तर्गम्भीण करना
Imitation	अनुकरण, नकल, अनुकूलिति
Imitative	अनुकरणात्मक
Immaterial	असार; नाचीज, तुच्छ
Immature	अपरिपक्व
Immediate	तत्काल, अविलम्ब; निकटतम, आसन्न अव्यवहित
Immediate action	तुरन्त/तात्कालिक कार्यवाही
Immediate attention	तुरन्त ध्यान
Immediate cause	गम्भीर कारण
Immediate danger	आसन्न संकट
Immediate death	तत्काल मृत्यु
Immediate employer	आसन्न नियोजक
Immediate officer	निकटतम अधिकारी, उपरि अधिकारी
Immediate solution	तात्कालिक हल
Immediately	तत्काल, तुरन्त
Immigration	आप्रवास, आप्रवासन, आप्रवर्जन
Emigration	प्रवास
Imminent	सन्तिकट, आसन्न
Immobility	निश्चयलता
Immobilize	गतिहीन करना
Immoral	अनेतिक
Immoral obligation	अनेतिक दायित्व
Immovable	अचल, स्थावर
Immovable property	स्थावर/अचल सम्पत्ति
Immune	उम्मुक्त, प्रतिरक्षित, निरापद
Immunity	निरापदता, उम्मुक्ति
Impact	संप्रभाव, आपात; प्रभाव
Impairment	शून्यता, शीघ्रता
Impartial	निष्पक्ष

Neutral	तटस्थ
Impartiality	निष्पक्षता
Impassable	अलंघ्य
Impasse	गतिरोध
Impeach	महाभियोग लगाना
Impeachment	महाभियोग
Impede	अड़चन डालना
Impediment	वाधा, अड़चन
Impending	आसन्न
Impending disaster	आसन्न विपत्ति
Impenetrable	अभेद्य
Imperative	अत्यावश्यक, अवश्य करणीय
Imperfect	अपूर्ण
Imperfect in-state	अपूर्णावस्था
Imperialism	साम्राज्यवाद
Impermeable	अभेद्य, अपारगम्य
Impersonal	अवैयक्तिक, सामान्य
Impersonation	प्रतिलिपण, परस्पर धारण
Impertinence	धृष्टता
Implementation	कार्यान्वयन
Implements of war	युद्ध साधन
Implication	मंशा, आशय; अभिप्राय; फसाना
Implied	अन्तर्निहित
Implied authority	अन्तर्निहित प्राधिकार
Import	आशय, अभिप्राय; आयात/आयात करना
Importance	महत्व
Importance, economic	आर्थिक महत्व
Important	महत्वपूर्ण, आवश्यक
Importer	आयातकर्ता
Impose	लगाना; आरोप लगाना
Impose tax	कर लगाना
Imposition	करारोपण; आरोपण
Impossible	असंभव
Impounded	अवरुद्ध, परिवर्द्ध
Impracticable	अव्यावहारिक

<i>Impression</i>	प्रभाव; छाप; धारणा
<i>Impression bad</i>	कुप्रभाव
<i>Imprest</i>	अग्रदाय
<i>Imprest money</i>	अग्रदाय धन
<i>Imprisonment</i>	कारावास
<i>Confinement</i>	अवरोध
<i>Captivity</i>	बन्दीकरण
<i>Imprisonment, rigorous</i>	कठोर कारावास
<i>Imprisonment, simple</i>	साधारण कारावास
<i>Improbability</i>	असम्भाव्यता
<i>Impromptu</i>	पूर्वचित्ति, सद्यःस्फूर्त
<i>Improper</i>	अनुचित
<i>unbecoming</i>	अशोभनीय
<i>Improved</i>	उन्नत, विकसित, सुधारा हुआ
<i>Improved variety of seeds</i>	उन्नत किस्म के बीज
<i>Improvement</i>	सुधार
<i>Development</i>	विकास
<i>Betterment</i>	अच्छाई, आसुधार
<i>Improvise</i>	तात्कालिक व्यवस्था करना, काम चलाना
<i>Improvisational</i>	काम चलाऊ
<i>Improvisational aids</i>	काम चलाऊ सामान
<i>Impluse</i>	आवेग
<i>Impure</i>	अशुद्ध
<i>Imputation</i>	अभ्यारोप, सांछन, अभिरोप
<i>Inability</i>	अयोग्यता
<i>Disability</i>	अशक्तता, निर्योग्यता
<i>Incapacity</i>	असमर्थता
<i>Inaccessibility</i>	अगम्यता
<i>In accordance with</i>	के अनुसार
<i>Inaccuracy</i>	अव्याख्यता, असुद्धि
<i>Inactive</i>	निरिक्षण
<i>Inadequate</i>	अपर्याप्ति
<i>Inadmissible</i>	अपाह्य, अमान्य
<i>Inabeyance</i>	निलम्बित, आस्थगित
<i>In advance</i>	पहले से

Inadvercence	अनवधानता
Inadvertent	अनवधान, असावधान
Inadvertently	अनजाने, असावधानी से
Inalienable	अहरणीय, असक्राम्य
Inanimate	निर्जीव, अचेतन
In anticipation of	की प्रत्याशा में
Inapplicable	अप्रयोज्य
Inappropriate	अनुपयुक्त
Inauguration	उद्घाटन
Installation	प्रतिष्ठापन, स्थापन
Inborn	सहज, जन्म जात
Incamera	बन्द कमरे में
Incapacity	असमर्थता
Incash	नकद
Incendiary bomb	आग लगाऊ बम, अग्नि बम
Incentive	प्रोत्साहन
Stimulus	प्रेरणा
Inception	प्रारम्भ
Incharge	कार्यभारी, प्रभारी
Incidence	आपात, भार
Incidence of taxes	कर-आपात
Incidental	प्रासंगिक
Consequential	आनुपगिक
Incidental charges	प्रासंगिक व्यय
Incidental expenses	प्रासंगिक व्यय
Incidental order	प्रासंगिक आदेश
Incite	उकसाना, उभारना, उद्दीप्त करना
Incitement	उद्दीपन, भड़काना
Inclination	प्रवृत्ति, निति, झुकाव
Inclination axial	अक्षीय झुकाव
Inclined	नत, झुका हुआ
Include	सम्मिलित करना, अन्तर्गत होना
Included	सम्मिलित, समाविष्ट, अन्तररूप
Inclusive of	को सम्मिलित करके, को मिलाकर
Inclusive tour	समस्त व्यय सहित यात्रा/दीरा

<i>Incognito</i>	अज्ञात, गुप्त रूप से
<i>Incoherence</i>	असम्बद्धता
<i>Income</i>	आय, आमदानी
<i>Income, gross</i>	कुल आय
<i>Income, national</i>	राष्ट्रीय आय
<i>Income, net</i>	शुद्ध आय
<i>Income from other sources</i>	अन्य स्रोतों से आय
<i>Income, per capita</i>	प्रति व्यक्ति आय
<i>income tax clearance certificate</i>	आयकर शोधक पत्र
<i>Incoming</i>	आगम्नुक, आवक
<i>Incommensurate</i>	असम्मेय
<i>Incompatible</i>	वेमेल, असंगत
<i>Incompetence</i>	अद्यमता
<i>Inefficiency</i>	कार्य अकुशलता, अदक्षता
<i>Incompetent</i>	अदक्ष
<i>inefficient</i>	कार्य-अकुशल/अदक्ष
<i>Incomplete</i>	अपूर्ण*
<i>Incompliance with</i>	के अनुपालन में, का अनुपालन करते हुए
<i>Inconclusive</i>	अनिश्चायक
<i>Incongruous</i>	असंगत, विपर, वेतुका
<i>Inconsistent</i>	असम्बद्ध, असंगत, अनुरूप
<i>Inconstancy</i>	अस्थिरता, असंपति; विरोध
<i>Incontestable</i>	अप्रतिवाद
<i>Incontrovertible</i>	निविवाद
<i>Indisputable</i>	अविवाद
<i>Irrefragable</i>	अखण्डनीय
<i>Inconvenience</i>	असुविधा
<i>Inconvertible</i>	अपरिवर्त्य
<i>Incoordination</i>	असम्बन्ध
<i>Incorporated</i>	समाविष्ट, सम्मिलित, निर्गमित
<i>Incorporeal</i>	अमूर्त
<i>Incorrect</i>	अशुद्ध, गलत
<i>Increment</i>	वृद्धि; वेतन-वृद्धि
<i>Increment advances</i>	अग्रिम वेतन-वृद्धिया

Incrimination	अभिशंसन, अपराधारोपण
Incubation	उद्भवन, ऊप्पम-नियंत्रण
Incubation, period	उद्भवन काल
Inculpable	निर्दोष
Incumbent	पदधारी, पदस्थ
Incumbent (upon)	के लिए आवश्यक/लाजिम
Incumbrance	भार
Incurred	किया हुआ
Indebted	ऋणी, ऋणग्रह्त
Indecent	अशिष्ट
Immodest	अविनीत, निलंजन
Unmannerly	अभव्य
Ungentlemanly	अभद्र
Indefinite	अनिश्चित
Indefinite proposition	अनिश्चित तर्कवाक्य
Indemnity	क्षतिपूर्ति, हरजाना
Indemnity bond	क्षतिपूर्ति बन्ध
Indent	माँगपत्र
Indented paragraph	दूरारंभ/जगह छूटा पैराग्राफ
Indenture	यनुबन्ध पत्र
Independence	स्वातन्त्र्य, स्वाधीनता
Independence of judiciary	न्यायांग की स्वाधीनता
Independent characters	स्वतंत्र सक्षण
Independent function	स्वतंत्र कृत्य
Independent worker	स्वतंत्र कार्यकर्ता
In detail	सविस्तर, व्योरेवार
Indeterminate	अनिर्धारित; अपरिमित
Indeterminate duty	अविहित कर्तव्य
Index	अनुक्रमणी, अनुक्रमणिका; सूचक
Index card	अनुक्रमणी पत्रक
Index finger	तजनी
Index mark	सूचक चिह्न
Indexing alphabetical	वर्णनियुक्त अनुक्रमणिका
Indicated	निर्दिशित
Indication	संकेत, निर्देश

<i>Indication priority</i>	
<i>Indict</i>	पूर्वता निर्देश
<i>Indictment</i>	अभ्यारोपण
<i>Indifference</i>	अभ्यारोपण, अभियोग
<i>Indigenous</i>	उदासीनता
<i>Indigenous system of medicine</i>	देशज, देसी
<i>Indigestible</i>	देशी चिकित्सा पद्धति
<i>Indirect</i>	अपच्छ
<i>Indirect agent</i>	अप्रत्यक्ष, परोक्ष
<i>Indirect influence</i>	परोक्ष कारक
<i>Indirect knowledge</i>	अप्रत्यक्ष प्रमाण
<i>Indirect observation</i>	परोक्ष ज्ञान/ज्ञानकारी
<i>Indirect rule</i>	अप्रत्यक्ष प्रेक्षण
<i>Indirect support</i>	अप्रत्यक्ष शासन
<i>Indirectly</i>	परोक्ष सहायता
<i>Indiscipline</i>	परोक्ष रूप से
<i>Indiscriminate</i>	अनुशासनहीनता
<i>Indiscriminate firing</i>	अधार्घुट
<i>Indispensable</i>	अधार्घुट गोली चलाना
<i>Obligatory</i>	अपरिहार्य
<i>Compulsory</i>	बाध्यकर
<i>Indisputable</i>	अनिवार्य
<i>Indistinct</i>	अविवाद्य
<i>Individual</i>	अस्पष्ट
<i>Individual difference</i>	व्यवितक, व्यक्तिगत
<i>Individual freedom</i>	व्यवितगत मेद
<i>Individual good</i>	व्यवितगत स्वतन्त्रता
<i>Individual intuition</i>	व्यवित-हित
<i>Individual response</i>	विशेष अन्त-प्रज्ञा
<i>Individualism</i>	व्यवितक अनुक्रिया
<i>Individualist</i>	व्यवितवाद
<i>Individuality</i>	व्यवितवादी
<i>Indivisible</i>	व्यवितत्व
<i>Indoctrination</i>	अविभाज्य
<i>Indolence</i>	सिढ़ान्त बोधन अकर्मण्यता

Indoor	अंतरंग, अन्तःकक्ष, अन्तर्वासी, आवासिक
Indoor games	अन्तःकक्ष मेल
Indoor patient	अन्तर्वासी रोगी
Indoor treatment	अस्पताल में रखकर चिकित्सा करना
Induced	प्रेरित
Inducement	प्रलोभन, अभिप्रेरणा
Indulgence	अतिभोग; अतिसेवन
Industrial	ओद्योगिक, उद्योग सम्बन्धी
Industrial area	उद्योग क्षेत्र
Industrial centre	उद्योग केन्द्र
Industrial crisis	उद्योग संकट
Industrial development	उद्योग विकास
Industrial discipline	उद्योग-अनुशासन
Industrial dispute	ओद्योगिक विवाद
Industrial efficiency	उद्योग-कुशलता
Industrial establishment	उद्योग-अधिष्ठान
Industrial revolution	उद्योग-क्रांति
Industrial unrest	उद्योग अशान्ति
Industrial lockout	उद्योग तालाबन्दी
Industrialisation	उद्योगीकरण
Industrialist	उद्योगपति
Industrious	उद्योगी, परिश्रमी
Industry	उद्योग
Industry, infant	शिशु उद्योग
Industry, key	मूल उद्योग
Industry, large scale	बड़े पैमाने के उद्योग
Ineffective	अप्रभावी
Ineffectual	निष्प्रभाव
Inefficiency	अकुशलता
Inefficient	कार्य अदम, अकर्मण्य
Incompetent	अदम, अकुशल
Ineligible	अपात्र
Ineligibility	अपात्रता
Inequality	असमता
Inequitable	साम्यहीन, असाम्यिक

Inert	निष्क्रिय, अक्रिय
Inert bomb	अक्रिय बम
Inert gas	अक्रिय गैस
Inertia	निःचेप्तता
Inescapable requirement	अनिवार्य आवश्यकता
Inexhaustible resources	असीम साधन, अनन्त साधन
Inexpedient	असमीचीन, अनुपयुक्त
Infallible	अचूक
Infancy	शैशव
Infantile	शैशवकालीन
Infantile morality rate	शिशु-मृत्यु-दर
Infantry	पौदल सेना
Infection	संक्रमण
Infection immunity	संक्रमण प्रतिरक्षा
Infectious	सांक्रमिक, सक्रामक
Infective	संक्रमी
Inference	अनुमान, निष्कर्ष, अनुमिति
Inferior	अवर, निम्न
Inferior staff	निम्न कर्मचारी वग
Inferiority	हीनता
Inferiority complex	हीन भावना
Infidel	काफिर
Infiltration	अन्तःसंचरण; घुसपैठ
Infinite	अनन्त
Infinitesimal	अत्यणु
Infinity	अनन्त
Infirmity	बशक्तता
Inflammable	ज्वलनशील
Inflated rate	स्फीत दर
Inflation of currency	मुद्रा स्फीति
Influence	प्रभाव
Infuse	प्रवृत्त, लागू
Inform	सूचित करना
Acquaint	परिचित करना
Apprise	अभिसूचित करना

Informal	अनौपचारिक
Informant	ज्ञापक
Information	सूचना
Information and broadcasting	सूचना और प्रसारण
Informative	सूचनाप्रद
Informer	मुख्यविवर, सूचक
Infringement	अतिलंघन
Breach	भंग
Transgression	उत्क्रमण, अतिक्रमण
Encroachment	उपाक्रमण, अधिक्रमण
Trespass	अनधिकार प्रवेश
Contravention	उल्लंघन
Ingredient	अवयव, अंश
Ingross	प्रवेश
Ingrowth	अन्तवृद्धि
Inhabitant	निवासी
Inherent	अन्तिविहित, सहज
Inherent qualities	सहज गुण
Inherent rights	अन्तिनिहित अधिकार
Inherit	दाय प्राप्त करना
Inherited characters	वंशागत लक्षण
Inheritance	दाय, विरासत
Inhibiting effect	निरोध प्रभाव
Inhibition	अन्तर्बोधा; निरोध
In his discretion	अपने विवेक से
In human treatment	अमानुषिक व्यवहार
Initial	प्रारम्भिक, आरम्भिक
Initial approach	आरम्भिक पहुँच
Initial charge	आरम्भिक प्रभार
Initial condition	आरम्भिक प्रतिवृद्धि
Initial pay	प्रारम्भिक वेतन
Initial position	मूल स्थान
Initial stage	प्रारम्भिक अवस्था
Initials	आद्यक्षर
Initiated	प्रारम्भ

Inert	निप्तिक्षय, अक्रिय
Inert bomb	अक्रिय बम
Inert gas	अक्रिय गैस
Inertia	निश्चेष्टता
Inescapable requirement	अनिवार्य आवश्यकता
Inexhaustible resources	असीम साधन, अनन्त साधन
Inexpedient	असमीचोन, अनुपयुक्त
Infallible	अचूक
Infancy	शैशव
Infantile	शैशवकालीन
Infantile mortality rate	शिशु-मृत्यु-दर
Infantry	पैदल सेना
Infection	संक्रमण
Infection immunity	संक्रमण प्रतिरक्षा
Infectious	सांक्रमिक, संक्रामक
Infective	संक्रामी
Inference	अनुमान, निष्कर्ष, अनुमिति
Inferior	अवर, निम्न
Inferior staff	निम्न कर्मचारी वग
Inferiority	हीनता
Inferiority complex	हीन भावना
Infidel	काफिर
Infiltration	अन्तःसंचरण; पुस्पैठ
Infinite	अनन्त
Infinitesimal	अत्यधु
Infinity	अनन्त
Infirmity	अशक्तता
Inflammable	ज्वलनशोल
Inflated rate	स्फीत दर
Inflation of currency	मुद्रा स्फीति
Influence	प्रभाव
Inforce	प्रवृत्त, लागू
Inform	मूचित करना
Acquaint	परिचित करना
Apprise	अभिमूचित करना

Informal	अनौपचारिक
Informant	जापक
Information	सूचना
Information and broadcasting	सूचना और प्रसारण
Informative	सूचनाप्रद
Informer	मुखबिर, सूचक
Infringement	अतिलंघन
Breach	भंग
Transgression	उत्क्रमण, अतिक्रमण
Encroachment	उपाक्रमण, अधिक्रमण
Trespass	अनधिकार प्रवेश
Contravention	उल्लंघन
Ingredient	अवयव, अण
Ingross	प्रवेश
Ingrowth	अन्तर्वृद्धि
Inhabitant	निवासी
Inherent	अन्तर्विहित, सहज
Inherent qualities	सहज गुण
Inherent rights	अन्तर्निहित अधिकार
Inherit	दाय प्राप्त करना
Inherited characters	वंशांगत लक्षण
Inheritance	दाय, विरासत
Inhibiting effect	निरोध प्रभाव
Inhibition	अन्तर्बाधा; निरोध
In his discretion	अपने विवेक से
In human treatment	अमानुषिक व्यवहार
Initial	प्रारम्भिक, आरम्भिक
Initial approach	आरम्भिक पहुँच
Initial charge	आरम्भिक प्रभार
Initial condition	आरम्भिक प्रतिवन्ध
Initial pay	प्रारम्भिक वेतन
Initial position	मूल स्थान
Initial stage	प्रारम्भिक अवस्था
Initials	थायक्षर
Initiated	प्रारम्भ

<i>Initiation</i>	सूचिपात्र किया हुआ
<i>Initiation of disciplinary action</i>	आनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करना
<i>Initiative</i>	पहल, अग्रसरता, अभिक्रम, सूचिपात्र, क्षमता
<i>Injunction</i>	नियेधाज्ञा, व्यादेश
<i>Direction</i>	निर्देश
<i>Ruling</i>	द्यवस्था
<i>Injunction, interim</i>	अन्तरिम व्यादेश
<i>Injunction, mandatory</i>	प्रादेशात्मक नियेधाज्ञा/व्यादेश
<i>Injunction, preventive</i>	निवारक व्यादेश
<i>Injunction, temporary</i>	अस्थायी व्यादेश
<i>Injustice</i>	अस्थाय
<i>Inpropriety</i>	अनोचित्य
<i>Inland</i>	अन्तर्राष्ट्रीय
<i>Inland post</i>	देशीय डाक
<i>In lieu of</i>	के स्थान में
<i>In matter of</i>	के विषय में
<i>Innate</i>	अन्तजाति, सहज
<i>Innate capacity</i>	अन्तजाति क्षमता
<i>Innocent</i>	निर्दोष
<i>Inofficious</i>	कर्तव्योदासीन; अनुपकारी; अमान्य
<i>Innovation</i>	नवीन किए, नवाचार
<i>Inoculation</i>	टीका
<i>In official capacity</i>	पद की हैसियत से, अधिकारी रूप में
<i>In operation</i>	अमल में
<i>Inoperative</i>	अप्रवृत्त, अप्रवर्ती, प्रवर्तनेहीन
<i>In oportune</i>	असामयिक
<i>Untimely</i>	अकाल
<i>In order</i>	यथाक्रम, क्रम में
<i>In order of merit</i>	योग्यता क्रम से, गुणावगुण अनुसार
<i>In order of priority</i>	अग्रता/पूर्वता क्रम से
<i>Inordinate</i>	अत्यधिक
<i>In part</i>	अंशतः
<i>In particular</i>	
<i>In person</i>	

Input	अन्तर्गामी, निवेश
Inquest	अन्वेषण, पूछताछ, जीच-प्रृष्ठाल
Inquiry	जीच
Insanity	अस्वारुद्धकर
Insatiable	अतृप्त
Inscription	शिलःलेख
Insecure	अरक्षित; अस्थिर
Insecure position	अस्थिर स्थिति
Inserted	निविष्ट
Insight	अन्तर्दृष्टि
Insignia	लक्षण; अधिचिह्न
Insignificant	सामान्य, अविशिष्ट
Insoluble	अविलेय
Insolvency	दिवाला
Insolvent	दिवातिया
Inspection	निरीक्षण
Inspection criteria	निरीक्षण सिद्धान्त
Inspection periodical	आवधिक/सामयिक निरीक्षण
Inspection notes	निरीक्षण टिप्पणी
Inspectorate	निरीक्षणालय
Inspiration	प्रेरणा
Inspired article	प्रेरित लेख
Instability	अस्थिरता
Instal	अधिष्ठापित करना, निरोपित करना
Installation	अधिष्ठापन
Instalment	किस्त
Instance	दृष्टात
Instance, particular	विशिष्ट दृष्टांत
Instantaneous	तत्काल
Instantly	तत्क्षण
Immediately	तुरन्त
Instantaneous death	तत्काल मृत्यु
In status quo	मध्यापूर्व
Instigation	उत्तेजना
Provocation	प्रकोपन

Instinct	सहज प्रवृत्ति, वृत्ति
Instinct, human	मानव वृत्ति
Institute	संस्थान
Institute, educational	शिक्षा-संस्थान
Institute, industrial	औद्योगिक संस्थान
Instituted	निर्देशित, दायर
Institution	संस्था
Instruction	अनुदेश, हिदायत, शिक्षण
Instructor	शिक्षक
Instrument	करण-पत्र, दस्तावेज; उपर्यंथ
Instrument non-negotiable	असंक्रान्त करणपत्र
Insubordination	बदवशा; अनधीनता
Insufficient	अपर्याप्त
Insufficiently paid article	कम टिकट लगी वस्तु
Insurrection	परिद्वाह
Sedition	राजद्वाह
Revolt	विद्वाह
Rebellion	विद्वाह
Mutiny	गदर
Riot	उपद्रव, दंगा
Revolution	फाँति
Rising	उद्वोह
Intact	ठोक, दुरुस्त, पूर्ण
Intake	भरतो, महण-शक्ति
Intangible	अमूर्त
Integral	अभिन्न, अविभाज्य
Integrated	समाकलित, एकीकृत
Integrated personality	समाकलित व्यक्तित्व
Integration	एकीकरण, एकता
Integration emotional	भावनात्मक एकता
Integrity	सत्यनिष्ठा
Honesty	ईमानदारी, गुचिता
Inelligence	बुद्धि; अभिसूचना, खुफिया
Intelligence report	खुफिया रिपोर्ट
Intended	अभिप्रेत

Intense	तीव्र
Intensive	प्रगाढ़, गहन, तीव्र
Intensive drive	तीव्र गहन आन्दोलन
Intensive farming	प्रगाढ़ कृषि
Intent	आशय
Intention	अभिप्राय
Intentional	साभिप्राय, साशय
Wilful	जानवृक्षकर
Intentionally and knowingly	साभिप्राय और जानवृक्षकर
Inter alia	अन्य बातों के साथ-साथ
Interceptor	अन्तर्रोधक
Interception	अन्तग्रहण, अन्तःरोधन
Intercharge	अदल-बदल
Inter-city	अन्तर्वंगर
Inter-communication	अन्त.संचार
Interest	ब्याज; रुचि, हित
Interest, compound	चक्रवृद्धि ब्याज
Interference	हस्तक्षेप, बाधा
Interim	अन्तरिम
Provisional	अनन्तिम
Transitional	संक्रमणकालीन
Interim award	अन्तरिम निर्णय
Interim dividend	अन्तरिम लाभाश
Interim order	अंतरिम आदेश
Interim relief	अंतरिम सहायता
Interior	अंतरंग
Intermediary	मध्यवर्ती
Intermediate	माध्यमिक
Intermingled	अंतमिश्रित
Intermittent	सविराम, रुक-रुककर
Intern	स्थानबद्ध करना
Internal	आंतरिक
Internal check	आंतरिक जाँच
International	अंतर्राष्ट्रीय
Interpolation	अंतर्वेशन, थोपक

Preface	आमुख
Introspection	अंतर्दृश्यन्
Introspective	अंतर्दर्शी
Introvert	अंतर्मुखी
Intrusion	अंतर्भेदन
Intuition	अंतर्ज्ञान, अंतःप्रज्ञा
Invader	हमलावर, आक्रमणकारी
Invalid	अमान्य; अव्यवहारी
Invalid pension	अव्यवहारी पेन्शन
Invalidation	अमान्यकरण
Invalidity	अमान्यता
Invariable	अपरिवर्तनीय
Invariably	सदैव
Invasion	आक्रमण
Expedition	चढाई, यान
March	प्रयाण
Research	शोध, अनुसंधान, गवेषणा
Invention	आविष्कार
Discovery	खोज
Inventor	आविष्कारी, आविष्कारक
Inventory	फदं, सूची, वस्तु-सूची
Inversely	प्रतिलोमतः
Inverse ratio	प्रतिलोम अनुपात
Invest	लगाना (धन)
Investigate	जीच-पड़ताल करना, अनुसंधान करना, अन्वेषण करना, तफ्तीश
Investigating officer	अन्वेषण अधिकारी
Investiture	मानासिधेक
Investment	धन लगाना, निधान, निवेश
Invigilator	निरीक्षक
Inviolability	अलंघनीयता, अवाघ्यता
Invisible	अदृश्य
Invisible hand	अदृश्य शक्ति
Invitation	निमन्त्रण
Invoice	बीजक्

Preface	आमुख
Introspection	अंतर्दर्शन
Introspective	अंतर्दर्शी
Introvert	अंतर्मुखी
Intrusion	अंतभेदन
Intuition	अतज्ञान, अंतःप्रज्ञा
Invader	हमलावर, आक्रमणकारी
Invalid	अमात्य; अस्वस्थ
Invalid pension	अशक्तता पेन्शन
Invalidation	अमात्यकरण
Invalidity	अमात्यता
Invariable	अपरिवर्तनीय
Invariably	सदैव
Invasion	आक्रमण
Expedition	चढ़ाई, यान
March	प्रयाण
Research	शोध, अनुसंधान, गवेषणा
Invention	आविष्कार
Discovery	खोज
Inventor	आविष्कर्ता, आविष्कारक
Inventory	फर्द, सूची, वस्तु-सूची
Inversely	प्रतिलोमतः
Inverse ratio	प्रतिलोम अनुपात
Invest	लगाना (धन)
Investigate	जाँच-पड़ताल करना, अनुसंधान करना, अन्वेषण करना, तफ्तीश
Investigating officer	अन्वेषण अधिकारी
Investiture	मानामिपेक
Investment	धन लगाना, निधान, निवेश
Invigilator	निरीक्षक
Inviolability	अलंघनीयता, अवाघ्यता
Invisible	अदृश्य
Invisible hand	अदृश्य शक्ति
Invitation	निमन्त्रण
Invoice	बीजक.

Invoice, inward	आगत बोक्स, आगत बोक्स
Invoice, outward	निवारणी जावक बोक्स
Involuntary	अनंचित
Involve	पूर्णाना
Involved	दस्त, प्रतिनिधि, वंतव्यत
Inward	आगत
Ipsa factu	स्वतः हो, तथ्य इर्यां में, स्वाम्यम्
Ipsa iure	विधिः
Irrational	अविचेष्टी, अवृत्त
Preposterous	अवर्गम
Absurd	विचलन
Irrecoverable	न वापून होने योग्य
Irrecoverable loss	अवाप्ति हानि
Irrefutable	प्रत्यक्ष्य, अवश्यकोप
Indisputable	अविवाद
Irregular	अनियमित
Irregularity	अनियमितता
Irregularly financial	विलोय अनियमितता
Irregulars	इर्यां वर्तने
Irregularity	विवर्ति, अवस्थाता
Irrelevant	अव्याप्तिशील अव्याप्तिशील
Inconsistent	असंज्ञ
Incoherent	व्यवह
Vague	व्याख्य
Interspective of	विचार विद् विचा
Intercapable	अवृत्तरसायी
Intercapable	वृत्त
Intigration	विचारी
Intuit	उत्तेजक
Intuit	हीन
Island	विचित्रता
Isolated	पुरुषकर्ता
Isolation	पुरुषकर्ता
Isolationism	पुरुषकर्ता विद्वान् विद्वान्
Issue	विचारात्मक, वाचात्, विवेद
Issue of fact	वाच वाच

Invoice, inward	आगत बोकर, आवक बोकर
Invoice, outward	निर्गमी आयक बोकर
Involuntary	अनेकिह
Involve	पूसावा
Involved	दस्त, अंशिहत, अंतर्देश
Inward	आयक
Ipsa factio	इषाः हो, तरप कार्य हो, पदारप्त
Ipsa iure	विधिः
Irrational	अविषेकी, अमुक
Preposterous	अनर्गत
Absurd	विसंगत
Irrecoverable	न याप्त होने वाल
Irrecoverable loss	असार्व लानि
Irrefutable	अगच्छ, अगच्छनोप
Indisputable	प्रविचार
Irregular	अनियमित
Irregularity	अनियमिता
Irregularly financial	वितीय अनियमिता
Irregulars	वर्षी वस्टने
Irregularity	विमला, भगवद्गा
Irrelevant	अग्राहित अवागाहित
Inconvenient	असुन्दर
Incoherent	असंजड
Vague	विस्तार विव. विवा
Irrespective of	अनुग्रहात्मी
Irreproachable	अस्त्र
Irreversible	विश्वासी
Irruption	उत्तेज
Irrupt	दीर
Island	विस्तारित
Isolated	प्रददान
Isolation	अन्तर्देश बोकर
Isolate with	विचारात्, वाचार, विव
Issue	प्रद दह
Issue of fact	

Issue of law	विधि-प्रश्न
Issue of price	निर्गम मूलग, निकासी कीमत
Issue register	निर्गम पंजी
Issued	निर्गमत
Item	मद
Itinerary	यात्रा कार्य-क्रम; मार्ग-निर्देशिका

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

I am desired to say	मुझे यह कहना है
I am directed to say	मुझे यह निवेदन करना निर्देश हुआ है
I beg to report	मैं सविनय प्रतिवेदन करता हूँ
I have satisfied myself that	मैं सन्तुष्ट हूँ कि
If satisfied after due enquiry	यदि विविधत् जौच से सन्तुष्ट हो जाय
If the state of work permits	कार्यवस्था को देखते हुए यदि उचित हो
Immediate despatch	तुरन्त प्रेषण
Immediate notice	तत्काल सूचना
Immediate officer	उपरि अधिकारी
In accordance with	के अनुसार
In accordance with the provision in that behalf continued in	में अन्तर्विष्ट तद्विषयक उपबन्ध के अनुसार
Inadvertently overlooked	भूल से छूट गया, अनवधान से छूट गया
In all existing vacancy	वर्तमान रिक्त स्थान में
In any case	किसी भी व्यवस्था में
In anticipation of orders	आदेशों की प्रत्याशा में
In as much as	इस कारण से कि, चूंकि
In broad outline	स्थूल रूप से, मोटे तौर पर
In case of appears	यदि यह प्रतीत हो
In case of doubt	संशयात्मक दशा में
In case of urgency	अविलम्ब स्थिति में
In certain cases	कठिपय अवस्थाओं में, कुछ मामलों में

In the circumstances stated	उल्लिखित परिस्थितियों में
In the course of business	काम के दौरान
In the discharge of official duties	ग्राम्यकीय कर्तव्यों के पातन में
In the event of	के होने पर
In the exercise of powers	शक्तियों के प्रयोग में, अधिकारों का प्रयोग करके
In the following manner	निम्न प्रकार से
In the form prescribed by	द्वारा विहित प्रपत्र में/पर
In the light of	को ध्यान में रखते हुए, के आधार पर
In the manner provided	उपबधित रीति से
In the public interest	लोक/सावंजनिक हित में
In the normal way	सामान्य प्रकार से
In times of stress	कष्ट काल में
In view of the changed policy	परिवर्तित नीति को दृष्टि में रखते हुए
In witness whereof	जिसके साक्ष में
Irrelevant to the issue	विषयसम्बन्धीय
Irrespective of their nature and contents	उनका स्वरूप तथा विषय कुछ भी क्यों न हो
Is frequently the case	ऐसा बहुधा हुआ करता है
Is in order	ठीक है, व्यवस्थित रूप में
Is not reasonably practicable	युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, यथार्थ रूप से सम्भव नहीं है
Issue as modified	यथापरिष्कृत जारी कीजिए
Issue, material	महत्वपूर्ण प्रश्न, सारवत् वाद-पद
Issued on	को निर्गत
It has since been decided	तब से यह विनिश्चित (तय) किया गया है
It is conceded	यह मान लिया गया है
It is hereby agreed	एतद् द्वारा यह सम्भव है
It is expedient	यह इष्टकर है
It is noticed	देखा गया है कि
It shall be lawful	यह वैध होगा, यह विधिसम्मत होगा
It will be appreciated of	यही कृपा होयी यदि, बढ़ा उपकार होगा यदि

J

Jail	कारागृह, जेल, कारागार, बन्दीगृह
Jailor	कारापाल, जेलर
Janitor	द्वारपाल, प्रतिहार
gealousy	ईर्ष्या, डाह
Jeopardy	विपद्, संकट, जोखिम
gest	मजाक, हँसी
Jettison	फेंक देना
Jetty	घटका, घाट, जेटी, अवतरणी
Jetty chalan	घाट-चालान
Jitters	हेरानी, घबराहट
Job	कार्य, काम, नौकरी, कुत्यक
Job complementary	पूरक काम
Jobbery	स्वार्थचिरण, अनाचार
Job full time	पूर्णकालिक काम
Job part time	अंशकालिक काम
Jobbery	स्वार्थचार क्षुद्र कर्म
Jcb costing	लागत निधरण
Job factor	कार्य-उपादान
Job specification	कार्य-विशिष्ट
Job work	उच्चरती काम, ठेके का काम
Join	शामिल होना; जोड़; कार्य महण करना
Joining date	कार्य-ग्रहण तारीख दिनांक
Joining report	कार्य-ग्रहण रिपोर्ट
Joining time	कार्य-ग्रहण अवधि काल
Joint	जोड़; संयुक्त
undivided	अविभक्त
Joint account	संयुक्त खेत्र
Joint family	संयुक्त परिवार

Joint fixed	स्थिर जोड़
Joint holding	संयुक्त जोड़
Joint liability	संयुक्त दायित्व
Joint secretary	संयुक्त सचिव
Jointly	संयुक्त रूप से
Jointly and severally	संयुक्त और पृथक रूप से
Joint operation	संयुक्त संक्रिया
Joint representation	संयुक्त प्रतिवेदन
Joint returns	संयुक्त आय विवरण
Joint select committee	संयुक्त प्रवर समिति
Joint session	संयुक्त सत्र
Joint sitting	संयुक्त बैठक
Joint support	संयुक्त समर्थन
Joint venture	सह-उद्यम
Jolly	प्रफुल्ल, प्रसन्न, तवियतदार
Jolt	हचका, झटका, धक्का
Journal	पत्रिका, दैनिकी
Journalism	पत्रकारिता
Journalist	पत्रकार
Journey	यात्रा
Journey, break of	यात्रा-विश्राम
Journey, return	घापसी यात्रा
Jubilee	जयन्ती
Jubilee diamond	हीरक जयन्ती
Jubilee golden	स्वर्ण जयन्ती
Jubilee silver	रजत जयन्ती
Judge	न्यायाधीश, जज
Adjudicator	अभिनिर्णयिक, अभिन्यायक
Arbitrator	पंच, विवाचक
Mediator	मध्यस्थ
Judge, additional	अतिरिक्त न्यायाधीश
Judge, civil	दीवानी न्यायाधीश
Judge, district	जिला न्यायाधीश
Judge, session	सेशन सत्र न्यायाधीश
Judging distance	दूरी आंकना

Judgement	निर्णय
Judgement creditor	निर्णीत उत्तमण्ड, निर्णीत क्रूण-दाता
Judgement debtor	निर्णीत अधमण्ड, निर्णीत क्रूणो
Judgement in personam	व्यक्तिलक्षी निर्णय
Judgement in rem	सोकलक्षी निर्णय
Judgement of fact	तथ्य-निर्णय
Judgement of value	मूल्य-निर्णय
Judgeship	न्यायाधीश पद
Judicature	न्यायालय
Judicial	न्यायिक, अदालती
Lawful	विधिसम्मत
Legal	वैध
Judicial commissioner	न्यायिक आयुक्त
Judicial decision	अदालती फैसला, न्यायिक निर्णय
Judicial enquiry	अदालती जाँच, न्यायिक जाँच
Judicial lock up	अदालती हृवालात, न्यायिक हृवालात
Judicial, non	न्यायिकेतर
Judicial notice	अदालती नोटिस
Judicial officer	न्यायाधिकारी
Judicial outlook	न्यायिक दृष्टिकोण
Judicial power	न्यायिक अधिकार
Judicial proceedings	अदालती कार्यवाही
Judicial process	न्यायिक प्रक्रिया
Judicial pronouncement	न्याय-घोषणा
Judicial report	न्यायांग, न्यायपालिका
Judiciary	कार्यांग, कार्यपालिका
Executive	विवेकसंगत, विवेकपूर्ण
Judicious	शब्दजात
Jugglery of words	कनिष्ठ, अवर
Junior	कनिष्ठ
Junior associate	कनिष्ठ सहयुक्त
Junior basic school	अवर आधारिक विद्यालय
Junior officer	कनिष्ठ अधिकारी

Juniority	वयरता, कनिष्ठता
Junior time scale	अवर समय-मान
Jurisdiction	धेत्राधिकार, अधिकार-धेत्र, अधिक्षेत्र
Jurisdictional ancillary	गोण धेत्राधिकार
Jurisdiction appellate	अपील-धेत्राधिकार
Jurisdiction civil	दीवानी धेत्राधिकार
Jurisdiction criminal	फोजदारी दण्ड धेत्राधिकार
Jurisdiction exclusive	अनन्य धेत्राधिकार
Jurisdiction limited	सीमित धेत्राधिकार
Jurisdiction territorial	प्रादेशिक धेत्राधिकार
Jurisdictional limit	धेत्राधिकार सीमा
Jurisprudence	न्यायशास्त्र, विधिशास्त्र
Jurisprudence medical	चिकित्सीय विधिशास्त्र
Jurist	विधिवेता
Juror	जूरी सदस्य
Just	न्याय, यथोचित
Right	उचित, युक्त
Just cause	विधिसंगत आधार
Just cause	न्यायोचित कारण
Justice	न्याय; न्यायमूर्ति, न्यायाधिपति
Justice chief	मुळ्य न्यायाधिपति
Justifiable	न्यायोचित, तर्कसंगत, समर्थनीय
Justification	ओचित्य, तर्क समति
Just wages	उचित न्याय मजदूरी
Juvenile	अल्प वयस्क, किशोर, बाल
Juvenile convict	किशोर अपराधी, बाल अपराध
Juvenile delinquency	किशोर अपचार, बाल अपचार
Juvenile offender	किशोर अपराधी, बाल अपराधा
Juxtaposition	आसत्ति, सान्निध्य, सन्निधान

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Joint duty, to	कार्यभार ग्रहण करना
Joining time	कार्यभार ग्रहणावधि
Jointly and severally	संयुक्ततः तथा पृथक्, मिलकर तथा अकेले
Judicial reference	न्यायिक निर्देश
Justification for the proposal	इस प्रकार का ओचित्य

K

Kaleidoscope	बहुरूपदशी
Keep	रखना
Keep direction	ठीक दिशा में बढ़ना
Keep in abeyance	स्थगित रखा जाय
Keepsake	निशानी, स्मृति चिन्ह, यादगार
Keep with file	पत्रावली के साथ रखिए
Keeper	अवेदक
Custodian	संरक्षक
Guardian	अभिरक्षक, रक्षी
Keeping with, in	के अनुरूप
Key board	कुजी-पटल
Key Industry	आधार उद्योग
Key word	संकेत शब्द
Kidnap	अपहरण करना
Abduct	अपनयन करना, भगा ले जाना
Kind	प्रकार; दयातु
Kind, in	वस्तु रूप में, जिन्सी
Kind, of leave	छुट्टी का प्रकार
King	सम्राट्, नूप
Governor	राज्यपाल
Ruler	शासक, नरेश
Kinship	वंशता
Knick-Knack	नुमाइशी चीज, दियाऊ या लिफाफिया गहना; मिठाई
Knock-out principle	निरसन-सिद्धांत
Knowingly	जानवृद्धकर
Knowingly and wilfully	जान-वृद्धकर और स्वेच्छापूर्वक
Knowledge	ज्ञान, जानकारी
Knowledge imperfect	अपूर्ण ज्ञान

Knowledge inference	अनुमिति-ज्ञान
Knowledge intuition	प्रातिम ज्ञान
Knowledge perception	प्रत्यक्ष ज्ञान
Knowledge working	काम चलाऊ व्यावहारिक ज्ञान
Keep abreast of the time	समय के साथ-साथ चलना
Keep in abeyance	आस्थगित रखना
Keep with file, to	प्रत्रावली में रखना
Know all men by these present	इस लेख द्वारा सब को विदित हो
Knowingly and willingly	जानवृत्तकर और स्वेच्छापूर्वक
Knowledge and belief to the best of—	जानकारी तथा विश्वास पूरी जानकारी तथा विश्वास के साथ

L

Label	सेवल, नाम-चिप्पी
Laboratory	प्रयोगशाला
Laboratory assistant	प्रयोगशाला सहायक
Laboratory attendant	प्रयोगशाला परिचर
Laboratory equipment	प्रयोगशाला उपस्थर
Laboratory technique	प्रयोगशाला प्रविधि, प्रयोग-प्रक्रिया
Labour	थ्रम; थ्रमिक, मजदूर; प्रसव वेदना
Labour casual	नैमित्तिक आकस्मिक मजदूर
Labour daily paid	दैनिक मजदूर
Labour-division of	थ्रम-विभाजन
Labour forced	वेगार
Labour manual	शारीरिक थ्रम
Labour mental	मानसिक थ्रम
Labour part time	अंशकालिक थ्रम
Labour relations	थ्रमिक संपर्क सम्बन्ध
Labour skilled	कुशल थ्रमिक, कारीगर
Labour unskilled	अकुशल थ्रमिक
Labour welfare	थ्रम-कल्याण
Labour whole time	पूर्णकालिक थ्रमिक
Lacuna	व्यवधान, न्यूनता, छिद्र
Lady	महिला
Lady supervisor	पर्यवेक्षिका
Lag	पीछे रह जाना, पिछड़ना
Land	भूमि, जमीन
Land alluvial	काढ़ारी भूमि
Land arable	कृषि योग्य भूमि
Land barren	बंजर भूमि
Land elevated	उत्तियत भूमि
Land erosion	भू-क्षरण

Land fallow	परती भूमि
Land forces	स्थल सेना
Land forest	बन-भूमि
Land improvement	भूमि सुधार
Land reclaimed	उद्धारित भूमि, पुनर्वासन भूमि
Land route	स्थल मार्ग
Land tenure	पट्टेदारी
Laud unproductive	अनुपजाऊ भूमि
Landing area	अवतरण क्षेत्र
Landless labourer	भूमिहीन मजदूर
Land lord	भू-स्वामी, जमीदारी
Land lord absentee	दूरवासी जमीदार
Land lordism	जमीदार
Land mark	चिन्ह, सीमाचिन्ह; उल्लेखनीय घटना
Landscape	भू-दृश्य
Land slide	भूमि खिसकन
Language	भाषा
Lapse	व्यपगत होना, लय
Lapse, doctrine of	लय-नीति
Lapse of time	समयावसान, समय बीतना
Lapsed	व्यपगत
Larceny	स्तेय, चोर्य, चोरी
Large scale	बड़ा प्रमाणा
Last	अन्तिम
Lasting	टिकाऊ
Durable	चिरस्थायी
Last out one	उपान्तिम
Last pay certificate	अन्तिम वेतन-प्रमाण
Late	विलम्ब, विलम्बित, देर; भूतपूर्व, स्वर्णीय
Late attendance	विलम्ब उपस्थिति, देर से आना
Late fee	विलम्ब शुल्क
Latent	अन्तहित, अप्रकट, गुप्त
Latent defect	अप्रकट दोष
Latent heat	गुप्त ऊर्ध्वा
Latest	आधुनिकतम, नवीनतम; अतिम

Latest, at the—	विलम्बतम्
Latest edition	नवोनतम संस्करण
Latitude	अक्षाश; डिलाई
Latitude to give	डिलाई देना
Laughing stock	उपहास-पात्र
Lavatory	शौचालय
Law	विधि, कानून
Statute	परिनियम
Regulation	विनियम
Edict	राजाकारा
Law administrative	प्रशासनिक विधि
Law and order	विधि और व्यवस्था, शांति और व्यवस्था
Law civil	दीवानी कानून, व्यवहार विधि
Law common	आम कानून, लोक विधि
Law constitutional	संविधानिक विधि, संविधान-विधि
Law criminal	फौजदारी कानून, दण्ड विधि
Law in force	प्रवृत्त विधि
Law journal	विधि-पत्रिका
Law national	राष्ट्रीय विधि
Law natural	प्राकृत कानून
Law of land	देश का कानून, देशगत विधि
Law point	विधिक प्रश्न
Law statutory	संविधि कानून
Law suit	विधिक वाद, मुकदमा
Lawful	विधिक, वैध, कानूनी, विधिसम्मत
Valid	वैध, विधिमान्य
Lawful authority	वैध प्राधिकारी, विधिसंगत प्राधिकारी
Lawful entry	वैध प्रवेश, जायज प्रवेश
Lawful excuse	वैध कारण
Lawful manner	वैध रीति
Lawful money	वैध मुद्रा
Lawless	विधिहीन, विधि विरुद्ध
Lawlessness	अव्यवस्था
Law making	विधिकारी
Lawyer	वकील

Lay down	निर्धारित करना
Lay out	अभिभास
Lead	नेतृत्व करना, आगे बढ़ना
Leader	नेता; अग्रलेख
Leader of the House	सदन-नेता
Leader of Opposition	विपक्ष-नेता
Leadership	नेतृत्व
Leading	अग्र
Leading article	अग्रलेख
Leading case	निर्दर्शकवाद
Leading counsel	प्रमुख कोसल/कर्तीत
Leading question	सकेतक प्रश्न
Leakage	समय से पहले प्रकट होना (समाचार)
Leap year	अधिवर्ष
Learning by observation	प्रेक्षण अधिगम
Learning capacity	सीखने की क्षमता
Lease	पट्टा
Lease deed	पट्टानामा, पट्टा
Lease fixed	स्थायी पट्टा, इस्तिमरारी पट्टा
Lease hold	पट्टे पर, पट्टेदारी
Lease mortgage	बन्धक पट्टा
Lease permanent	पक्का पट्टा
Lease sub	शिकमी पट्टा
Least action	न्यूनतम कार्यवाही
Leave	छुट्टी, अवकाश
Leave account	छुट्टी का हिसाब, अवकाश लेखा
Leave average	औसत छुट्टी
Leave casual	आकस्मिक अवकाश
Leave earned	अर्जित अवकाश
Leave maternity	प्रसव-अवकाश
Leave medical	बीमारी की छुट्टी, चिकित्सा-अवकाश
Leave preparatory to requirement	निवृत्ति पूर्व अवकाश
Leave quarantine	संगरीध अवकाश
Leave salary	अवकाश येतन
Leave, study	अध्ययन-अवकाश

Leave vacancy	अवकाश रिक्ति
Lecture	व्याख्या, भाषण
Lecturer	प्राध्योपक
Ledger	खाता
Ledger accounts	खाता लेखा
Ledger balance	बकाया खाता
Ledger folio	खाता-पन्ना
Legacy	अनुरिक्षण
Legacy duty	रिक्षण कर
Legal	विधिक, कानूनी, वैध
Lawful	विधिसमत
Judicial	न्यायिक
Legal action	विधिक कार्यवाही
Legal adviser	विधि सलाहकार/परामर्शी
Legal affairs	विधि विषयक मामले
Legal character	विधि-रूप
Legal claim	विधिक दावा
Legal disability	विधिक निर्णयता
Legal duty	विधिक कर्तव्य
Legal force	विधि-बल
Legal heir	वैध उत्तराधिकारी, वैध दायाद
Legal justice	विधि-न्याय
Legal liability	विधि-दायित्व
Legal nature	कानूनी रूप
Legal position	कानूनी स्थिति
Legal presumption	विधिक पूर्व धारणा, विधिक पूर्व धारणा
Legal remedy	विधिक उपचार
Legal representative	विधिक प्रतिनिधि
Legal restraint	आसेध
Custody	संरक्षण; हिरासत, कारानिरोध
Legal tender	वैध मुद्रा, विधिमान्य अर्थपत्र
Legal validity	विधिक प्रामाणिकता
Legalisation	विधिकरण
Legalisation of documents	दस्तावेजों का विधिकरण
Legality	वैधता

Legally	विधितः
Legally binding	विधितः बाध्य
Legally obligatory	विधितः अनिवार्यं
Legally right	विधितः उचित
Legation	दूतावास
Legend	आच्यान
Legibility	सुपाठ्यता, सुवाच्यता
Legible	सुपाठ्य, सुवाच्य
Legislation	विधान, विधान-निर्माण
Legislative	विधायी, विधान
Legislative act	विधायी कार्यं
Legislative assembly	विधान सभा
Legislative business	विधायी कार्य
Legislative measure	विधायी कार्यशाही/उपाय
Legislative power	विधान-जक्षित
Legislator	विधायक
Legislature	विधानमण्डल
Legislature bicameral	द्विसदनी विधान मण्डल
Legitimate	वैध, औरस, तक्संगत
Legitimate child	वैध संतान, औरस सन्तान
Legitimate claim	वैध दावा
Legitimate son	औरस पुत्र
Legitimate share	उचित भाग
Leisure	अवकाश
Leniency	उदारता, नर्मी
Lenient	उदार
Lessee	पट्टाधारी, पट्टादार
Lesson	पाठ
Lesson illustrated	सचिन्त्र पाठ
Lesson model	बादर्शा पाठ
Lethal	घातक
Lethal weapon	घातक हथियार
Letter	पत्र
Letter box	पत्र-पेटी
Letter covering	व्याख्या पत्र

Letter head	शीर्षनामा, पत्र-शीर्षक
Letter of allotment	नियतन पत्र
Letter of attorney	अभिकरण पत्र
Letter of authority	प्राधिकार पत्र
Letter of credence	प्रत्यय-पत्र
Letter of credit	उधार-पत्र
Letter of indemnity	क्षतिपूति पत्र
Letter of introduction	परिचय पत्र
Letters, man of	विद्वान
Level ground	भूमि तल
Levelling	समतलन
Levy	उगाही, कर लगाना, कराधान, कर
Lexicographer	कोशकार
Lexicon	कोश
Liability	दायित्व, दायिता
Obligation	दायित्व
Responsibility	उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी
Liability, joint and several	सम्मिलित तथा पृथक-पृथक दायित्व
Liability limited	मीमित दायिता/दायित्व
Liable	भागी, दायी, देनदार, संभव
Lible for debt	ऋण का देनदार
Liable to punishment	दण्ड का भागी
Liable to occur	संभव
Liaison	सम्पर्क
Liaison officer	सम्पर्क अधिकारी
Libel	बपमान लेख, अपलेख
Libellous	अपलेखात्मक
Liberal	उदार
Liberation	मुक्ति, मोर्चन
Release	छोड़ना
Discharge	उन्मुक्त करना
Acquite	दोषमुक्त करना, विमुक्त करना
Liberty	स्वतन्त्रता, इवात्म्य
Liberty personal	वैयक्तिक स्वतन्त्रता
Librarian	पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष

Library	पुस्तकालय
Library, circulating	परिचल पुस्तकालय
Library, public	सार्वजनिक पुस्तकालय
Licence	लाइसेंस, अनुज्ञाप्ति
Licence fee	अनुज्ञाप्ति/लाइसेंस शुल्क
Licence holder	अनुज्ञाप्तिधारी, लाइसेंसदार
Licence renewal	अनुज्ञाप्ति नवीकरण, लाइसेंस नवीकरण
Licensed	अनुज्ञाप्त, लाइसेंस-प्राप्त
L'centious	असंयमी, स्वेरचारी
Licencee	अनुज्ञाप्तिधारी, लाइसेंसदार
Licensing officer	लाइसेंस अधिकारी
Lien	पुनर्ग्रहणाधिकार, लियन, धरणाधिकार
Lien suspended	निलंबित धरणाधिकार/लियन
Life	जीवन
Life convict	आजीवन कैदी
Life estate	आजीवन सम्पदा
Life line	रक्षा-रस्सी
Life member	आजीवन सदस्य
Life sentence	आजीवन दण्ड
Life tenure	आजीवन पट्टा
Light	हल्का; प्रकाश
Light house	दीपघर, प्रकाश-स्तम्भ, जलदीप
Light burden	हल्का भार
Light industries	हल्के उद्योग
Light music	सुगम संगीत
Light spot	प्रकाश-बिन्दु
Light wave	प्रकाश-तरंग
Like	पसन्द
Like forces	सदृश बल
Likelihood	समाविता
Likely	संभाव्य
Limit	सीमा
Limit age	वयस्सीमा
Limit load	भार-सीमा
Limitation	सीमावंध, अवधि, परिसीमा

Limitation of liability	दायिता-परिसीमन
Limitation of suit	वाद लाने की अवधि
Limited	सीमित; परिमित
Limited concern	सीमित-दायिता संस्था
Limited liability	सीमित दायित्व
Line	नीति, दिशा; रेखा; तार
Line, counter	समोच्चता-रेखा
Line of action	कार्य-दिशा
Line of approach	कार्य-दिशा; पहुँच रेखा
Line, overhead	उपरस्ता तार
Line, temporary	अस्थायी तार
Line, transmission	पारगमन/सचार लाइन
Line, winter	हिमांतर-रेखा
Lineal	परम्परागत
Lineal descendant	वंशागत सन्तति, परम्परागत संतति
Lineal heir	परम्परागत दायाद
Linguist	भाषाविद्
Linguistics	भाषाविज्ञान
Link	सम्पर्क, कड़ी; सम्बद्ध करना
Link imaginary	कल्पित कड़ी
Link Language	सम्पर्क भाषा
Linked file	सम्बद्ध पत्रावली
Lip	ओष्ठ
Lip service	जबानी-झूठी सेवा
Liquidated	परिसमाप्त
Liquidation	परिसमापन, शोधन-अपाकरण
Liquidation expenses of	परिसमापन घय
Liquidation voluntary	ऐचिछक परिसमापन
Liquidator	परिसमापक, अपाकर्ता
Liquidator official	सरकारी परिसमापक/अपकर्ता
Liquid state	द्रव्य-अवस्था
List	सूची, फेहरिस्त
Catalogue	सूचीपत्र
List, concurrent	समवर्ती सूची
List of business	कार्य-सूची

List of course	पाठ्यक्रम-सूची
List of price	मूल्य-सूची
List, state	राज्य-सूची
List, union	संघ-सूची
Literac.	साक्षरता
Literacy percentage	साक्षरता प्रतिशत
Literal	शब्दिक
Literal interpretation	शब्दिक निर्वचन
Literal sense	शब्दिक अर्थ
Literal translation	शब्दानुवाद
Literary	साहित्यिक
Literary and artistic work	साहित्यिक और कलात्मक कृति
Literate	साक्षर
Literature	साहित्य
Lingant	वादकारी/मुकदमा करने वाला
Litigation	वादकरण, मुकदमेवाजी
Litter	कूड़ा-करकट, पास-फूस
Live birth	जीवित जात, जिवा पैदा
still birth	मृत जात, मरा पैदा
Live bomb	भरा बम
Live effect	जीवन्त आभास
Live wire	गरम तार
Livery	वर्दी
Livestock	पशु-धन
Living, cost of	निवाह-व्यय
Living wage	निवाह-वेतन/मजदूरी
Livelihood	जीविका
Subsistence	उपजीविका, जीवन-निवाह
Maintenance	भरण-पोषण
Load	भार
Loading	लदान
Loading and unloading	लादना और उतारना
Loading facilities	लदाई-सुविधाएं
Loan	ऋण, उधार
Loan, dead	अनिविच्छित काल/स्थायी ऋण

Loans and advances	उद्धार तथा अग्रिम
Loan, public	सार्वजनिक ऋण
Loan, short term	अल्पकालीन ऋण
Lobby	कादा, गोष्ठी-कक्ष
Lobbying	गोष्ठी-कक्ष में प्रभावित करना
Local	स्थानीय
Local action	स्थानीय क्रिया
Local affair	स्थानीय मामला
Local allegiance	स्थानीय निष्ठा
Local announcement	स्थानीय सूचना
Local authorities	स्थानीय प्राधिकारी
Local body	स्थानीय निकाय
Local jurisdiction	स्थानीय क्षेत्राधिकार
Local Law	स्थानीय विधि
Local purchase	स्थानीय खरीद
Local remedy	स्थानीय उपचार
Local resources	स्थानीय साधन
Local service	स्थानीय सेवा
Localised	स्थानीकृत
Locality	पड़ोस
Location	स्थिति, मोका
Lockout	तालाबन्दी
Lockup	हवालात, हिरासत
Locus standi	वैध स्थिति/अधिकारिता
Locust	टिह्री
Lodge	वास करना; करना
Lodge a complaint	शिकायत करना
Lodging	आवास
Lodging charges	आवास-ब्यय
Logic	प्रतकं
Reasoning	तकनी-वितर्क
Long range policy	दीर्घकालिक नीति
Longer route	अधिक लम्बा मार्ग
Longevity	दीर्घायु
Loss	नुकसान, हानि

Loss in transit	मार्ग में हानि
Loss total	कुल हानि
Lost and found	खोया और पाया
Low	निम्न, नीचा
Low death rate	निम्न मृत्यु-दर
Lower	निचला, निम्न; अवर
upper	प्रवर
Lower agelimit	निम्नतम वयस्सीमा, निचली वयस्सीमा
Lower court	निचला न्यायालय
Lower division assistant	अवर श्रेणी सहायक
Lowest rate	निम्नतम दर
Low flying	नीची उड़ान
Loyalty	राजनिष्ठा, निष्ठा
Faithfulness	वफादारी, स्वामिभक्ति
Lucid	स्पष्ट
Lucrative	लाभकारी, धनप्रद, प्रलाभी
Lunacy	पागलपन, उन्माद
Lurking house trespass	प्रचलन गृह अनधिप्रवेश
Lust	कामुकता
Luxuriers	विलास-वस्तुएँ

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Land for agricultural purposes	कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि
Land needed for a public purpose	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अपेक्षित भूमि
Lapse of grant	अनुदान का व्यवगमन
Lapse of time	समयावसान
Last but one	उपान्तिम
Last residence	अंतिम निवास
Last mentioned	अन्तोवक्त, अन्तोल्लिखित
Latest date	विलम्बतम दिनांक
Law, for the time being in force	तत्समय प्रवृत्त विधि

Law abiding	विधिपालक, विधिचारी
Law, question of	विधि प्रश्न
Law and custom	विधि और रुद्धि
Law and order	विधि और व्यवस्था
Lawful authority	विधिसंगत प्राधिकारी
Lawful custody	विधिसंगत अभिरक्षा, वैध हिरासत
Lawful purpose	वैध प्रयोजन
Lawful oath	वैध सप्त
Lawfully constituted	विधिवत् गठित/निर्मित
Lawful nature	प्रकृति-नियम, नैसर्गिक नियम
Lay foundation stone	शिलान्यास करना, आधारशिला रखना
Lay out of the land	भूमि अभिन्यास
Leave on private affairs	व्यक्तिगत कार्यालय व्यवकाश, निजी काम
Leave preparatory to retirement	लिए छुट्टी
Legally recoverable	निवृत्ति-पूर्व अवकाश
Let the deptt. be consulted	विधितः प्रत्यादेय
Liabilities, lawfully incurred	विभाग से परामर्श करें
Lien on appointment	विधिवत् दायित्व, विधित. उठाये याएं
Likely to arise	नियुक्ति (पद) पर ग्रहणाधिकार/स्थानाधिकार
Like manner, in	उत्पन्न होने की सम्भावना
Line of action	समान रीति से, समान ढंग से
Line of communication	कार्य-रेखा, क्रिया-दिशा
Literal interpretation	संचार-पथ
Local usage or custom	गांडिक निर्वचन/व्याख्या
Long-life immunity	स्थानीय प्रथा अवशा रीति
Long-term vacancy	आजीवन प्रतीक्षा करना
Long-term changes	दीर्घविधि रिवित
Lost in transit	दीर्घकालीन परिवर्तन
Lucrative office	मार्ग में खो गया
	प्रलाभी/ताभप्रद पद

M

Magazine	पत्रिका; वार्षिकाना, शस्त्रागार
Journal	पत्र, पत्रिका
Organ	मुख्यपत्र
Review	समीक्षिका
Periodical	सामयिक पत्रिका
Magic	जाहू
Magic lantern	चित्रदर्शी
Magisterial	मजिस्ट्रेट सम्बन्धी, दण्डाधिकारी सम्बन्धी
Magisterial enquiry	मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच, दण्डाधिकारीय जाँच
Magistrate	मजिस्ट्रेट, दण्डाधिकारी
Magistrate honorary	अवैतनिक मजिस्ट्रेट
Magistrate stipendary	वैतनिक मजिस्ट्रेट
Magistrate subordinate	अधीनस्थ/अधीन मजिस्ट्रेट
Magnacarta	महा अधिकार पत्र
Magnanimity	महामनस्कता
Magnificence	गौरव श्रो, वंभव, शोभा
Magnified	आवधित
Magnitude	परिमाण; महत्ता
Maiden speech	प्रथम भाषण
Maiden voyage	प्रथम यात्रा
Mail-bag	डाक येता
Mail carrier	डाकवाहक
Mail escort	डाक रक्षी
Mail foreign	विदेश डाक
Mail inland	देशीय डाक
Mailing list	डाक-सूची
Main	मुख्य, प्रधान
Main gate	मुख्य द्वार
Main effect	मुख्य प्रभाव

Main feature	प्रमुख लक्षण, मुद्द्य विशेषता
Mainstay	मुद्द्य आधार
Maintain	वनाये रखना, अनुरक्षण करना; पोषण
Maintenance	अनुरक्षण, देखभाल; भरण-पोषण
Livelihood	जीविका
Subistence	उपजीविका, जीवन-निर्वाह
Maintenance allowance	भरण-भत्ता
Maintenance and repairs	अनुरक्षण और मरम्मत
Maintenance charge	अनुरक्षण प्रभार
Maintenance cost of	अनुरक्षण व्यय
Maintenance daily	दैनिक अनुरक्षण
Maintenance grant	अनुरक्षण अनुदान; भरण अनुदान
Maintenance of law and order	विधि और व्यवस्था बनाये रखना
Major	प्रधान, मुद्द्य, वृहत्; वयस्क
Major factor	मुद्द्य कारक, मुद्द्य उपादान
Major head	मुद्द्य शीर्ष, प्रधान शीर्षक
Major repair	बड़ी मरम्मत
Majority	बहुमत, अधिकांश; वयस्कता
Majority, absolute	पूर्ण बहुमत
Majority, age of	वयस्कता
Make belief	काल्पनिक सत्य, झूठ-मूठ
Maladjustment	कुसमज्जन
Maladministration	कुत्रशासन
Malafides	असद्भाव, बुरा इरादा, कदाशय
Bonafides	सद्भाव
Malefactor	दुष्कर्मी, अपराधी
Male line	पुरुष परम्परा
Male nurse	उपचारक
Malice	दुर्भविता, विद्वेष
Rancour	अतिद्वेष
Repugnance	विरोध, अश्चि, घृणा
Aversion	विरक्ति, प्रहृष्ट
Illwill	हृष्ट, कुपावना
Malice in fact	वास्तविक विद्वेष

Malice in law	विर्धि की दृष्टि से विद्वेष
Malicious	दुर्भावनापूर्ण, विद्वेषपूर्ण
Malicious act	विद्वेषपूर्ण कार्य
Malicious prosecution	विद्वेषमूलक अभियोजन
Maliciously	विद्वेषपूर्वक
Malignant	परिविद्वेषपूर्ण, प्रद्वेषी, विपाल
Malnutrition	कुपोषण
Malpractice	अनाचार
Management	प्रबन्ध, व्यवस्था
Management expenses	प्रबन्ध-व्यय
Manager	प्रबन्धक, व्यवस्थापक
Manager's return	प्रबन्धक का परिलेख
Managing committee	प्रबन्ध समिति
Managing partner	प्रबन्ध मामो
Mandate	प्रादेश, अधिकार
Mandated area	अधिदेशाधीन/प्रादेशाधीन धोन
Mandate system	अधिदेश/प्रादेश पद्धति
Mandatory	अधिदेशात्मक/प्रादेशात्मक, अनिवार्य, समादिष्ट
Mandatory scale and pay	समादिष्ट वेतन-मान
Man-day	श्रम-दिन, नफरी
Manger	नांद
Manhour	श्रम घण्टा
Manifest	स्पष्ट करना, व्यक्त करना
Manifestation	अभिव्यक्ति, प्रकाशन
Display	दर्शन, प्रसारण
Exhibition	प्रदर्शनी
Manifesto	घोषणा-पत्र, मैनिफेस्टो
Manipulation	क्रिया-कौशल, हेर-फेर, कुशल प्रयोग, जोड़-तोड़
Manliness	पौरुष
Manner	प्रकार, रीति, ढंग
Method	तरीका, परिपाठी
Procedure	प्रक्रिया
Way	उपाय

Manner and form	रीति और रूप
Mannerism	व्यवहार
Manners	शिष्टाचार, सम्माचार
Manning	आदमी लगाना, जन-प्रबंध
Manoeuvrability	युक्ति चालन, पैंतरा योग्यता
Manoeuvre	युक्ति चालन करना
Man of war	जगी जहाज, युद्धपोत
Man power	जनशक्ति, जनबल
Manual	नियम-संग्रह, सार-संग्रह; शारीरिक
Manual labour	मजदूर, शारीरिक थ्रम
Manual of government orders	शासनादेश संग्रह
Manual work	हाथ का काम
Manufacture	निर्माण करना, बनाना
Manufacturer	निर्माता, निर्माणकर्ता
Manufacturing process	निर्माण-प्रक्रिया
Manure	खाद
Manure chemical	रासायनिक खाद
Manuscript	पाण्डुलिपि
Manysided	बहुमुखी
Map	नक्शा, मानचित्र
Map physical	प्राकृतिक नक्शा
Map topographic	स्थलाकृति मानचित्र
Mapping	मानचित्रण
Map reading	नक्शा देखना
Map scale	नक्शे का पैमाना
Map study	मानचित्र अध्ययन
Marauder	लुटेरा
March	प्रयाण, मार्च
Expedition	चढ़ाई, यान्
Invasion	आक्रमण
March route of	प्रयाण-मार्ग
Marching song	प्रयाण गीत
Margin	हाशिया, उपांत, पाश्वं
Margin of profit.	लाभ की गुंजाइश, अन्तर
Marginal	पाश्वं, उपात

Marginal adjustment	जपातिक समायोजन
Marginal note	पास्वर्टि॒ट्पणी, जपात टिप्पणी
Marginally noted	जपात लिखित
Marine court	नौ-न्यायालय
Marital	वैवाहिक, दाम्पत्य
Marital rights	दाम्पत्य अधिकार
Marital status	वैवाहिक स्थिति
Maritime warfare	समुद्री युद्ध
Mark	चिह्न, निशान; अंक
Token	प्रतीक, संकेत
Symptom	लक्षण
Mark sheet	अक-पत्र
Market	मंडी, बाजार
Market commodity	पण्य वस्तु
Market, easy	मुलभ रूपमा बाजार
Market, firm	मजबूत बाजार
Market, open	खुला बाजार
Market price	बाजार मूल्य
Market rate	बाजार-दर
Market, retail	खुदरा बाजार
Market, speculative	सट्टा बाजार
Market, tone of the/trend	बाजार रुचि
Market, Wholesale	योक बाजार
Marketability	विक्रेयता, पण्यता
Marketable	पण्य, विक्रेय
Marketing	विपणन
Marketing process	बाजार प्रक्रिया
Marking	चिह्नांकन
Marking quality	थेणी अंकन
Markings	चिह्न, निशान
Marriage	विवाह
Wedlock	परिणय
Wedding	विवाहोत्सव
Marshalling of facts	तथ्यों को अ
Martial	प्र सम्बन्ध
	प्र विन्यास

Martial law	सेनिक विधि
Martial race	योद्धा जाति
Massive work	भारी काम
Mason	राज
Masonry	राजमीरी, चुनाई
Mass action	बड़े पैमाने पर कार्यवाही
Masses	जनसाधारण
Mass mentality	जन-मनोवृत्ति
Mass movement	जनान्दोलन
Mass production	बड़े पैमाने पर उत्पादन
Mass selection	समूह वरण
Mass suggestion	सामूहिक सुझाव
Master key	सर्व कुंजी
Master of mint	टकपाल
Matching	तुल्यपद, वरावर का
Matching grant	समतुल्य अनुदान
Material	माल, सामान, सामग्री; महत्वपूर्ण, सारवान
Material collection	सामग्री-संग्रह
Material damage	अनल्प क्षति
Material evidence	सारवत् साक्ष्य, महत्वपूर्ण साक्ष्य
Material facts	सार स्थ्य
Materially	सारतः:
Substantially	तत्त्वतः:
Essentially	अनिवार्यतः:
Material object	भौतिक पदार्थ
Material raw	कच्चा माल/सामान
Material statement	महत्वपूर्ण/सारवान विवरण
Materialise	भूत्तियान होना, कार्य में परिणत होना
Maternal	मातृ
Maternal instinct	मातृ प्रवृत्ति
Maternity	मातृ, प्रसूति
Maternity benefits	मातृत्वकालीन सुविधाएँ
Maternity centre	मातृ-केन्द्र
Maternity home	प्रसवशाला
Maternity leave	प्रसूति छुट्टी

Maternity welfare	मातृत्व कल्याण
Matter	मामला, विषय, वस्तु; पदार्थ
Matter organic	जीव पदार्थ
Matter properties of	द्रव्य के गुण-धर्म
Matter and style	विषय और शैली
Matter as a	वस्तुतः
Matter in dispute	विवादास्पद विषय, विवाद विषय
Matter in issue	वाद पद विषय
Matter of fact	तथ्य की वात
Matter of law	विधि विषय
Matter of procedure	क्रियाविधिक मामला, प्रक्रिया-विषय
Matter of regret	खेद का विषय
Mature	परिपक्व, पका हुआ
Mature age	प्रोडावस्था
Mature call	निष्पन्न काल
Mature soil	पक्की मिट्टी
Maturity	परिपक्वता, प्रोडता, अवधि पूर्ण होना
Maturity emotional	भावात्मक परिपक्वता
Maxim	आधार-सूत्र
Tenet	मत
Mandate	अधिदेश
Precept	प्रादेशिका
Maximum	अधिकतम
Maximum discharge	अधिकतम निस्सरण
Maximum force	अधिकतम बल
Maximum marks	पूर्णांक, अधिकतम अंक
Maximum price	अधिकतम मूल्य
Medium	माध्यम
Mean	औसत, माध्य
Mean age	औसत उम्र
Mean birth rate	माध्य जन्म-दर
Mean error	माध्य त्रुटि
Meaning	अर्थ
Meaning basic	मूल अर्थ
Meaning derived	व्युत्पन्न अर्थ

Meaning specific	दिनिपाठ अर्थ
Means	साधन, उपाय
Means of communication	संचार साधन
Means of escape	व्याप, भागने के रास्ते
Means of subsistence	निर्वाह साधन
Means test	जीविका-साधन जौय
Measure	उपाय, कार्यवाही, माप
Measure precautionary	प्रूबोगाय, एहतियाती कार्यवाही
Measure preventive	नियारक उपाय, रोक-याम के उपाय
Measurement	नाप, माप
Measurement book	माप पुस्तक, पंमाइज पुस्तक
Mechanical	यांत्रिक, यत्रवत्
Mechanical accuracy	यांत्रिक यथार्थता/शुद्धता
Mechanical action	भौतिकीय क्रिया
Mechanical aptitude	यांत्रिक अभिवृत्ति
Mechanical army	यंत्र सजिज्जत सेना
Mechanical breakdown	मशीनी घराबी
Mechanical defect	यांत्रिक दोष
Mechanical device	यांत्रिक युक्ति
Mechanical efficiency	यांत्रिक दक्षता
Medal	पदक
Media	माध्यम
Mediation	मध्यस्थता वीच-व्यवाच
Mediator	मध्यस्थ
Adjudicator	अभिनिर्णायिक, अभिन्यामक
Arbitrator	पंच विवाचक
Medical	चिकित्स्य, चिकित्सा-संवंधी
Medical aid	चिकित्सा सहायता
Medical arrangement	चिकित्सा प्रवध
Medical benefit	चिकित्सा-सुविधा
Medical case	चिकित्सा-सम्बन्धी मामला
Medical certificate	चिकित्सा प्रमाण-पत्र
Medical certificate of fitness	स्वस्थता/आरोग्यता प्रमाण-पत्र
Medical certificate of sickness	बीमारी/अस्वस्थता प्रमाण-पत्र
Medical examination	स्वास्थ्य परीक्षा

Medical jurisprudence	चिकित्सकीय विधिशास्त्र, शारीरिक विधिशास्त्र
Medical leave	चिकित्सा अवकाश
Medical profession	चिकित्सावृत्ति/पेशा
Medical relief	चिकित्सा सहायता
Medical report	चिकित्सा रिपोर्ट
Medical staff	चिकित्सा कर्मचारी वर्ग
Medicine	दवाई, औषधि
Medieval	मध्य युगीन
Meditation	मनन
Medium	माध्यम
Medium of instruction	शिक्षण माध्यम, शिक्षा माध्यम
Medium of publicity	प्रचार-माध्यम
Meeting	वैठक, अधिवेशन
Meeting point	मिलन बिन्दु
Melting point	द्रवांक
Member	सदस्य
Member, associate	सह-सदस्य
Member, corporated	सहयोजित सदस्य
Member, corresponding	सम्बन्धित सदस्य
Member, founder	संस्थापक सदस्य
Member, incharge	प्रभारी सदस्य, कार्यभारी सदस्य
Member, life	आजीवन सदस्य
Member of committee	समिति का सदस्य
Member of diplomatic corps	राजनयिक वर्ग का सदस्य
Member of assembly	विधान सभा का सदस्य
Member of parliament	संसद का सदस्य
Member secretary	सदस्य सचिव
Member states	सदस्य राज्य
Memo	ज्ञापिका, मेमो
Memo of examination	परीक्षण ज्ञापिका/मेमो
Memorandum	ज्ञापन, ज्ञापन-पत्र
Memorandum of appeal	अपील-ज्ञापन पत्र, अपील ज्ञापिका
Memorandum of association	संस्था ज्ञापिका
Memorandum of objections	आपत्ति ज्ञापिका

Memorandum articles of association	संस्था के अन्तर्नियम
Memorial	अभ्यावेदन; स्मारक
Memorialist	अभ्यावेदक
Memorise	कठस्थ करना
Memory	स्मृति, याद
Recollection	अनुवोध, अनुचितन
Remembrance	याद, संस्मृति
Memory sacred	पुण्य स्मृति
Mendicant	भिक्षु
Menial	परिसेवक
Mensrea	दुराशय
Mensuration	धेव्रमिति
Mental	मानसिक
Mental abnormality	मानसिक विकार
Mental activity	मानसिक क्रियाशीलता
Mental alertness	मानसिक चुस्ती
Mental condition	मानसिक स्थिति
Mental conflict	मानसिक संघर्ष
Mental deficiency	मानसिक दुर्बलता, अल्पबुद्धिता, मनोवैकल्य
Mental deterioration	मानसिक ह्रास
Mental discipline	मानसिक संयम, मानसिक अनुशासन
Mental disease	मानसिक रोग
Mental hospital	मानसिक चिकित्सालय
Mental state	मानसिक अवस्था
Mental weakness	मनोदीवैकल्य
Mentality	मनोवृत्ति
Mentioned	वर्णित, उल्लिखित
Menu	आहारिका
Menu of the day	आज की आहारिका, आज की व्यंजन-सूची
Mercantile	वाणिज्य-सम्बन्धी, वाणिज्य
Mercantile law	वाणिज्य विधि
Merchandise	पर्याय, तिजारती माल, व्यापारिक माल
Merchant	व्यापारी, सौदागर
Merchant export	नियर्ति-व्यापारी

Merchant import	आयात-व्यापारी
Merchant navy	व्यापारी बेटा
Merger	विलयन, विलय
Absorption	सविलयन
Amalgamation	समेकन
Merit	गुण-दोष, योग्यता
Worth	अहं
Merit list	योग्यता-सूची
Merit scholarship	योग्यता छावन्यक्ति
Merits	गुणावतुण, गुण-दोष
Merits of the case	मामले के गुणावतुण/गुण-दोष
Meritorious service	सराहनीय सेवा
Mess	भोजनालय
Mess things in a	गडबड़; अव्यवस्थापूर्ण स्थिति में
Message	संदेश
Message sos	संकट संदेश
Message, verbal	मौखिक संदेश
Messenger	संदेशवाहक, दूत
Mental	धारु
Mental precious	वहूमूल्य/कीमती धारु
Metalled road	पक्की सड़क
Metor	उल्का
Metoric dust	उल्का-धूति
Metoric rise	उल्का-उन्नति, अतिशीघ्र बढ़ी उन्नति
Method	विधि, रीति, प्रणाली
Method comparative	तुलनात्मक प्रणाली
Method exploratory	अन्वेषण प्रणाली
Method of correspondence	पत्रव्यवहार-विधि
Method of teaching	अध्यापन-विधि
Method study	कार्य-विधि अध्ययन
Methodical	विधिवत्, तरीकेवाला, सलोके का
Meticulous	सूक्ष्म व्योरे सहित
Metropolis	राजधानी, महानगरी
Metropolitan area	राजधानी-शेत्र, नगर-क्षेत्र
Midday	मध्याह्न

Middle	मध्य
Middle age	मध्य युग
Middle class	मध्यम वर्ग
Middle distance	मध्य दूरी
Middle finger	मध्यमा
Meddle man	मध्यस्थ, दलाल
Midstream	मध्यधार
Midwife	धात्री, दाई
Midwifery	धात्री विद्या, प्रसूति विद्या
Migrant	प्रवासी, प्रवाजक
Migration	प्रवाजन, प्रवास, देशातरण
Migration of labour	थ्रमिक प्रवसन
Migratory	प्रवासी, प्रवाजी
Migratory character	प्रवासिता
Migratory phase	प्रवास अवधि
Migratory worker	प्रवासी थ्रमिक
Milage	मील-दूरी
Milage allowance	मील-भत्ता
Milage restriction	मील-पावन्दी
Milch cattle	दुधारू ढोर
Milch cow	दुधारू गाय
Mild	मन्द
Mild climate	मृदुल जलवायु
Militarisation	सैन्यीकरण
Military	सेना, सेना सम्बन्धी
Military adviser	सैनिक सलाहकार
Military alliance	सैन्य-मंत्री
Military area	सैनिक क्षेत्र
Military attache	सैनिक सहचारी
Military authority	सैनिक सत्ता/प्राधिकारी
Military campaign	सैनिक अभियान
Military decoration	सैनिक विभूषण
Military duty	सैनिक ड्यूटी
Military establishment	सैनिक अधिष्ठान
Military exigency	सैनिक आवश्यकता

Military force	सैनिक बल, संचय बल
Military installation	सैनिक संस्थापन
Military law	संचय विधि
Military occupation	सैनिक कब्जा
Military operation	सैनिक कार्यवाही
Military service	सैनिक/संचय सेवा
Military tactics	समर-तत्त्व; संचय-युक्ति
Militia	मिलिशिया
Milk	दूध
Milk adulterated	मिलावटी दूध
Milk condensed	संघनित दूध
Milk separated	सप्रेटा, श्रीम निरुक्ता दूध
Milk skimmed	श्रीम उत्तरा दूध
Milk whole	पूर्ण दूध
Million	दस लाख
Mimicry	अनुकूलता
Mine	वान; मुरंग
Mine detection	सुरंग-खोज
Mine field	सुरंग-खेत्र
Mineral	खनिज
Metal	धातु
Ore	कच्ची धातु
Mineral constituents	खनिज अवयव
Mineral elements	खनिज तत्व
Mineral kingdom	खनिज जगत
Mineral oil	खनिज तेल
Mineral product	खनिज उत्पाद
Mineral resources	खनिज साधन; खनिज सम्पत्ति
Miniature	छोटा, लघुरूप
Miniature form	लघुरूप
Minimum	न्यूनतम
Maximum	अधिकतम
Mining	खनिकर्म; सुरंग लगाना
Mining centre	खनन-केन्द्र
Mining industry	खनन-उद्योग

Mining settlement	खनन-बस्ती
Minister	मन्त्री
Minister, chief	मुख्य मन्त्री
Minister, deputy	उप मन्त्री
Minister envoy	मन्त्री-दूत
Minister of state	राज्य मन्त्री
Minister, prime	प्रधान मन्त्री
Ministerial	लिपिक वर्गीय, लिपिकीय, मन्त्रीय
Ministerial establishment	लिपिकीय कर्मचारी वर्ग/अधिष्ठान
Ministerial interference	मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप
Ministerial service	लिपिक वर्गीय सेवा
Ministerial staff	लिपिकीय कर्मचारी वर्ग, कार्यालय कर्मचारी वर्ग
Ministry	मन्त्रालय; मन्त्रिमण्डल
Ministry, coalition	सम्मिलित मन्त्रिमण्डल
Ministry of commerce and industry	वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय
Ministry of communication	संचरण मन्त्रालय
Ministry of defence	रक्षा मन्त्रालय
Ministry of education	शिक्षा मन्त्रालय
Ministry of external affairs	परराष्ट्र/विदेश मन्त्रालय
Ministry of finance	वित्त मन्त्रालय
Ministry of food and agriculture	खाद्य और कृषि मन्त्रालय
Ministry of community development and co-operation	सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय
Ministry of home affairs	गृह मन्त्रालय
Ministry of Industrial development and company affairs	औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मन्त्रालय
Ministry of Information and Broadcasting	सूचना और प्रसार/प्रसारण मन्त्रालय
Ministry of Irrigation and power	सिंचाई और बिजली मन्त्रालय
Ministry of Labour and Employment	थर्म और रोजगार मन्त्रालय
Ministry of law	विधि मन्त्रालय
Ministry of Parliamentary Affairs	संसदीय कार्य मन्त्रालय

Ministry of Petroleum and Chemicals	पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय
Ministry of Railways	रेल मन्त्रालय
Ministry of Rehabilitation	पुनर्वास मन्त्रालय
Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs	वैज्ञानिक अनुसंधान और सांकेतिक कार्य मन्त्रालय
Ministry of Tourism and Civil aviation	पर्यटन और सिविल एर्सिनिक विमान मन्त्रालय
Ministry of Transport and Shipping	परिवहन और जहाजरानी मन्त्रालय
Ministry of Works Housing and Supply	निर्माण, निवास/आवास और पूर्ति मन्त्रालय
Minor	अवयस्क, छोटा, लघु, गोण
Minor element	अप्रधान तत्व
Minor factor	गोण कारक
Minor head	गोण शीर्षक, लघु शीर्ष
Minor offender	अवयस्क अपराधी
Minor schemes	छोटी योजनाएँ
Minor works	छोटे निर्माण-कार्य
Minor major	वयस्क, प्रधान
Minority	अवयस्कता, अल्पसंख्यक वर्ग, अन्यसभ्य, अल्पमत
Minority clause	अल्पसंख्यक खण्ड
Minority party	छोटा दल
Minority report	अल्पमत रिपोर्ट
Minstrel	चारण
Mint .	टकसाल
Minute	सूझ; टिप्पणी
Minutes	कार्यवृत्त, विवरण, वृत्त
Minutes book	कार्यवृत्त-पुस्तक
Minutes of the Minister	मन्त्री का वृत्त
Misadventure	अपशात
Misapplication	दुष्प्रयोग; दुष्प्रयोग
Misapprehension	मिथ्या बोध
Misappropriation	दुविनियोग, अवगहन

Embezzlement	गवन, व्यपहरण
Misbehaviour	दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार
Miscarriage	गम्भीरता
Miscarriage of orders	आदेशभग, आदेश अपवहन
Miscarriage of justice	न्याय अपवहन
Miscellaneous	प्रकोण, विविध
Miscellaneous stores	विविध संडार
Mischief	शरारत
Misconception	मिथ्या धारणा, भ्रात धारणा
Misconduct	कदाचार, दुराचार
Misconduct gross	घोर दुराचरण
Misconstrue	अशुद्ध अर्थ लगाना
Misdemeanour	अवराध
Misdirected	अपनिदेशित, अपनिदिष्ट
Misdirected advice	अपनिदेशित सलाह
Misdirected articles	अपनिदिष्ट वस्तुएँ, गलत पते पर भेजो गयी वस्तुएँ
Misdirection	अपनिदेशन
Mise-en-demure	दुराप्रह
Miserliness	कृपणता
Misery	दुख, क्लेश
Missfire	फायर न होना; गलत हो जाना
Misfit	अनुपयुक्त
Misfortune	दुर्भाग्य
Mishap	विपत्ति
Misinterpretation	अपनिवेचन, गलत अर्थ निरूपण
Mislead	पथन्त्रिक करना, भुलावा देना
Mismanagement	कुप्रबन्ध
Misnomer	मिथ्यानाम, अपनाम, अन्यथनाम
Misplaced	अपावृ निहित
Misplaced trust	अपनिहित विश्वास/न्यास
Misrepresentation	अन्यथा कथन, मिथ्या व्यपदेशन
Missile	मिसाइल, अस्त्र
Missing	लापता
Missing link	लुप्त कड़ी

Mission	मिशन, दूत मण्डल; जीवन लक्ष्य
Mission good will	सद्भावना मिशन
Missionary	धर्म-प्रचारक
Missionary zeal	दृढ़ उत्साह
Mistake	गलती, भूल; ध्रम
Mistake of fact	तथ्य की भूल
Mistake of law	विधि सम्बन्धी भूल
Mistaken	गलत
Mistaken belief	गलत/ध्रमात्मक विश्वास
Misuse	दुरुपयोग; दुरुपयोग करना
Mitigate	हलका करना, कम करना
Mitigating circumstances	हलका करने वाली परिस्थितियाँ
Mixed	मिथित
Mixed feelings	मिथित भावना
Mixed race	मिथ जाति
Mixture	मिथण
Mob	उत्तेजित भीड़; जन-समूह
Mobile	चल, चलता-फिरता
Mobile canteen	चलती-फिरती कैटीन
Mobile dispensary	चल चिकित्सालय
Mobile observation post	चलती-फिरती प्रेक्षण चौकी
Mobile worker	गतिशील कर्मी/मजदूर
Mobilisation	लामबन्दी
Mobilisation of manpower	ध्रम-शक्ति लामबन्दी
Mobility	गतिशीलता
Mockery	उभहास
Mode	दंग, रीति, प्रकार
Mode of address	सम्बोधन की रीति
Mode of despatch	प्रेषण प्रकार
Mode of farming	खेती का दंग
Mode of occurrence	घटना-विधि
Model	प्रतिमान, आदर्श
Model forms	आदर्श फार्म
Model home	आदर्श गृह
Model school	आदर्श विद्यालय

Modelling	प्रतिलिपण
Moderate	साधारण, स्थिर
Moderate charges	साधारण व्यवस्था
Moderate person	संयत व्यक्ति
Moderator	परिमाजंक
Moderator of question paper	प्रश्न-पत्र परिमाजंक
Modernization	आधुनिकीकरण
Modern	आधुनिक
Modern warfare	आधुनिक युद्ध
Modesty	शालीनता, शील, लज्जा
Modification	अशोधन
Modification in partial-of Amendment	का आंशिक आशोधन करते हुए संशोधन
Modified	अशोधित
Amended	संशोधित
Modus operandi	कार्य-प्रणाली
Modus ponens	विद्यायक निधि
Modus tollens	निषेधक विधि
Modus vivendi	अस्थायी व्यवस्था
Momentum	वेग, तेजी, गतिमात्रा
Momentum of the attack	आक्रमण का जोर
Monarch	राजा
Monarch deposed	सिंहासन-च्युत राजा
Monarchy	राजतंत्र
Monarchy absolute	पूर्णराजतंत्र
Monarchy benevolent	उपकारी राजतंत्र
Monastery	मठ, विहार
Monastic life	भिक्षु जीवन
Monetary	मौद्रिक, धन सम्बन्धी
Economic	आर्थिक
Financial	वित्तीय
Monetary allotment	प्रदिष्ट धनराशि
Monetary area	मुद्रा क्षेत्र
Monetary grant	आर्थिक अनुदान
Monetary limit	आर्थिक सीमा

Monetary standard	मुद्रामाने
Monetary system	मुद्रा-प्रणाली
Money	मुद्रा, धन, द्रव्य, रूपया
Money, active	सक्रिय द्रव्य
Money allotment	धन प्रदिव्वि
Money, bad	निकृष्ट मुद्रा
Money, inactive	निपक्षिय द्रव्य
Money, international	अंतर्राष्ट्रीय द्रव्य
Money market	मुद्रा बाजार
Money, tight	दुर्लभ रूपया
Monitor	व्यवेक्षक, मानीटर; कक्षा नायक
Monitoring station	अनुशृण्ण-स्टेशन
Monogamous	एकस्त्रीक, एक विवाह
Poligamy	वहुविवाह, बहुस्त्रीक
Monopoly	एकाधिकार
Monopoly absolute	निरपेक्ष/पूर्ण एकाधिकार
Monopoly state	राजकीय एकाधिकार
Monotheism	एकेश्वरवाद
Monotony	उकताहट; ऊब
Monthly	मासिक
Monthly return	मासिक विवरणी
Monthly statement	मासिक विवरण
Monument	स्मारक
Moorings	आधार; लगार
Moral	नीतिक
Moral attitude	नीतिक अभिवृत्ति/चर्चा
Moral bias	नीतिक पूर्वावधि
Moral code	आचार संहिता
Moral concept	नीतिक सकल्पना/प्रस्तुत्य
Moral courage	नीतिक वल/साहस
Moral duty	नीतिक कर्तव्य
Moral exhortation	नीतिक उत्ताहन
Moral faith	निष्ठा
Moral obligation	...
Moral restraint	...

Moral training	नैतिक प्रशिक्षण
Moral turpitude	नैतिक पतन
Moral value	नैतिक मूल्य
Moral view point	नैतिक दृष्टिकोण
Moralist	मनोवैज्ञानिक
Moralist	नीतिज्ञ, सदाचारी
Morality	नैतिकता
Morals	सदाचार
Morally bound	नैतिक रूप से बद्ध
Morbidity	अस्वस्थता, रुग्णता
Morphological	आकारिकीय
Mortality	मृत्युदर
Mortality infant	बाल-मृत्युसंख्या
Mortality rate	मृत्युसंख्या दर
Mortal wound	घातक घाव
Mortgage	बन्धक, रहन, गिरवी
Deficit	घरोहर, स्वास्थ्य
Pawn	आधि, गिरवी
Pledge	गहन, गिरवी
Mortgage bond	बन्धक पत्र
Mortgage deed	बन्धक विलेख, रहननामा
Mortgagor	बन्धकी, बन्धकप्राप्ति
Mortgagor	बन्धककर्ता
Mortification	यातना
Mortuary	मुद्राधिर, शवगृह
Mos	परम; अत्यधिक
Most favoured nation	परम मित्र राष्ट्र
Most immediate	अति तात्कालिक
Mother	मातृ
Mother country	मातृ देश
Mother land	मातृभूमि
Mother tongue	मातृभाषा
Motion	प्रस्ताव; गति
Motion adjournment	स्थगन प्रस्ताव
Motion backward	पश्चवति

<i>Motion forward</i>	अग्र गति
<i>Motion of confidence</i>	विश्वास प्रस्ताव
<i>Motion of no-confidence</i>	अविश्वास प्रस्ताव
<i>Motivation</i>	अभिप्रेरण
<i>Motive</i>	उद्देश्य, प्रयोजन
<i>Motive power</i>	चालन-शक्ति
<i>Motto</i>	आदर्श वाक्य, आदर्शोचित
<i>Mountain</i>	पर्वत
<i>Mountain pass</i>	पहाड़ी दर्जा
<i>Mountain range</i>	पर्वतमाला
<i>Mountain slide</i>	पर्वत-रुद्धन
<i>Mountain warfare</i>	पहाड़ी युद्ध
<i>Mounted</i>	सवार
<i>Mounted police</i>	सवार पुलिस
<i>Mouthpiece</i>	मुख नाल; मुखिका, मुखक
<i>Movable</i>	चल
<i>Movable article</i>	चल यस्तु
<i>Movable property</i>	चल सम्पत्ति
<i>Movables</i>	चल सम्पत्ति, जंगम सम्पत्ति
<i>Move</i>	प्रस्तुत करना
<i>Introduce</i>	प्रस्थापित करना
<i>Propose</i>	उपस्थापित करना, समझ रखना,
<i>Present</i>	पेश करना
<i>Movement</i>	आन्दोलन; हरकत, गति
<i>Movement, arrested</i>	अवरुद्ध गति
<i>Movement of files</i>	पत्रावली संचलन
<i>Movement of troops</i>	सैनिक संचलन/सचरण
<i>Movement, register</i>	सचरण/संचलन पंजी
<i>Multifarious suit</i>	बहुविधिवाद
<i>Multipoint tax</i>	बहुस्थानीय कर
<i>Multipurpose</i>	बहुउद्देशीय; बहुप्रयोजन
<i>Multistage</i>	बहू-पद
<i>Mundane</i>	लौकिक
<i>Worldly</i>	सासारिक

Tanporal	ऐहिक
Municipal	नगरपालिका, नगर
Murder	हत्या
Murderer	हत्यारा
Museum	संग्रहालय
Music	संगीत
Music classical	शास्त्रीय संगीत
Music light	सुगम संगीत
Musical	संगीतमय
Muster	जुटाना, बटोरना
Muster courage	साहस बटोरना/जुटाना
Muster roll	उपस्थिति नामावली, चिट्ठा
Mutation	नामान्तरण
Mutation case	नामान्तरण वाद
Mutation clerck	नामान्तरण लिपिक
Mutatis mutandis	आवश्यक परिवर्तन सहित, यथोचित परिवर्तन सहित
Mutilated	विकृत, कटा-फटा
Mutilated body	अंग-भंग (शारीरिक)
Mutilated cheque	विकृत चेक
Mutiny	विद्रोह, गदर, सैनिक विद्रोह
Mutual	पारस्परिक, आपसी
Mutual agreement	परस्पर समझौता
Mutual attraction	पारस्परिक आकर्षण
Mutual support	परस्पर समर्थन
Mycology	कवक विज्ञान
Mysterious	रहस्यमय
Myth	कथा
Myth explode	कथा रहस्योदघाटन

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याप्त

Machinery of Govt.	शासन-तंत्र
Made in that behalf	तद्विषयक
Made known	विदित कराया गया
Made to order	आदेशानुसार निर्मित
Maintained by the State	राज्य द्वारा अनुरक्षित
Maintenance and repairs	बनुरक्षण और जीर्णोदार, रख-रखाव और भरमत
Maintenance of prisoner	कैदी का पोषण
Maintenance of peace and order	शांति और व्यवस्था बनाये रखना
Maintenance of road	सड़क का रख-रखाव, मार्ग-अनुरक्षण
Make an affirmation	प्रतिज्ञान करना
Make interim arrangements	अन्तर्रिम/अन्तर्कालीन प्रबन्ध करना
Make use of	का उपयोग करना
Make void	शून्य करना
Malicious intentions	दुर्भाग्यापूर्ण अभिप्राय
Mandatory prisons	समादिष्ट उपचार
Manner and form	प्रकार और स्प
Manner prescribed	विहित रीति
Marginally noted	पाश्चं लिखित, उपांत लिखित
Mark of identification	अभिज्ञान-चिह्न
Material alteration	सारखत् परिवर्तन
Material irregularity	गुण अनियमितता
Matter	विषय
dead—	निरर्थक विषय
in that— } in the— of }	विषय में
—in hand	प्रस्तुत विषय
of no	अमहत्वपूर्ण, निरर्थक
Matter may be referred to D.M.	जिला अधिकारी को इस विषय पर लिखा जाय

Matter of course, as a	नित्य चर्चा में
Matter of fact	तथ्य की बात, यथार्थ
as a—	वास्तव में
Matter of fact statement	दर्थकथं कथन
Matter of chance	समय की बात
Matter of right, as a	साधिकार, अधिकार के रूप में
Matter/subject	विषय
Matter connected therein	उससे सम्बद्ध विषय, तत्सम्बद्ध विषय
Matter of a routine nature	नैतिक विषय
Matter of technical nature	प्राविधिक/तकनीकी विषय
Matter of policy	नीति विषय
Matter specified above	उपरिनिर्दिष्ट विषय
Matter under reference	निर्देशाधीन विषय
May be informed accordingly	एतदनुसार सूचित किया जाय
May be passed for payment	शोधन (भुगतान) के लिए पारित
May be law determine	विधि द्वारा निर्धारण
May I know when order in the reference may be expected	कृपया बतायें कि निर्देश में आदेश कब तक प्राप्त हो सकेगे
May perhaps feel inclined to consider the proposal favourably	प्रस्ताव पर कदाचित् सानुकूल विचार करना चाहे
May take cognizance of	प्रज्ञान/संज्ञान कर सकेगा
Means, by all	अद्यश्यमेव, सब प्रकार से
Means, by no	किसी प्रकार नहीं
Measure, to take effective—	उपाय करना कारगर उपाय
Measures adopted	कृत उपाय
Medium of instruction	शिक्षण का माध्यम
Meet the requirements	आवश्यकताएँ पूरी करना
Memorandum under reference	निर्देशित ज्ञापन
Merits of each case, on the—	प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुणानुसार
Method of disposal	निवर्तन/निस्तारण विधि
Method of procedure	प्रक्रिया, रीति
Military decoration	सैनिक विभूषण
Minimum of the time scale	न्यूनतम समय-श्रेणी

Ministerial duties	प्रशासी कर्तव्य
Minute	
—of the Minister	मन्त्री का वृत्त
Minutes of the meeting	बैठक की कार्यवाही
Misconduct, gross	घोर अवचार
Mistake of fact	तथ्य विभ्रम
Moderate language	संयत भाषा
—means	सीमित साधन
—speed	परिमित वेग
—view	संयत दृष्टिकोण
Month to month	मासानुमास, प्रत्येक मास
Moral obligation	नैतिक दायित्व, नैतिक आभार
My dear	प्रिय
My dear sir	थीमान्, महोदय
My dear sirs	श्रीमन्तः

N

Naked	नग्न
Naked fact	नग्न तथ्य
Name	नाम
Name plate	नाम-पट्ट
Narration	वर्णन, व्याख्या
Narrator	वर्णनकर्ता/वाचक
Narrow	संकीर्ण, अल्प
Narrow majority	अल्प बहुमत
Narrow mentality	नीच प्रवृत्ति
Narrow minded	संकीर्ण हृदय, संकीर्णमना
Nation	राष्ट्र
National	राष्ट्रीय, राष्ट्रिक
National anthem	राष्ट्रगान
National cadet corps	राष्ट्रीय कैडेट कोर
National character	राष्ट्रीय चरित्र
National consciousness	राष्ट्रीय चेतना
National debt	राष्ट्रीय ऋण
National defence academy	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
National economy	राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
National emblem	राष्ट्र-चिह्न
National extension service	राष्ट्रीय प्रसार सेवा
National flag	राष्ट्रीय झण्डा
National income	राष्ट्रीय आय
National interest	राष्ट्रीय हित
National language	राष्ट्रीय भाषा
National policy	राष्ट्रीय नीति
National requirement	राष्ट्रीय आवश्यकता
National security	राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा

National wealth	राष्ट्रीय धन, राष्ट्र-धन
Nationalisation	राष्ट्रीयकरण
Nationalisation of industries	उद्योगों का राष्ट्रीयकरण
Nationalise	राष्ट्रीयकरण करना
Nationalism	राष्ट्रीयता
Nationality	राष्ट्रिकता
Nationhood	राष्ट्रत्व
Native	देशवासी, देशी, देशज, प्राकृत
Native language	देशी भाषा
Native state	देशी रियासत
Native tribe	देशज जाति
Nature	प्रकृति, स्वभाव
Habit	आदत, अभ्यास
Tendency	प्रकृति
Instinct	नैसर्गिक प्रवृत्ति
Disposition	मनोवृत्ति
Proneness	उन्मुखता
Trend	सुकाव, रुझान
Natural	प्राकृतिक, स्वाभाविक, सहज
Natural affection	सहज अनुराग/वात्सल्य
Natural beauty	प्राकृतिक सौन्दर्य
Natural born subject	देशजाति/निवासी
Natural boundary	प्राकृतिक सीमा
Natural calamity	प्राकृतिक विपत्ति
Natural defect	प्राकृतिक दोष
Natural feature	प्राकृतिक लक्षण
Natural food	स्वाभाविक भोजन
Natural gift	प्राकृतिक देन
Natural import	सहज अर्थ
Natural justice	सहज न्याय
Natural resources	प्राकृतिक साधन
Naturalisation	देशीयकरण, देशीकरण
Naturalisation ipsofacto	तथ्यतः देशीकरण
Naturalised citizen	देशीकृत नागरिक
Nature	प्रकृति, स्वभाव, स्वरूप

Nature of study	अध्ययन का प्रकार
Nature of vacancy	रिक्ति का प्रकार
Nature study	प्रकृति पाठ
Naval	नौसेना सम्बन्धी, नाविक
Naval base	नौसेनिक अड्डा
Naval court	नौ-न्यायालय
Naval force	नौसेना, नौ-बल
Naval personnel	नौसेना कर्मचारी
Naval warfare	नौसेना युद्ध
Navigable	नौगम्य
Navigation	नौचालन, वायुसेना निर्देशन
Navy	नौसेना
Near east	निकट पूर्व
Near future	निकट भविष्य
Nearest	निकटतम्
Nearest of kin	निकटतम् सम्बन्धी
Nebulous state, in	परिपक्व अवस्था में
Necessaries	आवश्यक वस्तुएँ
Necessaries of life	जोवन की आवश्यकताएँ
Necessary	आवश्यक
Necessary action	आवश्यक कार्यवाही
Necessary evil	आवश्यक बुराई
Necessary precautions	आवश्यक पूर्वापाय
Necessity	आवश्यकता
Exigency	अत्यावश्यकता
Emergency	संकटकाल
Need	आवश्यकता
Needful	आवश्यक कार्यवाही
Negative	नकारात्मक; निषेधात्मक
Negative approach	नकारी दृष्टिकोण
Negative aspect	नकारात्मक पक्ष
Neglect	उपेक्षा
Disregard	अवहेलना
Indifference	उदासीनता
Negelect of duty	कर्तव्य-उपेक्षा

Neglected	उपेक्षित
Negligence	असावधानी, प्रमाद, उपेक्षा, गफलत
Carelessness	लापरवाही, अनवधानता
Inattentiveness	ध्यानहीनता
Needlessness	मनोयोगहीनता
Negligence gross	घोर उपेक्षा, घोर प्रमाद
Negligence perse	स्वतः उपेक्षा, स्वतः प्रमाद
Negligent	उपेक्षाकारी, प्रमादपूर्ण, प्रमादी
Negligent flying	लापरवाह उड़ान
Negligible	अत्यल्प, बहुत कम
Negotiate	वातचीत करना; संक्रामित करना
Neighbour	पड़ोसी
Neighbourhood	पड़ोस
Neighbouring	पड़ोसी
Neighbouring country	पड़ोसी देश
Neighbouring territory	पड़ोसी प्रदेश
Nepotism	स्वजन पक्षपात, भाई-भतीजावाद
Net	शुद्ध
Net assets	शुद्ध परिसम्पत्ति
Net income	शुद्ध आय
Net profit	शुद्ध लाभ
Net return	शुद्ध प्रतिफल
Net value	वास्तविक मूल्य
Net yield	शुद्ध प्राप्ति, उपज/आय
Neutral	तटस्थ, उदासीन; मध्यम
Impartial	निष्पक्ष
Neutral area	तटस्थ क्षेत्र
Neutral point	मध्यग चिन्दु
Neutral waters	तटस्थ सागर
Neutral zone	तटस्थ क्षेत्र
Neutrality	तटस्थता, उदासीनता
Neutrality benevolent	हितैयितापूर्ण तटस्थता
New	नई, नया
New deal	पुनर्बर्वस्था
New formation	नई रचना

News	समाचार
News agency	समाचार एजेंसी/अभिकरण
News bulletin	समाचार बुलेटिन
News feature	वृत्त रूपक
News letter	सूचना वृत्त
News officer	समाचार अधिकारी
News paper	समाचार-पत्र
News paper advertisement	समाचार-पत्र विज्ञापन
News paper, daily	दैनिक समाचार-पत्र
News paper, weekly	साप्ताहिक समाचार-पत्र
Newsprint	समाचार-पत्र का कागज
News reel	समाचार दर्शन
News review	समाचार समीक्षा
News sheet	सूचना पत्ता
Next	आगामी, अगला, दूसरा, आसन्न
Next below rule	आसन्न कनिष्ठ नियम
Next lower authority	आसन्न अवर अधिकारी
Next of kin	निकटतम सम्बन्धी
Next senior authority	आसन्न प्रवर अधिकारी
Next working day	अगला कार्य-दिवस
Niceties	वारीकियाँ
Nick name	उपनाम, फर्जी नाम
Night	रात्रि
Night attack	रात्रि में आत्मरण
Night duty	रात्रि ड्यूटी
Night shift	रात्रि-पारी
Nisi	प्रारम्भिक
Nisi decree	प्रारम्भिक डिगरी/आज्ञापत्र
Nisi judgement	प्रारम्भिक निर्णय
Nisi order	प्रारम्भिक आदेश
Nisi rule	प्रारम्भिक शासन
No confidence motion	अविश्वास प्रस्ताव
Noise	कोलाहल
Clamour	जनरव, आक्रोश
No objection certificate	अनापत्ति प्रमाण-पत्र

Nocturnal	रात्रिचर
Nomadic	अस्थिरवासी, यानावदोशी
No man's land	लावारिस जमीन, अस्वामिक भूमि
Nomenclature	नाम पद्धति, नाम अभिधान
Nominal	नाममात्र, साकेतिक
Nominal for-consideration	नाममात्र/साकेतिक प्रतिफल, स्वरूप
Nominal damages	नाममात्र धनिमूल्य
Nominal inspection	नाममात्र निरीक्षण
Nominal member	नाममात्र सदस्य
Nominal price	नाममात्र मूल्य
Nominal rent	नाममात्र किराया
Nominal roll	नामावली
Nominate	नामित करना, नाम निर्देशित करना
Nominated	नामित, नाम निर्देशित
Nomination	नामांकन, नामजदगी, मनोनयन
Cooption	आमेलन
Nomination paper	नामन-पत्र
Nomination roll	नामन सूची
Nominator	नामनकर्ता, नामक
Nominee	नामित
Non acceptance	अस्वीकृति
Non access	अनधिगम, अनुपगम
Non adjustable	असमंजनीय
Non aggression pact	अनाक्रमण समझौता
Non agricultural income	कृष्येतर आय
Non ancestral property	अपेतृक सम्पत्ति
Non apparent	परोक्ष, अप्रत्यक्ष
Non appearance	अनुपस्थिति
Non assessable	अनिधार्य
Non attachable	अकुरकोय, कुरको अयोग्य
Non availability	अप्राप्यता
Non bailable	ये/अजमानती
Non bailable offence	बेजमानती अपराध, अलग्नकीय अपराध
Non belligerent	अयुद्धकारी

Non clearing house	अनाशोधन घर, असमाशोधन-गृह
Non cognizable	अप्रज्ञय
Non cognizable offence	अप्रज्ञय/अहस्तक्षेप्य, अपराध
Non combatant	अयुद्धकारी
Non commercial	अव्यापारिक
Non committal	वचनबद्ध न होना
Non compliance	अपालन, अननुपालन
Non confirmatory	असुन्दरिकर
Non consent	असम्मति
Non co-operation	असहयोग
Non criminal	अनप्राधी
Non dangerous	निरापद
Non delivery	अवितरण
Non detrimental	अहानिकार
Non diplomatic	अराजनयिक
Non earning	अनर्जक
Non eatble	अखाद्य
Non effective	अप्रभावी
Non emigrant	अनुत्प्रवासी
Non employment	वेरोजगारी
Non essential	अनावश्यक, असारवत्
Non exempted	अवर्जित
Non extradition	अप्रत्यर्पण
Non fatal	अधातक
Non fulfilment	अपूर्ति
Non gazetted	अराजपत्रित
Non government	असरकारी/गैर-सरकारी
Non hostile	अशत्रुतापूर्ण
Non industrial	अनीयोगिक
Non infective	असक्रामी
Non interference	अहस्तक्षेप
Non intervention	अहस्तक्षेप
Non judicial	न्यायिकेतर
Non judicial duties	न्यायिकेतर कर्तव्य

Non judicial stamp	न्यायिकेतर स्टाम्प
Non legal	अविधिक
Non military	असंनिक
Non ministerial	अतिलिपिक
Non negotiable	अविनियमय
Non observance	अपालन
Non observation	अनवलोकन
Non occupancy right	गैर-दखिलकारी अधिकार
Non occupancy tenant	गैर-मीरूमी काश्तकार
Non official	गैर-सरकारी, असरकारी, अशासकीय
Non official circles	गैर-सरकारी क्षेत्र
Non official sources	गैर-सरकारी मूल
Non partisan	निर्दलीय
Non payment	अशोधन, गैर-अदायगी
Non pensionable	गैर-पेनशनी
Non periodical	अनियतकालिक
Non permanent	अस्थायी
Non poisonous	विपहीन, निर्विप
Non political	गैर-राजनीतिक
Non possession	गैर-कब्जा
Non recognition	अमान्यता
Non recurring	अनावर्ती
Non regular	अनियमित
Non renewable	अपूर्य
Non resident	अनिवासी
Non residential	अनावासिक
Non resistant	अरोधक
Non salable	अविक्रेय
Non sense	निरर्थक
Non service of process	आदेशिका की तामील न होना
Non statutory	विधीतर
Non sui juris	विधि की दृष्टि में अधिक
Non traceable	लापता
Non vegetarian	सामिय, मांसाहारी
Non violent	अर्हिसात्मक

Non votable	अमतदेय
Non voted	जदत्तमत
Non working	निपक्षीय
Non working day	छुट्टी का दिन
Non working dependent	अनजंक आश्रित
Normal	सामान्य
Normal action	सामान्य किया
Normal behaviour	सामान्य व्यवहार
Normal circumstances	सामान्य परिस्थितियाँ
Normal condition	सामान्य दशा
Normal delay	सामान्य विलम्ब
Normal difference	सामान्य अन्तर
Normal distribution	सामान्य वितरण
Normal erosion	सामान्य भूक्षरण
Normal force	सामान्य बल
Normal form	सामान्य रूप
Normal practice	सामान्य रीति
Normal route	सामान्य मार्ग
Normal school	दीक्षा विद्यालय
Normalised	सामान्यीकृत
Normality	सामान्यता
Normally	सामान्य रूप से
Notary public	लेख्य प्रमाणक, नोटरी
Note	टिप्पणी, नोट
Note forged	जाली नोट
Note of dissent	असहमति टिप्पणी, विसम्मति टिप्पणी, विमत टिप्पणी
Note of protest	विरोध-पत्र, प्रतिवाद-पत्र
Note risk	जोखिम-पत्र
Note sheet	टिप्पणी पत्र
Note verbal	चबानी नोट
Notes	नोट कर लिया
Notes and drafter	टिप्पणी लेखक और प्रालेखक, टिप्पणीक और प्रालेखक
Notes cover	टिप्पणी आवरण

Non judicial stamp	न्यायिकेतर स्टाम्प
Non legal	अविधिक
Non military	असंनिक
Non ministerial	अलिपिक
Non negotiable	अविनिभय
Non observance	अपालन
Non observation	अनवलोकन
Non occupancy right	गैर-दायित्वारी अधिकार
Non occupancy tenant	गैर-मीरुसी काश्तकारी
Non official	गैर-सरकारी, असरकारी, अशासकीय
Non official circles	गैर-सरकारी धेन
Non official sources	गैर-सरकारी मूल
Non partisan	निर्दलीय
Non payment	अप्रोधन, गैर-अदायगी
Non pensionable	गैर-मेन्जनी
Non periodical	अनियतकालिक
Non permanent	अस्थायी
Non poisonous	विषहीन, निविष
Non political	गैर-राजनीतिक
Non possession	गैर-कब्जा
Non recognition	अमान्यता
Non recurring	अनावर्ती
Non regular	अनियमित
Non renewable	अपूर्य
Non resident	अनिवासी
Non residential	अनावासिक
Non resistant	अरोधक
Non salable	अविक्रेय
Non sense	निरथंक
Non service of process	आदेशिका की तामील
Non statutory	विधीतर
Non sui juris	विधि की दृष्टि में अक्षम
Non traceable	लापता
Non vegetarian	सामिप, मासाहारी
Non violent	अहिंसात्मक

Non votable -	अमतदैय
Non voted	अदत्तमत
Non working	निष्क्रिय
Non working day	छुट्टी का दिन
Non working dependent	अनर्जक आश्रित
Normal	सामान्य
Normal action	सामान्य किया
Normal behaviour	सामान्य व्यवहार
Normal circumstances	सामान्य परिस्थितियाँ
Normal condition	सामान्य दशा
Normal delay	सामान्य विलम्ब
Normal difference	सामान्य अन्तर
Normal distribution	सामान्य वितरण
Normal erosion	सामान्य भूक्षरण
Normal force	सामान्य बल
Normal form	सामान्य रूप
Normal practice	सामान्य रीति
Normal route	सामान्य मार्ग
Normal school	दीक्षा विद्यालय
Normalised	सामान्यीकृत
Normality	सामान्यता
Normally	सामान्य रूप से
Notary public	लेख्य प्रमाणक, नोटरी
Note	टिप्पणी, नोट
Note forged	जाली नोट
Note of dissent	असहमति टिप्पणी, विसम्मति टिप्पणी, विमत टिप्पणी
Note of protest	विरोध-पत्र, प्रतिवाद-पत्र
Note risk	जोखिम-पत्र
Note sheet	टिप्पणी पत्र
Note verbal	जबानी नोट
Noted	नोट कर लिया
Noter and drafter	टिप्पणी लेखक और प्रालेखक, टिप्पणीक और प्रालेखक
Notes cover	टिप्पणी आवरण

Non judicial stamp	न्यायिकतर स्टाम्प
Non legal	अविधिक
Non military	असैनिक
Non ministerial	अलिपिक
Non negotiable	अविनियम्य
Non observance	अपालन
Non observation	अनबद्धतेकन
Non occupancy right	गैर-दण्डितकारी अधिकार
Non occupancy tenant	गैर-मीहमी काश्तकार
Non official	गैर-सरकारी, असरकारी, अशासकोष
Non official circles	गैर-सरकारी छेत्र
Non official sources	गैर-सरकारी मूल
Non partisan	निर्दंसीय
Non payment	अशोधन, गैर-अदायगी
Non pensionable	गैर-पेन्शनी
Non periodical	अनियतकालिक
Non permanent	अस्थायी
Non poisonous	विषहीन, निविष
Non political	गैर-राजनीतिक
Non possession	गैर-कब्जा
Non recognition	अमान्यता
Non recurring	अनावर्ती
Non regular	अनियमित
Non renewable	अपूर्ये
Non resident	अनिवासी
Non residential	अनावासिक
Non resistant	अरोधक
Non salable	अविक्रेय
Non sense	निरर्थक
Non service of process	आदेशिका की ताभीत न होना
Non statutory	विधीतर
Non sui juris	विधि की दृष्टि में अक्षम
Non traceable	लापता
Non vegetarian	सामिप, मासाहारी
Non violent	अहिंसात्मक

Non votable	अमतदेय
Non voted	जदसमत
Non working	निष्क्रिय
Non working day	छुट्टी का दिन
Non working dependent	अनर्जक आश्रित
Normal	सामान्य
Normal action	सामान्य क्रिया
Normal behaviour	सामान्य व्यवहार
Normal circumstances	सामान्य परिस्थितियाँ
Normal condition	सामान्य दशा
Normal delay	सामान्य विलम्ब
Normal difference	सामान्य अन्तर
Normal distribution	सामान्य वितरण
Normal erosion	सामान्य भूक्षरण
Normal force	सामान्य बल
Normal form	सामान्य रूप
Normal practice	सामान्य रीति
Normal route	सामान्य मार्ग
Normal school	दीक्षा विद्यालय
Normalised	सामान्यीकृत
Normality	सामान्यता
Normally	सामान्य रूप से
Notary public	लेख्य प्रमाणक, नोटरी
Note	टिप्पणी, नोट
Note forged	जाली नोट
Note of dissent	असहमति टिप्पणी, विस्मति टिप्पणी, विमत टिप्पणी
Note of protest	विरोध-पत्र, प्रतिवाद-पत्र
Note risk	जोखिम-पत्र
Note sheet	टिप्पणी पत्र
Note verbal	जबानी नोट
Noted	नोट कर लिया
Noter and drafter	टिप्पणी लेखक और प्रालेखक, टिप्पणीक और प्रालेखक
Notes cover	टिप्पणी आवरण

Notice	सूचना, नोटिस, जानकारी, प्रज्ञान
Notice actual	वास्तविक सूचना
Notice implied	अन्तर्निहित सूचना
Notice board	सूचना पट्ट
Notice judicial	न्यायिक प्रज्ञान
Notice of demand	माँग नोटिस/माँग सूचना
Notice of discharge	कार्य-मुक्ति सूचना
Notice of motion	प्रस्ताव-सूचना
Notifiable disease	सूचनीय रोग
Notification	विज्ञप्ति, अधिसूचना
Notified	अधिसूचित
Notified area	अधिसूचित क्षेत्र
Not negotiable	असक्राम्य
Nourishment	पोषण
Novelty goods	अनूठी/विचित्र वस्तुएँ
Noxious	अनिष्टकर
Nuisance	कट्ट; उत्पात, व्याधा, अनुश्रास
Nuisance permanent	स्थायी कट्ट
Nuisance, public	लोक कट्ट, सार्वजनिक अनुश्रास
Null and void	अकृत और शून्य, बातिल और शून्य
Nullify	अकृत करना
Number	संख्या
Number odd	विषम संख्या
Number plate	संख्या पट्ट
Number, prime	अभाज्य संख्या
Number, whole	पूर्ण संख्या
Numbered	अंकित
Numeral	अंक
Numerical	आंकिक, संख्यात्मक
Numerical order	संख्याक्रम
Numismatic	मुद्राशास्त्र, मुद्रा सम्बन्धी
Nurse	उपचारिका, परिचारिका
Nurse male	उपचारक
Nursery	शिशुपालन गृह
Nursery bed	रोपण क्यारी

Nursing home	उपचर्यांगृह
Nursing orderly	उपचार अर्दली
Nutriment	पोषण, पोषाहार
Nutrition	पोषण, आहारनुस्ति
Nutritious diet	पोषाहार, पौष्टिक आहार

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Narrative of the case	प्रकरण का तथ्यबण्णन
Narrow escape	वाल-वाल बचना
National security	राष्ट्र सुरक्षा
Natural born subject	देश जात निवासी/प्रजा
Natural consequences	सहज परिणाम
Natural presumption	सहज अनुमान, सहज धारणा
Nature of the allegations	आरोपों का स्वरूप
Nature of the work	कार्य का स्वरूप
Necessaries of life	जीवन की आवश्यकताएँ
Necessary action	आवश्यक कार्यवाही
Necessary precautions	आवश्यक पूर्वोपाय
Necessary report is awaited	आवश्यक प्रतिवेदन की परीक्षा है
Needs close supervision	सूख्न देख-रेख की आवश्यकता है
Neglect of duty	कर्तव्योपेक्षा, कर्तव्य-उपेक्षा
Negligence, gross	घोर उपेक्षा, घोर प्रमाद
Negligible quantity	नगम्य मात्रा
Net amount payable	शुद्ध देय धनराशि
Next working day	आगामी कार्य-दिवस
No admission exception official business	सरकारी कार्य के बिना प्रवेश- निपिद्ध
No further action is necessary	अगे और कार्यवाही आवश्यक नहीं
No knowledge or information	कोई जानकारी अधिका मूचना नहीं
No suit shall be maintained	कोई वाद संघृत न किया जायगा
Nominal difference	नाम-मात्र का अन्तर

Non cognizable offence	अप्रश्नैय/असंधेय अपराध
Normal working hours	सामान्य कार्य-समय
Not available	अप्राप्य
Not contemplated	मेरे अवेक्षित न की गयी
Note of dissent	चिकृत टिप्पणी
Note of protest	प्रतिवाद-पत्र
Nothing in this article shall prevent	इस अनुच्छेद की किसी बात से बाधा न होगी
Notice inviting tenders	निविदा माँगने के लिए सूचना
Notice in writing	लिखित सूचना
Not in consistent with	‘‘ से असंगत नहीं
Not with standing any thing to the contrary	इसके विपरीत कोई बात होते दुए
Nuisance, public	लोक-कंटक, सार्वजनिक अनुचास
Null and void	प्रवृत्तिहीन, व्यर्थ और विफल

O

Oath	जपथ
Affidavit	जपय-नाम, हसफलागा
Deposition	अभिसारण
Oath commissioner	जपथ आयुक्त
Oath judicial	न्यायिक जपथ
Oath of allegiance	निष्ठा जपथ
Oath of office	पद-जपथ
Oath of secrecy	गूढता-जपथ, गोपनीयता-जपथ
Obedience	आशा पालन
Compliance	अनुपालन
Obedience to law	कानून/विधि पालन
Obedient	आशाकारी
Obiter dictum	अनावश्यक उचित
Obituary	निधन मूर्चना
Object	उद्देश्य; विषय; वस्तु
Intention	आशय
Purpose	प्रयोजन
Object external	वाह्य वस्तु/पदार्थ
Object terrestrial	पायिव वस्तु
Object ultimate	अतिम उद्देश्य
Objection	आपत्ति
Opposition	विरोध
Protest	प्रतिरोध, प्रत्यापत्ति
Remonstration	शोभाभिव्यक्ति, प्रतियेध
Demur	आपत्ति, शंका
Objection slip	आपत्ति पर्ची
Objectionable	आपत्तिजनक
Objectionable matter	आपत्तिजनक मामला

Objective	लक्ष्य
Obligation	दायित्व; आभार
Obligatory	वाध्यकर, अनिवार्य
Indispensable	अपरिहार्य, अपरित्याज्य
Obliterate	मिटाना
Obnoxious	वेहूदा, घृणित, अप्रिय
Obscene	अश्लील
Indecent	अशिष्ट
Immodest	अशालीन, अविनीत
Obscene article	अश्लील लेख, अश्लील वस्तु
Obscene language	अश्लील भाषा
Obscene literature	अश्लील साहित्य
Obscenity	अश्लीलता
Obscure	दुर्बोध, दुर्गम
Obscure corner	दुर्गम कोना
Obscure definition	दुर्बोध परिभाषा
Observance	पालन, अनुपालन
Observance of law	विधि पालन
Observance of rules	नियमों का पालन/अनुपालन
Observation	प्रे क्षण, अवलोकन
Observation air craft	प्रे क्षण-विमान
Observation experimental	प्रायोगिक अवलोकन
Observation range of	अवलोकन/प्रे क्षण-परास
Observation post	प्रे क्षण चौकी
Observatory	वैद्यशाला
Observer	प्रे क्षक
Obsession	ग्रस्तता
Obsolete	अप्रचलित/लुप्त
Obsolete rule	अप्रचलित नियम
Obstetrics	प्रसूति विद्या
Obstructed	अवरुद्ध, वायित
Obtrusive	घृष्ण
Obvious	स्पष्ट
Obvious target	सुस्पष्ट लक्ष्य
Occasional	यदा-कदा, अनियत

Occult	गुह्य, गृह
Occupancy	दखलकारी, अधिभोग
Occupancy right	दखलकारी
Occupancy tenant	दखलकार
Occupant	दखलकार, अधिभोता, अधिवारी
Occupation	जीविका, पेशा, व्यवसाय; दखल, अधिवास
Occupation effective	प्रभावकारी दखल
Occupation forces	कड़ा करने वालों सेनाएँ
Occupation, seasonal	मौसमी धन्धा/पेशा
Occupational	व्यावसायिक
Occupational instinct	व्यावसायिक वृत्ति
Occupational roll	व्यावसायिक कार्य
Occupied	अधिकृत; अधिवासित
Occupied territory	अधिकृत प्रदेश
Occurrence	घटना, होना
Occurrence change	संभाव्य घटना
Octroi duty	चुंगी
Odd	विषम, विचिप्र
Odd number	विषम संख्या
Odds	सम्भवांश, संयोगानुपात
Odds against an event	घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात
Odds heavy	भारी संयोगानुपात
Odious	घृणित
Off day	छुट्टी का दिन
Off duty	काम पर न होना
Offence	अपराध
Offence to take	बुरा मानना
Offend	अपराध करना, उल्लंश्न करना
Offender	अपराधी
Offensive	आक्रमणात्मक; अक्रिय
Offensive action	आक्रामक कार्यकारी
Offensive language	अप्रिय भाषा
Offensive power	आक्रमण शक्ति
Offensive remark	कटूक्ति

Offensive spirit	आक्रमण वृत्ति
Offer	देना; नियुक्ति-प्रस्ताव प्रस्तुत करना
Offering	वलि, भेंट
Office	पद; कार्यालय
Rank	ओहदा, प्रतिपद
Situation	आस्पद
Office acceptance of	पद-स्वीकृति
Office accommodation	कार्यालय-स्थान
Office act	पद कार्य
Office, attached	संलग्न कार्यालय, संबद्ध कार्यालय
Office bearer	पदधारी, पदाधिकारी
Office building	कार्यालय भवन
Office charges	कार्यालय व्यय
Office copy	कार्यालय प्रति
Office expenses	कार्यालय व्यय
Office instruction	कार्यालय अनुदेश
Office manual	कार्यालय नियम संग्रह
Office memorandum	कार्यालय ज्ञापन
Office note	कार्यालय टिप्पणी
Office of origin	उद्गम कार्यालय/प्रे-पक कार्यालय
Office of payment	भुगतान कार्यालय
Office of profit	लाभ का पद
Office order	कार्यालय आदेश
Office premises	कार्यालय परिसर
Office procedure	कार्यालय प्रक्रिया/क्रिया-विधि
Office record	कार्यालय अभिलेख
Office report	कार्यालय प्रतिवेदन/रिपोर्ट
Office staff	कार्यालय कर्मचारि वर्ग/अमला
Office supervisor	कार्यालय पर्यंतवेक्षक
Officer	अधिकारी
Officer incharge	प्रभारी अधिकारी
Officer on special duty	विशेषाधिकारी, विशेष कार्याधिकारी
Official	सरकारी, शासकीय, आधिकारिक
Official act	आधिकारिक/पदीय कार्य
Official administrator	सरकारी प्रशासक

Official assignee	सरकारी अभ्यर्पिती
Official ballot	सरकारी मतपत्र
Official benches	सरकारी पद्धति
Official bulletin	सरकारी बुलेटिन
Official bungling	सरकारी घपला, गडबडी
Official business	सरकारी काम
Official capacity	पदीय हैसियत
Official circles	सरकारी क्षेत्र
Official correspondence	सरकारी पत्र-व्यवहार
Official decorum	आौपचारिक शिष्टाचार
Official document	सरकारी दस्तावेज़/प्रलेख
Official duty	पदीय कर्तव्य, सरकारी काम
Official function	पदीय कृत्य
Official language	राज-भाषा
Official liquidator	सरकारी अपाकर्ता
Official member	सरकारी सदस्य
Official misconduct	पदीय अवचार/पदीय दुराचार कदाचार
Official oath	पद-शपथ
Official organ	सरकारी मुख्यपत्र
Official publication	सरकारी प्रकाशन
Official receiver	सरकारी आदाता/रिसीवर
Official reception	आौपचारिक स्वागत समारोह
Official recognition	सरकारी मान्यता
Official referee	सरकारी निर्देशी
Official reply	सरकारी उत्तर
Official report	सरकारी रिपोर्ट
Official residence	सरकारी निवास
Official secret	सरकारी गुप्ति/रहस्य
Official sources	सरकारी सूत्र
Official translation	सरकारी अनुवाद
Official trustee	न्यासपाल, सरकारी न्यासी
Official version	सरकारी कथन
Officiate	स्थानापन्न होना, स्थानापन्न रूप में काम करना
Officiating	स्थानापन्न

Officiating allowance	स्थानापन भत्ता
Officiating pay	स्थानापन वेतन
Officiating period	स्थानापन अवधि
Officiating post	स्थानापन पद
Officiating rank	स्थानापन पद
Officiating service	स्थानापन सेवा
Officious	अमौपचारिक
Officious will	परिवारार्थ इच्छा-पत्र
Off take	कुल खरीद
Off the record talk	आपसी वातचीत
Omission	छोड़ देना, छूट, छूक
Omission, commission and	छूट और अछूट
Omnibus	सम्प्राही; बहुगमित, सावंत्रिक
On behalf of	की ओर से
On demand	माँगने पर
On deputation	प्रतिनियुक्ति पर
On duty	काम/इयूटी पर
On Government of India Service	भारत सरकार के कामीर्थ
Onlooker	प्रेक्षक, दर्शक
On medical grounds	चैकिटिसक आधार पर, वीमारी के कारण
On probation	परिवीक्षाधीन
Onerous	दुर्भार, दुर्व्वह
Onerous duty	दुर्व्वह कार्य
Onerous tax	दुर्भार कर
Onesidedness	एकपक्षीयता
One way traffic	इकतरफा रास्ता
Onus	भार, दायित्व
Onus lies on you	इसका भार/दायित्व आप पर है
Onus probandi	प्रमाणभार, मिल्डिभार
Open	खोलना, आरम्भ करना; खुला
Open an account	खाता/हिसाब खोलना
Open the debate	विवाद आरम्भ करना
Open arrest	खुली गिरफ्तारी
Open circuit	युलापरिपथ

Open court	खुला न्यायालय
Open delivery	खुली सुपुर्दंगी, खुला माल देना
Open house	खुला निमत्रण
Open letter	खुला पत्र
Open sea	खुला समुद्र
Open session	खुला सत्र
Open tender	खुली निविदा, खुला टेंडर
Open verdict	खुला अधिमत
Open wire	खुला तार
Opening	प्रारम्भिक
Opening balance	अवशेष, रोकड जमा
Opening stock	माल जमा
Closing balance	इतिशेष, रोकड बाकी
Closing stock	माल शेष
Operate	परिचालन करना, चलाना
Operating	परिचालन
Operating agency	परिचालन अभिकरण/एजेंसी
Operating capital	परिचालन पूँजी
Operating charges	परिचालन व्यय
Operating costs	परिचालन लागत
Operating procedure	परिचालन प्रक्रिया
Operation	परिचालन, प्रवर्तन, कार्य, शल्यकर्म
Operation area	कार्यवाही क्षेत्र
Operation order	कार्यदिश
Operation role	सक्रिया कर्तव्य
Operation theatre	शल्य कर्मशाला
Operation, bring into	परिचालित करना, प्रचलित करना
Operation, come into	प्रचलित होना
Operation, is in	प्रचलित है
Operational	परिचालन सक्रिया
Operational command	सक्रिया कमान
Operational control	परिचालन-नियन्त्रण
Operational co-ordination	सक्रिया समन्वय
Operational cost	परिचालन लागत
Operational moves	साम्राज्यिक चाले

Operative	प्रवर्ती, सक्रिय, प्रभावी
Operator	परिचालक
Opinion	मत, राय
Opinion expert	विशेषज्ञ मत
Opinion unanimous	सर्वसम्मत राय
Opponent	विरोधी
Opportune	समयानुकूल, प्राप्तावसर
Timely	सामयिक
Opportunism	अवसरवादिता
Oppor tun st	अवसरवादी
Opportunity	अवसर
Oppose	विरोध करना; सामना करना
Opposite	विहङ्ग, प्रतिकूल, विपरीत
Opposite party	विपक्ष, विपक्षी, विरोधी दल, प्रतिपक्षी
Opposite sex	भिन्न लिंगी
Opposition	विरोध, विरोधी दल
Opposition, leader of	विरोधी दल नेता
Oppress	सताना
Oppression	अत्याचार, दमन
Oppressive	सताने वाला, कष्टकारक
Optimism	आशावाद
Optimist	आशावादी
Optimum	अनुकूलतम, सर्वोत्तम
Optimum does	अनुकूलतम मात्रा
Option	विकल्प
Option of nationality	राज्यिकता का विकल्प
Optional	वैकल्पिक
Voluntary	ऐच्छिक
Optional clause	वैकल्पिक घण्ड
Optional subject	वैकल्पिक विषय
Opulence	धन-सम्पत्ति; प्राचुर्य
Oral	मौखिक
Oral evidence	मौखिक साक्ष्य
Oral examination	मौखिक परीक्षा
Oral method	मौद्यिक रीति

Oral tradition	मौखिक परम्परा
Orally	मौखिक रूप से
Orator	वार्तामी
Orbit	परिक्रमा-पथ
Orchestra	वाद्यवृन्द, आकॉस्ट्रा
Ordain	विहित करना; आदेश देना
Ordeal	कठिन परीक्षा, उत्परीक्षा, परीक्षा, सत्य परीक्षा
Order	आदेश; व्यवस्था; क्रम
Direction	निर्देश
Ruling	व्यवस्था
Injunction	निपेधाज्ञा
Order book	आदेश पुस्तक/पंजी
Order, by	आदेश से
Order, in	यथाक्रम, ठीक क्रम में, नियमित, व्यवस्थित
Order in-of merit	योग्यता क्रम में
Order in-to	के लिए
Order, law and	विधि और व्यवस्था
Order out of	अव्यवस्थित, अनियमित, विगड़ी दशा में
Order sheet	आदेशफलक
Order, standing	स्थायी आदेश
Order of precedence	अधिमान-क्रम
Order of priority	अग्रता क्रम
Orderliness	सुध्यवस्था, क्रमबद्धता
Orderly	अदंती; क्रमबद्ध
Ordinance	अध्यादेश
Ordinarily	सामान्यता, साधारणतया
Ordinary	साधारण, सामान्य
Ordnance	तोपखाना; युद्ध-सामग्री, गोलावारूद
Organ	अग; मुखपत्र
Magazine	पत्रिका
Organisation	सघटन, सगठन
Organisation business	व्यवसाय-सगठन
Organisation and method	सगठन और पद्धति

Organised	संगठित, संघटित
Organised resistance	संगठित विरोध
Organisor	संघटनकर्ता, आयोजक
Oriental	प्राच्य
Oriental institution	प्राच्य संस्था
Oriental studies	प्राच्य विद्या
Orientation	अभिस्थापन; अनुकूलन
Orientation course	अभिस्थापन पाठ्य-क्रम
Orifice	छिद्र, मूराख
Origin	उत्पत्ति, उद्गम; मूल स्थान
Origin, office of	उद्गम कार्यालय
Origin of the earth	भू-उद्भव
Original	मूल, मौलिक, प्रारम्भिक
Original contract	मूल संविदा
Original copy	मूल प्रति
Original court	मूल न्यायालय
Original decree	मूल डिक्री
Original evidence	मूल साक्ष्य
Original jurisdiction	मूल अधिकार, मूल अधिकार-धंडे
Original length	आद्य लम्बाई
Original member	मूल सदस्य
Original position	मूल स्थिति
Original site	मूल स्थान/स्थल
Original suit	मूल वाद
Original work	मूल कृति
Originality	मौलिकता
Originate	प्रारम्भ करना, आरम्भ करना
Originator	प्रारम्भकर्ता
Originator of message	संदेश का प्रवर्तक
Orthodox	रुद्धिवादी; शास्वतसम्मत, परम्परागत
Oscillation	दोलन
Oscillating	दोलायमान
Ostensible	प्रकट, दृश्य
Apparent	प्रत्यक्ष
Ostensible income	प्रकट आय

Ostensible means of subsistence	जीवन-निर्वाह के प्रकट साधन
Ostensibly	प्रकटतः
Outbreak	प्रारम्भ होना, छिड़ जाना
Outbreak of disease	बीमारी का प्रारम्भ होना, बीमारी फैलना
Outbreak of war	युद्धारम्भ, युद्ध छिड़ जाना
Outbuilding	उपभवन
Outcast	जाति वहिष्ठृत
Outcome of war	युद्ध-परिणाम
Outercovering	वाह्य आवरण
Outfit	सज्जा, परिधान
Outflow	अपवाह, नि.स्राव
Outgoing	जानेवाला, जावक
Outlaw	विधि-वाह्य, अवैध घोषित करना;
	भगोड़ा, डाकू
Outlay	परिव्यय, लागत
Outlet	कुलावा, निर्गम द्वार
Outline	खाका, रूप रेखा
Outlook	दूष्टिकोण
Outlying	दूरस्थ
Outlying town	दूरस्थ नगर
Out of bounds	वर्जित धेप
Out of date	पुराना, अनवर्त्तित
Out of order	घुराव, विचर्जन व्यापार
Out of pocket expenses	फुटपाथ व्यय
Out of turn	पार्श्व व्यय
Outpatient	विद्वान् रस्ते
Outpost	वंचन
Output	उत्पादन, उत्पाद; उत्पादनी
Outrage	नह उत्पादन
Outrage modesty	स्वाधार, उत्पादन, उत्पादनी व्यवस्था
Outset	उत्पादन
Outset, at the	उत्पादन वेत्ता
Outsider	उत्पादन व्यवस्था

Outstanding	अशोधित, बकाया
Outstanding debts	अशोधित क्रूण
Outstanding wages	अदत्त मजदूरी
Out station	अन्य स्थान
Out turn	उत्पादन, निकासी
Outward	जावक, वहिरामी
Outward bound	जावक
Outward journey	वहिर्यत्रा
Outward register	जावक पंजी
Overageaged	अधिक आयु का
Overage	अधिक आयु
Overall	समस्त, समूर्ण, व्यापक
Overall allowance	समस्त भत्ता
Overall charge	समस्त प्रभार
Overall efficiency	सर्वांगीण दक्षता
Overall improvement	सर्वमुखी उन्नति
Overall incharge	प्रभारी अधिकारी
Overawe	आतंकित करना
Overbridge	उपरिगामी पुल
Overcast	घिरा
Overcast sky	घिरा हुआ आकाश
Overcharge	अतिभार; अधिक मूल्य लगाना
Overcome	जीतना, विजय पाना, निप्रभावित करना
Overcome an enemy	शत्रु पर विजय पाना
Overcome difficulty	कठिनाई पर विजय पाना
Overcrowding	अति/बहुत भीड़
Overdo	सीमा का अतिक्रमण करना
Overdose	अधिमात्रा
Overdraw	अधिक निकालना
Over due	कालातीत, अति प्राप्य
Over feeding	ज्यादा खिलाना
Over flow	बहू निकलना
Overgrowth	अतिवृद्धि
Overhaul	जीर्णोदार, पूरी मरम्मत

Overhaul periodical	सामयिक जीर्णोद्धार
Overhead charges	ऊपरी खर्च
Overhead tank	ऊपर लगी टकी
Over indulgence	अत्यधिक भोग, अति सेवन
Over land route	स्थल मार्ग
Overlap	परस्पर व्याप्त करना
Overlapping	परस्पर व्यापी
Overleaf	दूसरे पृष्ठ पर
Overloading	अधिक लादना
Overlook	उपेक्षा करना
Overnight stay	रात्रिवास
Over payment	अधिक भुगतान
Over power	अभिभूत करना, पराजित करना
OVERRIDING decision	अभिभावी विनिश्चय/निर्णय
Over rule	विरुद्ध व्यवस्था देना, अस्वीकार करना
Over run	कुचल डालना
Over seas	समुद्र पार
Overseas allowance	समुद्र पार भत्ता
Overseas broadcast	विदेश प्रसारण
Overseer	ओवरसियर, सर्वेक्षक
Overshadow	नियंत्रण कर देना
Overstay	समय से अधिक ठहरना
Overstayal of leave	छुट्टी से अधिक ठहरना
Overstressed	अति प्रतिवलित
Over take	पीछे से आकर पकड़ना
Over time	समयोपरि, अतिकाल
Overtime allowance	समयोपरि/अतिकाल भत्ता
Overtime pay	समयोपरि वेतन
Overture	छेड़खानी; प्रस्ताव
Overture, to make	छेड़खानी करना
Overtum	उलट जाना
Over valuation	अधिमूल्याकान
Devaluation	विमूल्यन
Undervaluation	अवमूल्यन
Over weight	अधिक भार

Outstanding	अशोधित, बकाया
Outstanding debts	अशोधित ऋण
Outstanding wages	अदस्त मजदूरी
Out station	अन्य स्थान
Out turn	उत्पादन, निकासी
Outward	जावक, वहिर्गमी
Outward bound	जावक
Outward journey	वहिर्यात्रा
Outward register	जावक पंजी
Overage	अधिक आयु का
Overage	अधिक आयु
Overall	समस्त, सम्पूर्ण, व्यापक
Overall allowance	समस्त भत्ता
Overall charge	समस्त प्रभार
Overall efficiency	सर्वांगीण दक्षता
Overall improvement	सर्वमुखी उन्नति
Overall incharge	प्रभारी अधिकारी
Overawe	आतंकित करना
Overbridge	उपरिगामी पुल
Overcast	घिरा
Overcast sky	घिरा हुआ आकाश
Overcharge	अतिभार; अधिक मूल्य लगाना
Overcome	जीतना, विजय पाना, निप्रभावित करना
Overcome an enemy	शत्रु पर विजय पाना
Overcome difficulty	कठिनाई पर विजय पाना
Overcrowding	अति/बहुत भीड़
Overdo	सीमा का अतिक्रमण करना
Overdose	अधिमात्रा
Overdraw	अधिक निकालना
Over due	कालातीत, अति प्राप्य
Over feeding	ज्यादा खिलाना
Over flow	बह निकलना
Overgrowth	अतिवृद्धि
Overhaul	जीणोंदार, पूरी मरम्मत

Overhaul periodical	सामयिक जीर्णोद्धार
Overhead charges	ऊपरी खर्च
Overhead tank	ऊपर लगी टकी
Over indulgence	अत्यधिक भोग, अति सेवन
Over land route	स्थल मार्ग
Overlap	परस्पर व्याप्त करना
Overlapping	परस्पर व्यापी
Overleaf	दूसरे पृष्ठ पर
Overloading	अधिक लादना
Overlook	उपेक्षा करना
Overnight stay	रात्रिवास
Over payment	अधिक भुगतान
Over power	अभिभूत करना, पराजित करना
Overriding decision	अभिभावी विनिश्चय/निर्णय
Over rule	विरुद्ध व्यवस्था देना, अस्वीकार करना
Over run	कुचल डालना
Over seas	समुद्र पार
Overseas allowance	समुद्र पार भत्ता
Overseas broadcast	विदेश प्रसारण
Overseer	ओवरसियर, सर्वेक्षक
Overshadow	निप्प्रभ कर देना
Overstay	समय से अधिक ठहरना
Overstayal of leave	छुट्टी से अधिक ठहरना
Overstressed	अति प्रतिवलित
Over take	पीछे से आकर पकड़ना
Over time	समयोपरि, अतिकाल
Overtime allowance	समयोपरि/अतिकाल भत्ता
Overtime pay	समयोपरि वेतन
Overture	छेड़खानी; प्रस्ताव
Overture, to make	छेड़खानी करना
Overtum	उलट जाना
Over valuation	अधिमूल्याकन
Devaluation	विमूल्यन
Undervaluation	अवमूल्यन
Over weight	अधिक भार

Over work	अधिक काम करना
Overzealous	अत्युत्साही
Owe	देनदार होना, ऋणी होना
Own	स्वामी होना
Own risk	अपने जीविम पर
Owner	स्वामी
Ownership	स्वामित्व
Owner's risk	स्वामी का जीविम/दायित्व

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Oath of allegiance	निष्ठा-शपथ
Oath of office	पद-शपथ
Oath of secrecy	गूढता-शपथ
Observance and performance	पालन एवं निष्पादन
Observe punctuality	समय-पालन करना
Obvious meaning	स्पष्ट अर्थ
Of a formal character	जीपचारिक स्वरूप का
Of any description	किसी भी प्रकार का
Of a public character	सार्वजनिक रूप का
Of a routine nature	नैतिक स्वरूप का
Offence punishable in accordance with law	विध्यनुकूल दण्डनीय अपराध
Offensive expression	अप्रिय वचन, आवेष-वचन
Office accomodation	कार्यालय-स्थान
Office, duties of	पद के कर्तव्य
Office of profit	लाभप्रद
Official communication	शासकीय सूचना
Official function, in the discharge of	(अधिकारी) सरकारी कृत्यों के निर्वहन में
Official purpose	राजकीय प्रयोजन

Official secrets	राजकीय गोपनीय (गुह्य) वार्ता
Official statement	सरकारी वक्तव्य
Officially recognized	राज्य द्वारा अभिज्ञात/मान्य
Officiating service	स्थानापन सेवा
Of the kind mentioned in	में वर्णित प्रकार का
Old age pension	वार्षिक्य (वृद्धावस्था) का निवृत्ति वेतन,
Omission, accidental	आकस्मिक भूल
On account of	के कारण से
On approved	अनुमोदनार्थ
On ceasing to hold office	पद न रहने पर
On grounds of	के आधार पर
On merits	गुणदोष पर, गुणावगुण पर
Operational costs	कार्य-परिव्यय, परिचालन-व्यय
Opportune time	उपयुक्त समय
On reasonable grounds	युक्तिसंगत आधार पर
On such terms and conditions as he thinks fit	ऐसे निवन्धनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे
On relief by	के द्वारा भारावमुक्त/कार्य-भार से मुक्त होने पर
On the advice of	की मंत्रणा पर, के परामर्श पर, की सलाह से
On the contrary	इसके प्रतिकूल
On the grounds of seniority	श्रेष्ठता के आधार पर
On the line of	के आधार पर, के समान
On the whole	सामान्यतः
On their, own initiative	स्वयं ही
One year's completed service	एक वर्ष की सपूरित सेवा
Operative part	प्रवर्ती अंश, क्रियात्मक अंश
Opportunity, at the earliest	यथाशीघ्र
Order, in good	मुव्यवस्थित
Owner's risk, at	स्वामी दायित्व पर, मालिक की जिम्मेदारी पर

Over work	अधिक काम करना
Overzealous	अत्युत्साही
Owe	देनदार होना, ऋणी होना
Own	स्वामी होना
Own risk	अपने जोखिम पर
Owner	स्वामी
Ownership	स्वामित्व
Owner's risk	स्वामी का जोखिम/दायित्व

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Oath of allegiance	मिल्डा-शपथ
Oath of office	पद-शपथ
Oath of secrecy	गूढ़ता-शपथ
Observance and performance	पालन एवं निष्पादन
Observe punctuality	समय-पालन करना
Obvious meaning	स्पष्ट अर्थ
Of a formal character	आंगचारिक स्वरूप का
Of any description	किसी भी प्रकार का
Of a public character	सार्वजनिक रूप का
Of a routine nature	नैत्यिक स्वरूप का
Offence punishable in accordance with law	विध्यनुकूल दण्डनीय अपराध
Offensive expression	अप्रिय वचन, आक्षेप-वचन
Office accomodation	कार्यालय-स्थान
Office, duties of	पद के कर्तव्य
Office of porfit	लाभप्रद
Official communication	शासकीय सूचना
Official function, in the discharge of	(अधिकारी) सरकारी कृत्यों के निर्वहन में
Official purpose	राजकीय प्रयोजन

Official secrets	राजकीय गोपनीय (गुह्य) वार्ते
Official statement	सरकारी वक्तव्य
Officially recognized	राज्य द्वारा अभिज्ञात/मान्य
Officiating service	स्थानापन सेवा
Of the kind mentioned in	में वर्णित प्रकार का
Old age pension	वार्धक्य (वृद्धावस्था) का निवृत्ति वेतन,
Omission, accidental	आकस्मिक भूल
On account of	के कारण से
On approved	अनुमोदनार्थ
On ceasing to hold office	पद न रहने पर
On grounds of	के आधार पर
On merits	गुणदोष पर, गुणावगुण पर
Operational costs	कार्य-परिव्यय, परिचालन-व्यय
Opportune time	उपयुक्त समय
On reasonable grounds	युक्तिसंगत आधार पर
On such terms and conditions as he thinks fit	ऐसे निवन्धनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे
On relief by	के द्वारा भारावमुक्त/कार्य-भार से मुक्त होने पर
On the advice of	की मत्रणा पर, के परामर्श पर, की सलाह से
On the contrary	इसके प्रतिकूल
On the grounds of seniority	श्रेष्ठता के आधार पर
On the line of	के आधार पर, के समान
On the whole	सामान्यता.
On their, own initiative	स्वयं ही
One year's completed service	एक वर्ष की समूर्ति सेवा
Operative part	प्रबर्ती अंश, क्रियात्मक अंश
Opportunity, at the earliest	यथाशीघ्र
Order, in good	सुव्यवस्थित
Owner's risk, at	स्वामी दायित्व पर, मालिक की जिम्मेदारी पर

Over work	अधिक काम करना
Overzealous	अत्युत्साही
Owe	देनदार होना, ऋणी होना
Own	स्वामी होना
Own risk	अपने जोखिम पर
Owner	स्वामी
Ownership	स्वामित्व
Owner's risk	स्वामी का जोखिम/दायित्व

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Oath of allegiance	निष्ठा-शपथ
Oath of office	पद-शपथ
Oath of secrecy	गृहता-शपथ
Observance and performance	पालन एवं निष्पादन
Observe punctuality	समय-पालन करना
Obvious meaning	स्पष्ट अर्थ
Of a formal character	अपेक्षाकृत स्वरूप का
Of any description	किसी भी प्रकार का
Of a public character	सार्वजनिक रूप का
Of a routine nature	नैतिक स्वरूप का
Offence punishable in accordance with law	विध्यनुकूल दण्डनीय अपराध
Offensive expression	अप्रिय वचन, आक्षेप-वचन
Office accommodation	कार्यालय-स्थान
Office, duties of	पद के कर्तव्य
Office of profit	लाभप्रद
Official communication	शासकीय सूचना
Official function, in the discharge of	(अधिकारी) सरकारी कृत्यों के निर्वहन में
Official purpose	राजकीय प्रयोजन

Official secrets	राजकीय गोपनीय (गुह्य) वार्ता
Official statement	सरकारी घोषणा
Officially recognized	राज्य द्वारा अभिभावत/मान्य
Officiating service	स्थानापन्न सेवा
Of the kind mentioned in	में वर्णित प्रकार का
Old age pension	वार्षिक वृद्धावस्था का निवृत्ति वेतन,
Omission, accidental	आकस्मिक भूल के कारण से
On account of	अनुमोदनार्थ
On approved	पद न रहने पर
On ceasing to hold office	के आधार पर
On grounds of	गुणदोष पर, गुणावगुण पर
On merits	कार्य-परिव्यय, परिचालन-व्यय
Operational costs	उपयुक्त समय
Opportune time	युक्तिसंगत आधार पर
On reasonable grounds	ऐसे निवन्धनों और शर्तों के साथ जिन्हे वह उचित समझे
On such terms and conditions as he thinks fit	के द्वारा भारावमुक्त/कार्य-भार से मुक्त होने पर
On relief by	की भवणा पर, के परामर्श पर, की सलाह से
On the advice of	इसके प्रतिकूल श्रेष्ठता के आधार पर
On the contrary	के आधार पर, के समान सामान्यतः
On the grounds of seniority	स्वयं ही
On the line of	एक वर्ष की संपूर्ण सेवा
On the whole	प्रवर्ती अंश, क्रियात्मक अंश यथाशीघ्र
On their, own initiative	मुव्यवस्थित
One year's completed service	स्वामी दायित्व पर, मानिक की जिम्मेदारी पर
Operative part	
Opportunity, at the earliest	
Order, in good	
Owner's risk, at	

P

Pace	प्रगति
Pace of industrialisation	उद्योगीकरण की प्रगति
Pack	बौधना
Packed meal	डिल्वाब्रेंड भोजन
Packing paper	बौधने का कागज
Pact	सन्धि, समझौता
Paid	भुगतान किया हुआ, प्रदत्त
Paid apprentice	संवेदन उम्मीदवार/शिशिक्षु
Paid up capital	प्रदत्त पूँजी
Painted	चित्रित
Painter	रंगसाज
Painting	रंग करना, चित्रण
Palace	प्रासाद, महल
Palace guards	प्रासाद रक्षी
Pamphlet	पुस्तिका
Panel	नामिका
Panel of experts	विशेषज्ञ नामिका
Panel of presiding members	अध्यक्ष सदस्य नामिका
Panelled door	दिल्हेदार दरवाजा
Panic	आतक, घबड़ाहट
Papal state	पोप राज्य
Paper	कागज, पत्र
Paper for disposal	निःस्तारणार्थ पत्र
Paper money	कागजी मुद्रा
Paper technology	कागज-शिल्प
Paper tracing	अक्सर करने का कागज
Paper under consideration	विचाराधीन पत्र
Par	सममूल्य, अकित मूल्य
Par, above	अधिमूल्य पर

Par, at	समसूत्य पर, अंकित सूत्य पर
Par, below	अवसूत्य पर
Par of exchange	विनिमय मूल्य
Parable	दृष्टांत कथा
Parade	परेड
Paradox	विरोधाभास
Paradoxical	विरोधाभासी
Paragraph	पैराग्राफ, प्रस्तर
Parallel	समान्तर, समानान्तर
Parallel case	समान मामला
Paralysis	लकवा, फालिज
Parapet	प्रावार
Parasite	परजीवी, पराश्रयी
Parasite carrier	परजीवी वाहक
Parcel post	पासेल डाक
Pardon	शमा करना; शमा
Amnesty	सर्वेक्षणा, शमाघोषणा
Parent	मूल; माता-पिता
Parent escate	मूल मम्पती
Parent battalion	मूल बटालियन
Parentage	जनकता
Parental	पैतृक
Parental authority	पैतृक प्राधिकार
Parental care	पैतृक देख-रेख
Parental influence	पैतृक प्रभाव
Par-excellence	थ्रेष्ठ, उत्कृष्ट
Paripassu	समरूप
Parity	समता, समानता, वरावरी
Parity principle	समानता सिद्धान्त
Park	पार्क, गाड़ी खड़ी करना
Parking place	गाड़ी-स्थान
Parley	सन्धिवार्ता
Parliament	संसद
Parliamentary	संसदीय
Parliamentary affairs	संसदीय कार्य

Partner	भागी, साझेदार
Partner active	सक्रिय साझेदार
Partner sleeping	निपिक्षय साझेदार
Partnership	भागिता, साझा
Partnership limited	सीमित भागिता
Partnership unlimited	असीमित भागिता
Pass	पासिंग करना, उत्तीर्ण होना, मुजरता; दर्द, प्रवेशपत्र
Pass account	लेया पारित करना
Pass book	पास-बुक
Pass free	मुफ्त/निःशुल्क प्रवेशपत्र
Pass, mountain	पहाड़ी दर्द
Pass, railway	रेलवे पास/निःशुल्क यात्रा टिकट
Pass service	पूर्व सेवा
Pass word	सकेत शब्द
Passage	मार्ग, गती; अंश; यात्रा
Passage, right of	मार्गाधिकार
Passage money	यात्रा खर्च/व्यय
Passenger	यात्री, मुसाफिर
Passenger guide	यात्री-सहायक
Passenger train	सवारी गाड़ी
Passion	भावावेग, आवेग
Passive	निपिक्षय, अकर्मण्य
Passive resistance	निपिक्षय विरोध, सत्याग्रह
Passport	पारपत्र, पासपोर्ट
Visa	वीजा
Pasture land	चरागाह
Patch up	जोड़ लगाना
Patch up difference	भेद मिटाना
Patent	एकस्व, पेटेंट; प्रत्यक्ष
Patent defects	प्रत्यक्ष दोष
Patent right	एकस्व अधिकार
Path	पथ, मार्ग
Patience	धैर्य
Patrimony	पितृदाय, वपीती

Patriotism	देश-भक्ति
Allegiance	राजनिष्ठा
Loyalty	पक्षादीते, भक्ति, राज्य/सामिभक्ति
Patrol	पत्र, पहुंच देना
Patrol, night	रात की पत्र
Patron	मरणक
Patronage	प्राप्ति, मरण
Pattern	रूप, डॉपा, प्रतिकृति, प्रतिष्ठा
Model	प्रतिमान, निरन्तर
Specimen	नमूना, प्राइवेट
Pauper	अक्षिपन
Pauper suit	अक्षिपनवाद
Pauperis, in forma	अक्षिपन के रूप में
Pawn	बाह, आधि
Pledge	गिरजी
Deposit	परोहर, स्थाप्त
Mortgage	बन्धक
Pay	वेतन
Pay, advance	आग्रह वेतन
Pay, basic	मूल वेतन
Pay bill	वेतन बिल
Pay day	वेतन-दिवस
Pay fixation	वेतन-निर्धारण
Pay, fixed	नियत वेतन, निर्धारित वेतन
Pay, head	वेतन शीर्षक/मद
Pay, overseas	समुद्र पार वेतन
Pay, personal	वैयक्तिक वेतन
Pay, presumptive	कल्पित वेतन
Pay roll	वेतन पत्रक, वेतन चिट्ठी
Pay, special	विशेष वेतन
Pay, substantive	मौतिकपद-वेतन
Pay, time scale	समयमान वेतन
Payable	देय
Payee	रप्ता पानेथाला
Payer	भुगतानकर्ता

Paying capacity	भुगतान क्षमता
Payment	भुगतान, अदायगी
Payment conditional	संप्रतिवन्ध भुगतान
Payment non	गैर-अदायगी
Payment order	भुगतान आदेश
Payment over	अधिक अदायगी/भुगतान
Payment in due course	यथा समय भुगतान
Payment in kind	जिस अदायगी
Peace	शांति
Peace and security	शांति और सुरक्षा
Peace breach of	शांति-भ्रग
Peace breaker	शांति-भंजक
Peace negotiations	शांतिवार्ता
Peaceful	शांतिपूर्ण
Peaceful action	शांतिपूर्ण कार्यवाही
Peak	शिखर, चोटी; अधिकतम, व्यस्ततम
Peak period	व्यस्ततम काल
Peak power	अधिकतम शक्ति
Peak traffic	अधिकतम यातायात
Peasant	किसान
Peasantry	किसान वर्ग
Pecuniary	आर्थिक, धन-सम्बन्धी
Pedagogy	अध्यापन विज्ञान
Pedigree	वंशावली
Penal	दण्ड-सम्बन्धी, दण्ड-
Penal action	दण्डनीय कार्य
Penal code	दण्ड संहिता
Penal interest	दण्डस्वरूप व्याज, दण्ड-व्याज
Penal law	दण्डविधि
Penal statute	दण्ड-संविधि
Penalised	दण्डित
Penalty	शास्ति, दण्ड
Penalty clause	शास्ति खण्ड
Penance	तपस्या
Pending	अनिर्ण्यता, विचाराधीन; अनिस्तारित

Pending cases	प्रतिष्ठित वाई
Pending decision	निर्णयाधीन, विनिश्चय दृष्टि तक
Pending work	विस्तारित काम
Penetrating power	वेदना क्षमिता
Penitence	अनुशोदक
Pension	पेंजन, निरुति वेजन
Pension extraordinary	धमापारन देजन
Pension, old age	बुद्धावस्था देजन
Pensionable	पेजन योग्य पेजन-वाहा
Pensionable post	पेजन-न्युन वाह
Pensionary	पेजन सम्बन्धी
Pensionary benefit	पेजन साधन
Pensionary charges	पेजन-सम्बन्धी भार
Pensionary service	पेजनी वेका
Pensioner	पेजन भोकी
Peon	घररामी, पासाराका
Peon book	पासारहु तुरि का
People	लोग
People's verdict	जनता का निष्पंद
Per annum	वार्षिक, प्रतिवर्ष
Per bearer	प्रत्याहृक द्वारा
Per capital	प्रतिव्यक्ति
Per cent	प्रतिशत
Perception	चोप
Perception of time	मास्य-चोप
Peremptory	प्रत्यंपनीय
Perennial	वर्षानुसारी
Perennial stream	वारहमासी चरमा
Perfect	परिपूर्ण, पूर्ण; मुटोल
Perfect figure	पूर्ण आळुति; मुटोल घरीर
Performance	काम; पालन; निषादन
Performance of duty	कर्तव्यपालन
Performance report	निषादन-रिपोर्ट
Period	अवधि, कालावधि
Period free	याली घंटा

Period interim	अन्तरिम अवधि
Periodical	आवधिक; पत्रिका; मासियक
Review	समीक्षिका
Organ	मुख्यपत्र
Magazine	पत्रिका
Periodical inspection	आवधिक/नियतकालिक निरोक्षण
Periodical monthly	मासिक पत्रिका
Periodical return	आवधिक विवरणी
Permanent	स्थायी
Permanent absorption	स्थायी विलयन
Permanent duty	स्थायी ड्यूटी
Permanent establishment	स्थायी अधिष्ठान
Permanent headquarters	स्थायी मुख्यालय
Permanent injunction	स्थायी व्यादेश
Permanent representative	स्थायी प्रतिनिधि
Permanent restriction	स्थायी प्रतिबन्ध
Permanent service	स्थायी सेवा
Permanent settlement	स्थायी घन्दोवस्त
Permanent value	स्थायी मूल्य/महत्व
Permensem	प्रतिमास
Permissible	अनुज्ञेय, अनुमेय
Permission	अनुज्ञा, अनुमति
Permit	परमिट, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञा देना
Permit holder	अनुज्ञाधारी, परामर्शधारी
Perpetual	चिरस्थायी, शाश्वत
Perpetuity, in	हमेशा के लिए
Perseverance	प्रसक्ति
Persistent	निरन्तर, लगातार
Persona designata	नामोदिष्ट व्यक्ति
Persona grata	मान्य/र्वोकार्य व्यक्ति
Persona non grata	बमान्य/अस्वीकार्य व्यक्ति
Personal	वैयक्तिक, व्यक्तिगत, निजी
Personal allowance	वैयक्तिक भत्ता
Personal appearance	वैयक्तिक उपस्थिति
Personal assistant	वैयक्तिक सहायक

Personal contact	ध्यानिका। सम्पर्क
Personal effects	निजी वस्तुएँ
Personal file	वैयक्तिक प्राचारिक
Personal hygiene	निजी स्वास्थ्य विधान
Personal law	ध्यानिका विधि
Personal liberty	ध्यानिका स्वाधीनता
Personal pay	वैयक्तिक घोरन
Personal remark	ध्यानिका आदेश
Personal staff	वैयक्तिक कर्मचारि वर्ग
Personality	ध्यानिका
Personality cult	ध्यानिका-गूढ़ना
Personality test	ध्यानिका-परीक्षण
Personation	प्रतिलिपि, उद्दृष्ट पारण
Personnel	कर्मचारि वर्ग, कार्मिक
Persuade	समझाना, मनाना
Persuasion	अनुग्रह
Pertaining to	-के सम्बन्ध में
Perusal	पढ़ना, परिशोलन
Perusal, for	परिशोलनार्थ
Perverse	पाप, विप्रतीप
Perverse judgement	वाम न्याय
Pessimism	निराननावाद
Optimism	बास्तावाद
Petition	याचिका
Application	आवेदन-प्रय
Representation	अन्यायेदन
Petitioner	प्रार्थी, याची
Petty	छोटा-मोटा, लघु, युदरा
Petty cash	युदरा रोकड़
Petty offence	छोटा अपराध
Petty reparts	छोटी-मोटी मरम्मत
Petty works	लघु निर्माण कार्य
Pharmacy	औषधि निर्माणशाला
Phase	अवस्था, प्रक्रम, एवं
Phased	अवस्था-युक्त, पर्वबद्ध

Phased programmatic	पर्वतय योग्राम/कार्यक्रम
Phenomenon	घटना
Phenomenon natural	नैसर्गिक घटना
Philanthropy	लोकोपकार, मानव प्रेम
Philately	टिकट सकलन
Philosophy	दर्शन-शास्त्र
Physical	भौतिक, शारीरिक
Physical ability	शारीरिक योग्यता
Physical alertness	शारीरिक चुस्ती
Physical balance	भौतिक तुला
Physical barrier	प्राकृतिक ध्वरोध
Physical change	भौतिक परिवर्तन
Physical character	भौतिक लक्षण
Physical check	वस्तुगत पड़ताल
Physical condition	भौतिक अवस्था
Physical culture	शारीरिक विकास
Physical deficiency	शारीरिक कमी
Physical education	शारीरिक शिक्षा
Physical examination	शारीरिक परीक्षा
Physical exercise	शारीरिक व्यायाम
Physical features	भौतिक लक्षण
Physical fitness	शारीरिक आरोग्यता, स्वस्थता
Physical force	शारीरिक बल
Physical geography	प्राकृतिक भूगोल
Physical map	प्राकृतिक मानचित्र
Physical possession	वास्तविक कब्जा
Physical properties	भौतिक गुण
Physical requirements	शारीरिक आवश्यकताएँ
Physical training	व्यायाम शिक्षण
Physical verification	प्रत्यक्ष जाँच, दृष्टुक जाँच, प्रत्यक्ष संहारन
Physiological	शारीरिक्यात्मक
Physiological changes	शारीरिक्यात्मक परिवर्तन
Picket	घरना देना, धरना देने वाले दूरङ्गी

Picketing, peaceful	गांतिरुंग परना
Pick-pocket	जेब चोरा, गिरहूकट
Picnic	पिक्निक, उत्तमिका
Pictorial	प्रिमीय
Pictorial map	माना नक्शा/मानपत्र
Pictorial tour	प्रिमाली पर्यटन
Picture	निम, तस्वीर
Picture transmission	प्रिम प्रेसन
Picemical activity	प्राइड किया
Piece rate	कार्य दर
Piece rate wage	उत्तरत; धूदरे काम की मजूरी
Time wages	अमानी
Piece work	उत्तरती काम
Piece work rate	उत्तरती दर
Piece worker	उत्तरती चारोगर
Piety	धार्मिकता, धर्मनिष्ठा
Pilferage	उत्तराईरी, चोरी
Pilgrim	तोपंचाशी
Pilgrim pass	तोपंचाशी-नाम
Pilgrim tax	तोपंचाशी कर
Pillar	स्तम्भ, सम्भा
Pilot	विमाननालक, पाइलट
Pilot car	पथ-इर्ण गाड़ी
Pilot project	धरमाधी प्रायोजन
Pilot survey	प्रायोजिक सर्वेक्षण
Piracy	ममुदी डर्टी, जल दस्तुरा
Pirate	ममुदी डाकू, जबदस्तु
Pit	गड़ा, गर्त
Pitched roof	ढलवाँ छत
Pivot	घुरी, कीलक
Place:	स्थान
Place effect	स्थान प्रभाव
Place of amusement	आमोद-स्थान
Place of business	ध्यापार-स्थान
Place of destination	गन्तव्य स्थान

Place of occurrence	घटना-स्थल
Place of origin	उद्गम-स्थान
Place of profit	लाभ-पद
Place, worthseeing	दर्शनीय स्थान
Plain	सादा, मैदान
Plain, coastal	तटीय मैदान
Plain clothed	सादी पोशाक में
Plain language	साधारण भाषा
Plaint	वाद, वाद-पत्र
Plaintiff	वादी
Complainant	परिवादी
Defendant	प्रतिवादी
Plan	आयोजना, नियोजन
Project	प्रायोजन
Scheme	योजना
Plan, cut and dried	बैंधी-टकी आयोजना
Plane	समतल
Planner	परियोजनाकार, नियोजनाकार
Planning	नियोजन
Planning, family	परिवार नियोजन
Plant	रोपना, लगाना, पौधा, संयंत्र
Plant and Machinery	संयंत्र और मशीने
Plant disease	पादप रोग
Plant kingdom	वनस्पति जगत
Plant protection	वनस्पति रक्षा
Plantation	वृक्षारोपण; रोपावनी
Plantation tea	चाय-रोपण, चाय के वागान
Planting distance	रोपणात्तर
Play	क्रीड़ा, खेल, चाट
Play back music	प्रतिश्रवण समीत, रिकार्ड समीत
Play ground	खेल का मैदान, क्रीड़ा-स्थल
Play wright	नाटककार
Plea	तकँ, अभिवचन
Pleader	अभिवक्ता, प्लीडर
Pleading	अभिवचन

Pleasure	गुरा; ग्राद
Pleasure and pain	गुरा-दुःख
Pleasure, during the-of	प्रगाढ़ पर्वन्त
Pleasure resort	पिलार-स्पॉट
Plebiscite	जनमत-ग्रन्थ
Pledge	निरवो; निरवो रुक्ता, निरवा करना
Pledges	निरवोकर्ता
Pledged	वधनवद्ध
Plenary	पूर्ण
Plenary conference	समूचे सम्मेतन
Plenary session	समूचे अधिष्ठेन्त/सभा
Plentiful	प्रधुर
Plot	भू-यण्ड; नक्का; पह्यंश
Plumber	नलसार
Ply	पतना
Ply to-vehicles	माढी चलाना
Point	अक, विन्दु; विषय प्रस्तु; स्वत
Point, light	प्रकाश-विन्दु
Point, melting	गमनांक
Point, turning	परावर्तन-विन्दु
Point blank range	अत्यन्त तिक्ट से
Point of determination	अवधारणीय विषय
Point of order	नियम का प्रस्तु, ओचित्य-प्रस्तु
Point of view	दृष्टिकोण
Point, traffic	यातायात स्थल
Poise	संतुलन
Poison	दिप
Poisonous	विषेशा, विषाक्त
Poisonous gas	विषेशी गैस
Police	आरक्षी/पुलिस
Police force	पुलिस-बल, आरक्षी बल
Police state	पुलिस राज
Policy	नीति; बीमा
Policy, cheap money	अल्प व्याज-उधार नीति

Policy, matured	परिपक्व पालिसी
Policy maker	नीति विधायक
Policy of assimilation	आत्मसात् नीति
Policy of non-alignment	गुट में सामिल न होने की नीति
Politbureau	पोलिट ब्यूरो
Politeness	नम्रता, विनय
Political	राजनीतिक
Political advisor	राजनीतिक सलाहकार/परामर्शी
Political agent	राजनीतिक अभिकर्ता/एजेण्ट
Political agitation	राजनीतिक आन्दोलन
Political appointment	राजनीतिक नियुक्ति
Political asylum	राजनीतिक शरण
Political awakening	राजनीतिक जागरण
Political bargain	राजनीतिक सीदेवाजी
Political consciousness	राजनीतिक चेतना
Political correspondent	राजनीतिक संवाददाता
Political deadlock	राजनीतिक गतिरोध
Political developments	राजनीतिक घटनाएं
Political fugitive	राजनीतिक भगोड़ा
Political independence	राजनीतिक स्वाधीनता
Political issue	राजनीतिक प्रश्न/समस्या
Political obligation	राजनीतिक वाध्यता/दायित्व
Political offence	राजनीतिक धपराध
Political office	राजनीतिक पद
Political refugee	राजनीतिक शरणार्थी
Political rights	राजनीतिक अधिकार
Political sanction	राजनीतिक प्रतिबन्ध/पावन्दी
Political science	राजनीति-विज्ञान
Political unrest	राजनीतिक अशान्ति
Politics	राजनीति
Polity	राज्यतन्त्र, राज्य
Poll	मत-गणना, मतदान, वोट डालना
Polling	मतदान
Polling agent	मतदान अभिकर्ता
Polling booth	मतदान केन्द्र

Polling station	पोलिंग स्थान
Polluted	दूषित, कनुचित
Polluted water	दूषित जल
Polyandry	वरुणतित्व, वरुणति-प्रथा
Polygamy	यहु विवाह
Monogamy	एक विवाह
Pool	समुच्चय, निकाय
Pool of experts	विदेशी निकाय
Pooled vehicles	संयुक्त गाड़ियाँ
Poor	निर्धन; मन्द
Poor visibility	अत्यधून्यता
Popular	सौक्रिय
Popular leader	सौक्रिय नेता
Popular vote	जनता द्वारा मतदान
Population	जनसंख्या, जाबादी
Population, density of	बाबादी की संपत्ति
Population, rural	शासी जनता
Post	पत्रन, वन्दरगाह
Post dues	पत्रनदेव
Post free	पुता पत्रन
Portable	सुवाहु
Portable set	सुवाहु सेट
Portable type writer	सुवाहु टाइपराइटर
Porter	भारिक
Portfolio	कार्य भाग, संविभाग
Portico	पोटिको
Portion	भाग, घण्ड
Portrait	रूपचित्र, अनुकृति
Portrait figure	प्रतिमा
Pose	मुद्रा
Position	प्रवस्थिति; प्रतिष्ठा
Situation	स्थिति
Circumstance	परिस्थिति
Position, awkward	बेढ़व स्थिति
Position, correct	गुड़ स्थिति

Position, insecure	अस्थिर स्थिति
Position, intermediate	मध्यवर्ती स्थिति
Position, winding	विजय-स्थिति
Position, man of	प्रतिष्ठित व्यक्ति
Positive	सकारात्मक, निश्चित, स्वीकारात्मक, धनात्मक
Positive aspect	सकारात्मक पदा
Positive charge	धनात्मक धावेश (विद्युत)
Positive evidence	सकारात्मक साक्ष्य
Negative	नकारात्मक
Positively	निश्चित रूप से
Possession	कब्जा, भोग
Possession forcible	वसपूर्वक कब्जा
Possession infact	वास्तविक कब्जा
Possession symbolic	साकेतिक कब्जा
Possession undisturbed	निविज्ञ कब्जा
Possessions	धन, सम्पत्ति
Possessor	कालिक्ति
Possibility	सभावना
Possible	ममव
Practical	ध्यायकारिक
Practicable	व्यवहाय, साध्य
Possibly	तम्हतः
Post	पद, डाक, घोंकी
Post, control	नियन्त्रण घोंकी
Post, non-selection	प्रवरणेतर पद
Post, pensionable	पेशनी पद
Post, permanent	स्थायी पद
Post, regular	नियमित पद
Post, reserved	वारधारी पद
Post, retention of	पद वरकरेतर रखना
Post, selection	प्रवरणन्तर
Post, substantive	मानिक, मूल पद
Post, temporary	स्थायी पद
Post, unreserved	प्रारंभिक पद

Post, vacant	रिक्त पद
Postage prepaid	पूर्वदत्त डाक-भार
Postal	डाक-मशीथी
Postal address	डाक-न्यता
Postal article	डाक-वस्तु
Postal certificate	डाक-प्रमाण-पत्र
Postal concession	डाक-रिभायत
Postal facilities	डाक-गुणिधार्ते
Postal matters	डाक-मामले
Post bag	डाक-बैग
Post box	डाक-बॉक्स
Post copy	डाक-प्रतिलिपि
Post dated	उत्तर दिनांकित
Antedated	पूर्व दिनांकित
Post graduate	स्नातकोत्तर
Poster	इश्टहार, विज्ञापन
Poster pictorial	राजिन विज्ञापन
Post facto	कार्योत्तर
Post sanction	कार्योत्तर स्वीकृति
Posthumous	मरणोत्तर
Posting	तंत्राती; प्रेरणा; प्रविष्टि
Posting of an entry	प्रविष्टि करना
Posting of figures	अक दर्ज करना
Posting order	तंत्राती थादेग
Post meridian	बपराह्न
Post mortem examination	शव-परीक्षा
Post natal	जन्मोत्तर
Postpone	स्थगित करना
Postponement	स्थगन
Postscript	पुनर्श्व, पश्च लेख
Post war scheme	युद्धोत्तर योजना
Postulate	अभिधारणा
Posture	आसन, स्थिति
Posture, correct	समुच्चित आसन
Posture, sitting	आसीन आसन

Potential	सभाव्य
Potential enemy	सभाव्य शत्रु
Potential marksman	होनहार निशानेवाज
Potentiality	संभाव्यता
Potter	कुम्हार
Pottery	मिट्टी के बर्तन, मूर्तिका-भाण्ड
Poultry	कुकुट-पालन
Power	शक्ति, सामर्थ्य, अधिकार, विद्युत्
Power driven	वत्रचालित
Power, electric	विद्युत् शक्ति
Power failure	विजली चली जाना
Power, general	सामान्य शक्ति
Power house	विजलीघर
Power, motive	चालन शक्ति
Power of appointment	नियुक्त अधिकार
Power of attorney	मुख्तारनामा
Power of reasoning	तर्क शक्ति
Power output	शक्ति उत्पादन
Power plant	शक्ति संयंत्र
Power pressure	दबाव
Practicable	व्यवहार्य
Practical	व्यावहारिक
Practical application	व्यावहारिक उपयोग
Practical chemistry	प्रायोगिक रसायन
Practical duty	व्यावहारिक कर्तव्य
Practical examination	क्रियात्मक परीक्षा
Practice	अभ्यास; व्यवहार; पदति
Practice legal	वकालित
Practice medical	चिकित्सा व्यवसाय, डाक्टरी पेशा
Prayer	प्रार्थना
Preadaptation	पूर्वानुकूलन
Preadolescent	प्राइमिशोर
Preamble	प्रस्तावना
Foreword	प्रारक्षण
Introduction	भूमिका

Preface	आमुष
Pre-arranged	पूर्व असंधान
Pre-arranged meeting	पूर्व असंधित मिलन/मीटिंग
Pre-audit	प्रारोपा-पूर्व
Precarious	अविभिन्नता, असाकाश
Precarious condition	असाकाश हास्य
Precarious financial position	अविभिन्न वित्तीय स्थिति
Precaution	पूर्वोत्तरण, प्रहितान
Precautionary measures	पूर्वोत्तरण
Precedence	पूर्वता, अवश्य
Precedence, order of	अवश्यता/पूर्वता-क्रम
Precedence, warrant of	अवश्यता/पूर्वता अधिष्ठित
Precedent	पूर्वोत्तरण, दृष्टान्त
Preceding	पूर्वान्तर, पूर्वांगी
Pre-censorship	पूर्व सेन्चर
Precious	चट्टमूल्य
Precious metal	चट्टमूल्य धातु
Precious stone	रत्न
Precinct	उपात, उपांडी
Precis	गार लेख
Precis writing	नक्षिप्त लेखन, सार सेधन
Precise	टीक-ठीक, वर्णाय
Precise meaning	टीक-ठीक अर्थ
Precise statement	वर्णायं कथन
Precision	भूजगता, वर्णायना
Preclude	रोकना, वाधक होना
Precondition	पूर्व शर्त, पूर्वपाल्य सत्त्व
Predecessor	पूर्वाधिकारी, पूर्ववर्ती
Predecessor in office	पूर्व वदाधिकारी
Predecessor in title	आगम, पूर्ववर्ती
Pre-determined	पूर्व निर्धारित, पूर्व अवधारित
Predicate	विद्येय
Predictable	पूर्व कथनीय
Prediction	भविष्य कथन, पूर्व कथन, प्रागुक्ति
Predispose	पूर्व वृत्ति

Predisposition	पूर्व वृत्ति, पूर्वानुकूलता
Predominant	प्रधान, प्रबल
Pre-emption	हक्षणफा, पूर्व प्रय
Pre-emption right of	पूर्व क्षमाधिकार, हक्षणफा
Pre-existence	प्राचीनता
Pre-existing rights	पूर्ववर्ती पत्थर
Preface	प्रस्तावना, प्रावक्यन
Prefer	अधिमान देना वरीयता देना, प्रमुख करना
Prefer an appeal	अपील करना
Preference	अधिमान, वरीयता
Preferable	अधिमान्य
Preferential	अधिमान्य
Prefix	उपसर्ग; पहले जोड़ना
Pregnant	गर्भवती; से भरा
Pregnant woman	गर्भवती मही
Pregnant with meaning	अर्थपूर्ण
Prehistoric	प्रारंतिहासिक
Prehistoric man	प्रारंतिहासिक मानव
Prejudice	प्रतिकूल प्रभाव, विपरीत प्रभाव; पूर्वाप्रह
without prejudice to the generality	-की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले दिना
Prejudicial	प्रतिकूल, हानिकर
Prejudicial to interest	हितों के प्रतिकूल
Prejudicial to public safety	सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हानिकर
Prejudicially	प्रतिकूलता:
Preliminary	प्रारम्भिक, प्रार्थमिक
Preliminary action	प्रारम्भिक कार्यवाही
Preliminary arrangement	प्रारम्भिक तैयारी
Preliminary examination	प्रारम्भिक परीक्षण
Preliminary report	प्रारम्भिक रिपोर्ट
Premature	समयपूर्व, अकाल
Premature death	अकाल मृत्यु
Premature disclosure	समय-पूर्व बताना
Premeditated	पूर्वचित्तित

Premeditated murder	पूर्वचित्ति/पूर्वकल्पित हत्या
Premier	प्रधान, प्रमुख
Premises	परिसर
Premium	अधिमूल्य
Premium at	अधिमूल्य पर
Prepage	पूर्व पृष्ठ
Premonition	पूर्वभास, पूर्व सूचना
Premonitory	पूर्वसूचक
prepaid	पूर्वदत्त
Preparation	तैयारी
Preparation leave	परीक्षा-तैयारी की छुट्टी
Preparatory	प्रारम्भिक
Preparatory to retirement	निवृत्ति-पूर्व अवकाश
Preparatory work	प्रारम्भिक कार्य
Prepartition	विभाजन-पूर्व
Preplanned	पूर्व आयोजित, पूर्वयोजित
Preposterous	अयुक्तिक
Prerogative	परमाधिकार
Privilege	विशेषाधिकार
Right	अधिकार
Prescribe	विहित करना
Prescribed	विहित, नियत
Decreed	आज्ञात
Prescribed course	नियत पाठ्यक्रम
Prescribed form	विहित प्रपत्र
Prescribed procedure	नियत प्रक्रिया
Prescribed scale of pay	विहित वेतन-मान
Present	उपस्थित; भेट, उपहार; वर्तमान
Present	उपस्थापित करना, समझ रखना
More	प्रस्तुत करना
Introduce	पुरस्थापित करना
Present position	वर्तमान स्थिति
Presentation	प्रस्तुति; भेट
Presentation copy	उपहार प्रति
Presentation of bill	विल पेश करना

Presentation of documents	दस्तावेजों की प्रस्तुति
Preservation	संरक्षण
Preservation of peace	शांति-संरक्षण
Preservation of records	अभिलेख संरक्षण
President	सभापतित्व करना, अध्यक्ष होना
President	अध्यक्ष, सभापति, राष्ट्रपति
Presiding judge	अध्यक्ष न्यायाधीश
Presiding member	अध्यक्ष सदस्य
Presiding officer	पीठासीन अधिकारी, मतदान अध्यक्ष (चुनाव में)
Press	मुद्रणालय, प्रेस
Press attache	प्रेस सहचारी
Press communique	प्रेस विज्ञप्ति
Press conference	प्रेसकार सम्मेलन
Press copy	मुद्रण प्रति
Press cutting	समाचार-पत्र की कतरन
Press correspondent	प्रेस सम्बाददाता
Press facilities	प्रेस सुविधाएं
Press handout	प्रेस-पत्रक
Press matter	प्रकाश्य सामग्री, प्रेस सामग्री
Press note	प्रेस नोट, प्रेस ज्ञापनी
Press party	पत्रकार दल
Press reaction	समाचार-पत्र प्रतिक्रिया, अखबारी प्रतिक्रिया
Press release	प्रकाश्या
Press representative	पत्र-प्रतिनिधि
Pressure	दबाव
Pressure social	समाज का दबाव
Pressure treatment	दबाव उपचार
Presumption	प्रकल्पना, पूर्ब-आरणा
Inference	अनुमान
Presumptive	प्रकल्पित
Presumptive heir	प्रकल्पित वायाद
Presumptive pay	प्रकल्पित वेतन
Presumptive proof	प्रकल्पित प्रमाण

Presupposed	पूर्व कल्पित
Pretext	वहाना, आश्रम
Prevail	प्रचलित होना, अभिभावी होना
Prevalence of disease	रोग-व्यापकता
Prevalent	प्रचलित
Prevent	रोकना
Preventable	निवार्य
Prevention	निवारण
Preventive	निवारक
Cure	रोगोपशम
Remedy	उपचार; प्रतिसमाधान
Preventive action	निवारक कार्यवाही
Preventive detention	निवारक निरोध, निवारक नज़ारा
Preventive justice	निवारक न्याय
Preventive measure	निवारक उपाय
Preventive medicine	निवारक चिकित्सा
Preview	पूर्व दर्शन
Previous	गत, पूर्व, पिछला
Previous sanction	पूर्व स्वीकृति
Previous service	पूर्व/पिछली सेवा
Previous year	गत वर्ष
Price	मूल्य
Price, actual	वास्तविक मूल्य
Price, average	औसत मूल्य
Price, controlled	नियंत्रित मूल्य
Price, fair	उचित मूल्य
Price fluctuation	तेजी-मन्दी
Price index	मूल्य-सूचक
Price level	मूल्य-स्तर
Price list	मूल्य-सूची
Price, market	बाजार मूल्य
Price, normal	सामान्य मूल्य
Price, retail	फुटकर मूल्य
Price structure	मूल्य-ढाँचा
Price variation	मूल्य में उत्तर-चढ़ाव, मूल्य उच्चाव

Pride	गर्व
Prima facie	प्रत्यक्षतः, प्रथम दृष्टि
Prima facie case	प्रथम दृष्टि मे प्रतीत मामला, प्रथम दृष्टि-अभियोग
Prima facie evidence	प्रथम दृष्टया साक्ष्य
Primary	प्राथमिक, मुख्य
Primary education	प्राथमिक शिक्षा
Primary election	प्राथमिक निर्वाचन
Primary evidence	प्राथमिक साक्ष्य
Primary interest	प्राथमिक हित
Primary meaning	मुख्य अर्थ
Primary receipt	प्राथमिक रसीद
Primary selection	प्राथमिक चुनाव
Primary trait	प्राथमिक लक्षण
Prime	प्रधान, मुख्य
Prime Minister	प्रधान मंत्री
Primitive	आदिम, आदि
Primitive habitation	आदिम बस्तियाँ
Principal	मुख्य, प्रधान
Principal apartment	मुख्य स्थान
Principal officer	मुख्य अधिकारी
Principle	सिद्धान्त
Precept	दीक्षा, उपदेश
Doctrine	मत, आदेशना
Printer	मुद्रक
Printing and stationary	मुद्रण तथा लेखन सामग्री
Prior claim	पूर्व दावा
Priorities	पूर्वता/अग्रता-क्रम
Priority	पूर्वता, अप्रता
Priority, high	उच्च पूर्वता
Priority indication	पूर्वता निर्देश
Priority list	पूर्वता सूची, अप्रता सूची
Priority programme	अग्रता कार्यक्रम
Prison	कारागार केदखाना
Prisoner	बन्दी, कैदी,

Convict	सिद्ध दोष
Captive	बंदी
Culprit	अभियुक्त
Prisoner of state	राजवन्दी
Prisoner of war	युद्ध-बन्दी
Private	निजी, व्यक्तिगत; अशासकीय
Private accommodation	गृह-वास
Private affair	निजी मामला/कार्य
Private bill	गैर-सरकारी विधेयक
Private company	गैर-सरकारी कम्पनी
Private defence	आत्म-प्रतिरक्षा
Private gain	निजी लाभ
Private life	व्यक्तिगत जीवन
Private practice	निजी प्रैक्टिस
Private property	निजी सम्पत्ति
Private residence	निजी निवास
Private sector	गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र
Private student	गृह-पाठी छात्र
Private talk	व्यक्तिगत वार्ता
Private tuition	गृह-शिक्षण
Private ward	निजी कक्ष
Privilege	विशेषाधिकार
Prerogative	परमाधिकार
Right	अधिकार
Privilege breach of	विशेषाधिकार-भंग
Privilege leave	विशेषाधिकार छुट्टी
Privilege ticket order	चुविधा-टिकट आदेश, पी० टी० ओ०
Privy purse	निजी राशि
Privy seal	राज-मुद्रा
Prize	पुरस्कार; नौजित माल
Reward	पारितोषिक
Honorarium	मानदेय
Prize goods	नौजित माल
Prize money	विजित धन

Prize scheme	पुरस्कार योजना
Probability	संभावना
Probable	संभाव्य
Probable cause	संभाव्य कारण
Probable error	संभाव्य भूल
Probate	मन्त्रमाला, इच्छापत्र
Probation	परिवेक्षा
Probation officer	परिवेक्षाधीनी
Probation, on	परिवेक्षा क्षात्र
Probation period	परिवेक्षाधीन
Probationary	परिवेक्षाधीन सेवा
Probationary service	जाँच करना
Probing	समस्या
Problem	समस्या बालक
Problem child	व्यावहारिक समस्या
Problem, practical	प्रक्रिया-
Procedural	प्रक्रिया अधिनियम
Procedural act	प्रक्रिया-सम्बन्धी मामले
Procedural matters	प्रक्रिया
Procedure	तरीका विधि
Method	कार्यवाही/कारंवाई
Proceedings	आयु; प्राप्ति; उत्पादन
Proceeds	आदेशिका, प्रक्रियावद करना
Process	आदेशिका-शुल्क
Process fee	विधि-श्रम
Process of law	आदेशिका-वाहक
Process server	जुनूस, शोभा-यात्रा
Procession	प्रतिकुलपति
Pro-chancellor	प्रति-उपकुलपति
Pro-vice-chancellor	उद्घोषित करना
Proclaim	उद्घोषित
Proclaimed	उद्घोषित अपराधी
Proclaimed offender	घोषणा, उद्घोषणा
Proclamation	घोषणा
Announcement	

Broadcasting	प्रसारण
Proclamation of emergency	आपात-घोषणा
Proctor	कुलानुशासक, नियन्ता
Proctorial board	नियन्ता मण्डल
Procure	प्राप्त करना
Procurement	प्राप्ति, बमूली
Prodigal	अतिव्ययी, अपव्ययी खर्चीला; उदार
Prodigy	विलक्षण प्रतिभाशाली
Produce	उपज, उत्पत्ति, उत्पन्न करना, प्रस्तुत करना
Producers	उत्पादक, निर्माता
Producing countries	उत्पादक देश
Product	उपज, निर्मित पदार्थ
Product, by	गौण उत्पादन
Product of thinking	विचार-फल
Production	उत्पादन, प्रस्तुति
Production, large scale	बड़े पैमाने पर उत्पादन
Production, medium scale	मध्य पैमाने पर उत्पादन
Production, optimum	इष्टतम उत्पादन
Production, over	अत्युत्पादन
Production, small scale	छोटे पैमाने पर उत्पादन
Production, technique of	उत्पादन तकनीक
Production, under	न्यूनोत्पादन
Production control	उत्पादन नियन्त्रण
Production efficiency	उत्पादन क्षमता
Production work	उत्पादन कार्य
Productive capacity	उत्पादन सामर्थ्य
Productive forces	उत्पादनकारी शक्तियाँ
Productive life	अर्जक/उपयोगी जीवन
Productivity	उत्पादिता
Productivity centre	उत्पादन-केन्द्र
Profane	अद्यार्थिक, अपवित्र
Profess	मानना
Profession	पेशा, व्यवसाय, वृत्ति
Professional	पेशेवर, व्यावसायिक, वृत्तिक

Professional ethics	व्यावसायिक नीतिशास्त्र, व्यवसायीक नीति
Professional examination	व्यावसायिक परीक्षा
Professional institution	व्यावसायिक संस्था
Professional qualification	व्यावसायिक अहंता/योग्यता
Professional trend	व्यावसायिक प्रवृत्ति
Professor	प्राध्यापक, आचार्य, प्रोफेसर
Professor, assistant	सहायक प्राध्यापक
Professor, visiting	आमंत्रित प्राध्यापक
Proficiency	प्रबोधनता, दक्षता
Proficiency certificate	प्रबोधनता-पत्र (प्रमाण-पत्र)
Proficiency test	प्रबोधनता-परीक्षण
Proficient	प्रबोधन, निपुण
Profile	वाह्य रूप-रेखा, पाइरें-रूप, पाइरें-चित्र
Profit	लाभ
Profit and gain	लाभ और लब्धियाँ
Profit and loss account	लाभ-हानि लेखा
Profit, gross	कुल लाभ
Profit, marginal	सीमान्त लाभ
Profit, margin of	लाभ की गुजाइश
Profit, normal	सामान्य लाभ
Profit, windfall	आकस्मिक लाभ
Profitable	लाभदायक, लाभकारी
Profiteering	मुनाफाधोरी
Profligate	चरित्रहीन, दुष्चरित्र
Proforma	निर्दर्श
Proforma account	निर्दर्श-लेखा
Progeny	सन्तति, सन्तान
Prognosis	फलानुमान
Programme	कार्यक्रम
Programme material	कार्यक्रम सामग्री
Programme publicity	कार्यक्रम-विघ्यापन, कार्यक्रम की पूर्व सूचना
Progress	प्रगति
Development	सुधार

Betterment	आमुधार, बच्चाई
Progress chart	प्रगति वाटं, प्रगति-विवरण
Progress report	प्रगति रिपोर्ट
Progressive	प्रगतिशील, वर्धमान, प्रगामी
Progressive development	उत्तरोत्तर विकास
Progressive education	प्रगामी शिक्षा
Progressive improvement	फ्रमिक सुधार
Progressive pay	वर्धमान वेतन
Progressive tax	वर्धमान कर
Progressive total	वर्धमान योग
Progressively	उत्तरोत्तर
Progressus ad infinitum	अनन्त प्रगति
Prohibited	प्रतिपिद
Forbidden	निपिद्धि
Prohibited area	प्रतिपिद्ध क्षेत्र
Prohibited article	प्रतिपिद्ध वस्तु
Prohibited bore	प्रतिपिद्ध बोर
Prohibited goods	प्रतिपिद्ध माल
Prohibited place	प्रतिपिद्ध स्थान
Prohibition	नियेध, मर्य-नियेध, नशावदी
Prohibitory order	नियेधात्मक आदेश, नियेधाज्ञा
Project	प्रायोजना
Plan	आयोजना, नियोजना, परियोजना
Scheme	योजना
Projected	प्रक्षिप्त
Projection	प्रक्षेप
Proletariat	मजदूर कर्ग
Proliferation	प्रोट्रभवन, प्रचुरोद्भवन
Proliferous	बहुजनक
Prolonged	लम्बी
Prolonged illness	लम्बी बीमारी
Prominent	प्रमुख
Prominent person	प्रमुख व्यक्ति
Prominent place	प्रमुख स्थान
Promise	प्रतिज्ञा, वचन

Promise, breach of	प्रतिज्ञा-भग्न
Promissory oath	प्रतिज्ञा-शपथ
Promote	प्रोन्नत करना
Promoter	प्रवर्तक
Promotion	प्रोन्नति; पदोन्नति
Promotion, accelerated	त्वरित पदोन्नति
Promotion, departmental	विभागीय पदोन्नति
Promotion, post	प्रोन्नति पद
Prompt	शीघ्र, तुरन्त
Speedy	द्रृत
Prompt action	शीघ्र कार्यवाही/कारंवाई
Prompt payment	शीघ्र भुगतान
Promptly	सत्त्वर, शीघ्र, तत्क्षण
Promulgate	प्रचारित करना, प्रवर्तित करना
Promulgated	प्रचारित, प्रवर्तित
Promulgated rules	प्रवर्तित नियम
Promulgation	प्रवर्तन, प्रचार
Pronounce	मुनाना, उद्घोषित करना
Pronunciation	उच्चारण
Proof	प्रमाण, प्रूफ
Proof examination	प्रूफ/मुद्रण फलक परीक्षा
Proof, burden of	प्रमाण भार
Prop	टेक
Propaganda	प्रचारण, प्रसारण
Propagandist	प्रचारक
Propagation	प्रचार
Proper	उचित
Proper channel	उचित सरलि; विधिवत्
Proper form	उचित रूप
Proper guidance	उचित मार्गदर्शन
Proper time	उचित समय
Property	सम्पत्ति; गुण-धर्म
Property, characteristic	लाक्षणिक/ विशिष्ट गुण-धर्म
Property, immovable	बचल/स्थावर सम्पत्ति
Property, landed	नू-सम्पत्ति

Property, movable	चल/वस्तुवावर सम्पत्ति
Property, private	निजी सम्पत्ति
Property, public	सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति
Property, tax	सम्पत्ति कर
Propitiation	आराधन, प्रसादन
Proportion	अनुपात
Proportional	आनुपादिक; अनुपाती
Proportionate	आनुपातिक
Proportionate cost	आनुपातिक लागत
Proportionately	अनुपाततः
Proposal	प्रस्ताव
Proposal express	व्यक्त प्रस्ताव
Proposal implied	निहित प्रस्ताव
Proposal form	प्रस्ताव-प्रपत्र
Propose	प्रस्ताव करना, प्रस्तावित करना
Proposed	प्रस्तावित
Proposed staff	प्रस्तावित कर्मचारि वर्ग
Proposer	प्रस्तावक
Proposition	कथन, प्रस्ताव
Proposition statement	प्रस्ताव-विवरण
Proprietary	स्वामिगत, स्वामिक, मालिकाना
Proprietary right	स्वामित्वाधिकार, मालिकाना हक्, स्वामिगत वधिकार
Proprietary title	स्वामिगत स्वत्व, स्वाम्यागम
Proprietor	स्वामी, मालिक
Holder	धारी, धारक
Occupant	अधिकारी, अधिभोक्ता
Keeper	पालक, रक्षक
Proprietorship	स्वामित्व, स्वाम्य
Propriety	औचित्य
Delorum	मर्यादा
Pro rata	अनुपाततः; आनुपातिक
Prorogate	सत्रावसान करना
Prorogation	सत्रावसान
Prorogue	सत्रावसान करना

Adjourn	स्थगित करना
Postpone	प्रास्थगित करना, रोक देना
Pros and cons	पक्ष-विपक्ष, आगा-पीछा
Proscribe	अभिनियिद्ध करना, वाधित करना
Proscribed	अभिनियिद्ध
Proscribed literature	अभिनियिद्ध साहित्य
Proscription	अभिनियिद्ध
Prosecute	अभियोग चलाना, मुकदमा चलाना;
	आगे चलाना
Prosecuted	अभियोजित
Prosecuting inspector	अभियोजन निरीक्षक
Prosecuting state	अभियोजक राज्य
Prosecution	अभियोजन
Prosecution of studies	अध्ययन करना, आगे पढ़ना
Prosecution of war	युद्ध-चालन
Prosecution witness	अभियोग साक्षी
Prosecutor	अभियोक्ता, अभियोजक
Prosody	चन्दःशास्त्र, पिंगल
Prospect	पूर्वेक्षण करना, भविष्य
Prospective	भावी, सभावी
Prospective view	सभावी दृश्य
Prospectus	विवरण-पत्रिका
Prosperity	समृद्धि; वैभव
Prosperity, economic	आर्थिक समृद्धि
Prosperity, industrial	औद्योगिक समृद्धि
Prosperity, national	राष्ट्रीय समृद्धि
Prostrate	भू-शायी
Prostrate, lay	भू-शायी हूआ, जमीन पर लम्बा पड़ना
Protagonist	प्रवक्ता, समर्थक, पक्ष-पोषक
Protect	संरक्षण करना, बचाना
Protected	संरक्षित, सुरक्षित
Protected area	सुरक्षित क्षेत्र
Protector	रक्षक, संरक्षक
Protecting power	रक्षक देश

Protection	वचाव, रक्षा; संरक्षण
Care	अपेक्षा
Protective	रक्षी, सरक्षी
Protective action	संरक्षी क्रिया
Protective clothing	सरक्षी वस्त्र
Protege	रक्षित, आश्रित
Protest	प्रतिवाद करना, विरोध करना
Protest note	विरोध-टिप्पणी, प्रतिवाद-टिप्पणी
Protocol	नभाचार
Protocol officer	नभाचार अधिकारी
Prototype	आदि प्रूप, प्रथम रूप; आदर्श
Protocol statement	अधिकृत कथन
Pro-vice chancellor	प्रति-उपकुलपति
Prove	सिद्ध करना, प्रमाणित करना
Proved	सिद्ध, प्रमाणित
Proverb	लोकोक्ति, कहावत
Provide	व्यवस्था करना, उपबन्ध करना
Provided that	प्रतिबन्ध/शर्त मह है कि
Provident fund	भविष्य-निधि
Providential	दैवी, नियति
Providential escape	दैवी वचाव
Province	प्रदेश, प्रांत
Provincial	प्रादेशिक, प्रान्तीय
Provision	उपबन्ध, शर्त, व्यवस्था, खाद्य वस्तु, रसद
Provision, special	विशेष व्यवस्था
Provision, store	खाद्य वस्तु भण्डार
Provisional	अस्थायी, अनन्तिम
Transitional	संक्रमण कालीन
Interim	अन्तरिम
Provisional admission	अनन्तिम प्रवेश
Provisional agenda	अनन्तिम कार्य-सूची
Provisional appointment	अनन्तिम नियुक्ति
Provisional assessment	अनन्तिम निर्धारण
Provisional list	अनन्तिम सूची

Provisional receipt	काली रामीद
Proviso	प्रणिधि-प्र, उपर्युक्त, परन्तुक
Provocation	उत्तेजना
Provocative	उत्तेजक
Provocative speech	उत्तेजक भाषण
Proximity	निकटता
Proxy	प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षी, प्रति पुरुष, प्रतिनिधि-पक्ष, प्रतिनिधि-
Prudence	दूरदृश्यता, प्रश्ना
Prudent	प्राप्ति, दूरदृशी, होमियार
Pseudo	कृतिम्, अवगत्
Pseudonym	कृतक नाम
Psychiatric	मनोविद्यार
Psychological	मनोवैज्ञानिक
Psychological approach	मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
Psychologist	मनोविद्यार्थी
Puberty	योवनारम्भ
Public	जनता, सोक, सावंजनिक, सरकारी
Public accounts	नोक-ब्लेड
Public auction	नावंजनिक नीलाम
Public benefit	सोक-हित
Public body	सावंजनिक संस्था, सोक-निकाय
Public borrow	सरकारी ऋणदान
Public debt	सरकारी ऋण
Public demand	सावंजनिक माँग
Public document	जाम दस्तावेज़
Public enemy	सोक-शब्द
Public enquiry	सावंजनिक जाप
Public exchequer	सरकारी कोप, राज-कोप
Public good	सोक-हित, सावंजनिक हित
Public goods	सोक-हित/जन-हित वस्तु
Public health	सावंजनिक स्वास्थ्य
Public holiday	सावंजनिक छुट्टी
Public institution	सावंजनिक संस्था
Public nuisance	सोक-कंटक

Public office	सरकारी कार्यालय
Public opinion	जनमत
Public property	सार्वजनिक सम्पत्ति
Public prosecutor	मरकारी अभियोक्ता
Public relations	जन-सम्बन्ध
Public sale	सार्वजनिक विक्री
Public sector	सरकारी उद्योग-क्षेत्र
Public servant	सरकारी कर्मचारी
Public service commission	लोक-सेवा आयोग
Public tariff rate	सार्वजनिक शुल्क-दर
Public utility	सार्वजनिक उपयोगिता
Public utility service	जनोपयोगी सेवा
Public welfare	जन-कल्याण
Public works department	सार्वजनिक निर्माण कार्य
Publish	प्रकाशित करना
Published	प्रकाशित
Publisher	प्रकाशक
Publishing concern	प्रकाशन-संस्था
Publication	प्रकाशन
Publicity	विद्यापत्र, प्रचार
Publicity and propaganda	विद्यापत्र और प्रचार
Publicity van	विद्यापत्र यान
Publicly	सार्वजनिक रूप से, खुले आम
Punctuality	समय-पालन, समय-पावन्दी
Pungent	तीखा, तीक्ष्ण
Punish	दण्ड देना, दण्डित करना
Punishable	दण्डनीय
Punishment	दण्ड, सजा
Punishment corporal	शारीरिक दण्ड
Punitive	दण्डात्मक, दाण्डिक
Punitive police	दाण्डिक पुलिस, दण्ड स्वरूप तैनात पुलिस
Punitive tax	दण्डात्मक कर
Pupil	शिष्य
Pupil teacher	छात्राध्यापक
Purchase	खरीदना, क्रय करना; खरीद, क्रय

Purchase, bulk	धोक घरीद
Purchase, money .	प्रम धन, घरीद रकम
Purchase, rate	प्रम-दर
Purchasing power	प्रम्प-शक्ति
Pure	विशुद्ध, यालिस
Pure substance	विशुद्ध पदार्थ
Purgative	रेचक
Purification	मुद्दि, शोधन
Puritan	विशुद्धवादी
Puritanism	मुद्दाचारवाद
Purity	मुद्दता, विशुद्दता
Purport	अभिप्राय, मशा
Purpose	प्रयोजन
Aim	छ्येय
Object	उद्देश्य
Purposely	संशोधन जान-यूक्तकर
Pursuance	अनुसरण
Pursuance in-of	के अनुसरण में
Pursuit	अनुसरण
Purview	सीमा, व्याप्ति, क्षेत्र
Push button	दाब-वटन
Putrefaction	सड़न
Put up	पेश करना, प्रस्तुत करना

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Partial acceptance	आंशिक स्वीकृति
Part-time course	अंशकालिक पाठ्यर्थ
Passed for payment	शोधन (भुगतान) के लिए पारित
Passive resistance	निपक्ष्य प्रतिरोध
Pending orders	आदेश होने तक
Pending decision	विनिश्चय/कैसला होने तक
Permission in writing	लिखित अनुज्ञा
Personal use	वैयक्तिक उपयोग, निजी इस्तेमाल

Physical fitness certificate	स्वस्थता प्रमाण-पत्र
Place of public entertainment	सार्वजनिक मनोरजन स्थान
Please comply	कृपया पालन करें
Please discuss	कृपया इस विषय पर चात करें
Please examine	कृपया परीक्षा करें
Please put up with previous papers	पूर्वं पत्रों के माध्यम कृपया प्रस्तुत करें
Please refer to	कृपया देखें
Please speak	कृपया चात करें
Point at issue	विचारास्पद प्रश्न, वाद-प्रद
Point of law	विधि-प्रश्न
Police custody	पुलिस की अभिरक्षा (हिरासत)
Policy, matter of	नीति का प्रश्न
Practicable, as far as	जहाँ तक व्यवहार्य हो, यथा व्यवहार्य
Practical experience	व्यावहारिक अनुभव
Precisely expressed	मुत्त्यतः अभिव्यक्त
Precise account	यथार्थ वर्णन
Preference, in order of	अधिमान-क्रम
Preferential treatment	अधिमान व्यवहार
Prejudicially affect, to	प्रतिकूल प्रभाव डालना
Prerogative of mercy	दया का परमाधिकार
Prescribed form	विहित प्रपत्र
Preventive detention	निवारक निरोध
Previous approval	पूर्वं अनुमोदन
Previous history	पूर्वं वृत्त
Prior sanction	पूर्वं समीदन
Priority list	पूर्वता-मूच्छी
Private enterprise	निजी उपक्रम
Probable cause	सम्भाव्य कारण
Procedure to be adopted	अनुकरणीय प्रक्रिया
Process of elimination	निरसन विधा
Process of law	विधि आदेशिका
Production work	उत्पादी काम
Progressive change	प्रगामी परिवर्तन
Proper course	समुचित उपाय/मार्ग

Proper custody	सम्यक् अभिरक्षा
Proposed amalgamation	प्रस्तावित एकीकरण, प्रस्थापित समामेलन
Proprietary right	स्वामित्वाधिकार
Prospective requirements	संभावी आवश्यकताएँ
Providest that nothing in this clause shall be construed as	परन्तु इस घण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जाएगा
Provision shall apply mutatis mutandis	उपबन्ध यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा
Provision to the contrary	प्रतिकूल उपबन्ध
Provisional expenditure	अस्थायी/अन्तरिम व्यय
Puritive police	दण्डस्वरूप तैनात पुलिस
Pursuance in—of	के अनुसरण में, के अनुसार

Q

Quadrangle	चतुर्कोण
Quadruplicate	चार पत्रियाँ, चौहरा
Qualification	अर्हता, योग्यता
Qualification, educational	शैक्षिक अर्हता/योग्यता
Qualification, essential	अनिवार्य अर्हता/योग्यता
Qualified	अहं, योग्यता प्राप्त; विशेषित, सीमित
Experienced	अनुभवी
Skilled	प्रबीण, कुशल
Qualified acceptance	सप्रतिबन्ध स्वीकृति, विशेषित स्वीकृति
Qualitative report	विशेषित रिपोर्ट
Qualified support	सीमित समर्थन
Qualify	अर्हता प्राप्त करना
Qualifying	अहंक, अहंकारी; विशेषक
Qualifying examination	अर्हता-परीक्षा
Qualifying marks	अहंक-अंक
Qualifying service	अहंकारी सेवा
Qualitative	गुणात्मक
Qualitative analysis	गुणात्मक विश्लेषण
Quality	गुण; श्रेणी
Quality control	गुण-नियन्त्रण
Quality Marking scheme	श्रेणी-अक्कन योजना
Quantity	मात्रा, परिमाण, राशि
Quantity known	ज्ञात राशि
Quantity unknown	अज्ञात राशि
Quantum	प्रमात्रा, परिमाण
Quarantine	सरोग, संगरोध
Quarantine leave	सरोगावकाश, संगरोध अवकाश
Quarrel	कलह, लड़ाई-संगढ़ा

Broil	गडबड, दंगा
Feud	वैर
Quarrelsome	कलहप्रिय
Quarter	त्रिमास, चौथाई; आवास
Quarterly	त्रैमासिक, तिमाही
Quarterly examination	त्रैमासिक परीक्षा
Quarterly inspection	त्रैमासिक निरीक्षण
Quarterly report	त्रैमासिक आळ्या/प्रतिवेदन/रिपोर्ट
Quasi-judicial	अर्ध-न्यायिक
Quasi-permanent	अर्ध-स्थायी
Querulous	चिड़चिढ़ा
Query	पूछा
Question	प्रश्न, सवाल
Question hour	प्रश्न-अवधि
Question of fact	तथ्य-प्रश्न
Question of law	विधि-प्रश्न
Question of priority	अग्रता-प्रश्न
Questionable	शंकनीय, शंकास्पद, संदिग्ध
Questionable method	शंकास्पद विधि
Questionable tactics	शंकनीय चालें
Questionnaire	प्रश्नावली
Quick	शीघ्र
Quick attack	शीघ्र आक्रमण, फोरी हमला
Quick march	तेज चाल
Quiet	शांत
Quinquennial	पंचवर्षीय
Quit	त्यागना, छोड़ना
Quiz	प्रश्नोत्तरी
Quorum	गणपूर्ति, कोरम
Quota	कोटा, प्रतिभाग
Quota pro-rate	यथानुपात कोटा
Quotation	उद्धरण; भाव, दर
Quote	उद्दृत करना; भाव बनाना
Quotient	भ्रजन-फल
Quo warranto	अधिकार पूछा

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Qualifications for an office	पद-अर्हताएँ
Qualified acceptance	विशेषित स्वीकृति
Qualifying service	अर्हकारी सेवा
Question in issue	वादग्रस्त प्रश्न
Question of constitutional law	संवैधानिक विधि का प्रश्न
Question of fact	तथ्य प्रश्न
Question of law	विधि प्रश्न
Question shall be referred	प्रश्न सौंपा जायेगा, प्रश्न का उल्लेख किया जायेगा
Questionable antecedents	संदिग्ध प्रारम्भ

R

Race	मूल वंश, जाति, दौड़
Racial discrimination	जाति-भेद
Racial supremacy	जातीय उत्कृष्टता
Racial tension.	जातिगत तनाव
Racially	जाति की दृष्टि से
Radiated	विकीर्ण
Radiation	विकिरण
Radiation, atmospheric	वायुमण्डलीय विकिरण
Radiation, intensity of	विकिरण की तीव्रता
Radiation, solar	सौर विकिरण
Radical	मूलक, आमूल
Radical change	आमूल परिवर्तन
Radio	रेडियो
Radio control	रेडियो नियंत्रण
Radio documentary	रेडियो वृत्त रूपक
Radio element	रेडियो तत्व
Radio fade out	रेडियो परिमन्दन
Radio frequency	रेडियो आवृत्ति
Radio interference	रेडियो व्यतिक्रमण/विघ्न
Radio location	रेडियो स्थिति-निर्धारण
Radius	व्यासार्ध
Rage	रोप
Raid	छापा, धावा; छापा मारना, धावा बोलना
Railway	रेलवे
Railway protection police	रेलवे रक्षा पुलिस
Railway reservation	रेलवे आरक्षण
Railway risk	रेलवे का दायित्व, रेलवे की जिम्मेदारी
Railway security force	रेलवे सुरक्षा बल

Railway system	रेलवे व्यवस्था
Rain	बर्फ़ी
Rain, continuous	निरन्तर बर्फ़ी
Rain, local	स्थानीय बर्फ़ी
Rain, scattered	प्रकोण/छुट्टुट बर्फ़ी
Rain, widespread	दूर-दूर तक बर्फ़ी
Rake	कुरेदना
Rally	सम्मेलन, इकट्ठा होना
Rallying point	एकत्र होने का स्थान
Ramification	बहुशाखन, शाखा-विस्तार
Rampant	व्यापक
Rampant, corruption is	भ्रष्टाचार व्यापक है
Rampart	पर्कोटा, प्राकार
Random	यादृच्छिक, सांयोगिक, अनियमित,
	वेतरतीव
Random, at	वेतरतीव, यादृच्छिक
Random selection	यादृच्छिक चयन
Range	धैर, वनघण्ड; दूरी, परास
Range, actual	ठीक दूरी
Range, close	निकास परास
Range, effective	प्रभावी परास
Range finder	परास मापी
Range, forest	वनराशि, वनघण्ड
Range, long	लम्बी परास
Range, out of	मार/परास के बाहर
Range, short	छोटी चाँदमारी
Range, within	मार के भीतर, परास के भीतर
Ranger	राजिक, रेजर
Ranger, deputy	उपराजिक, उपरेजर
Ranger, forest	वनराजिक/रेजर
Rank	प्रतिपद, ओहृदा; थेणी, कोटि
Office	पद
Station	आस्पद
Rank differences	कोटि/अन्तर थेणी
Ranking	कोटिकरण

Ranking, for purpose of	कोटिकरण के प्रयोजन से
Ransom	छुड़ाई, परिक्रय
Ransom money	निष्कृति धन/छुड़ाई धन, रक्षा धन
Rape	बलात्कार
Rapid	तेज़, तीव्र
Rapid reading book	सहायक पाठ्य पुस्तक
Rapport	सम्पर्क, घनिष्ठता, सोहाई
Rare	विरल, विरला
Rate	दर, भाव, उपशुल्क, स्थानीय कर
Cess	उपकर
Tax	कर
Toll	पथ-कर
Rate, concessional	रियायती दर
Rate contact	दर का ठेका
Rate, flat	सम दर
Rate of exchange	विनिमय दर
Rate special	विशेष दर
Rate structure	दर सरचना
Ratification	अनुसमर्थन/सत्याकान
Ratify	अनुसमर्थन करना
Ratio	अनुपात
Ration	रसद, राशन
Ration, balanced	संतुलित राशन
Rational	युक्तिसगत, औचित्यपूर्ण, तर्कनापरक
Rational approach	युक्तिसगत वृद्धिकोण
Rational selection	तर्कनापरक चुनाव
Rationalisation	अभिनवीकरण, युक्तिकरण, वैज्ञानिकन
Rationalism	तर्क वुद्धिवाद
Ravish	बलात्कार करना
Raw	कच्चा
Raw material	कच्चा माल
Ray	किरण
Ray of hope	आशा की किरण
Reabsorption	पुनर्रवधोपण
Reacting forces	प्रतिक्रिय बल

Reaction	प्रतिक्रिया
Reaction, emotional	भावात्मक प्रतिक्रिया
Reaction, normal	रासान्य प्रतिक्रिया
Reactivation	फिर मे सक्रिय करना, पुनरुत्प्रेरण
Readable	गुवाच्य
Reader	उपाचार्य, रीडर; प्रूफ शोधक; पेशकार
Readiness	तैयारी
Readiness, in	तैयार
Reading	पठन; पाठ्याक
Reading aloud	जोर से पढ़ना, उच्चैः पठन
Reading, first	प्रथम पठन
Reading, intensive	गहन पठन
Reading, mechanical	यथवत् पठन
Reading, second	द्वितीय पठन
Reading, silent	मौन पठन
Reading, third	तृतीय पठन
Reading stage	पठन अवस्था
Reading trouble	पठन कष्ट
Readings	अक, पाठ्याक
Readings to take	अंक पढ़ना
Reading room	वाचनालय
Ready	तैयार
Ready reckoner	तत्काल गणक
Ready reference	मुगम निर्देश
Reafforestation	पुनर्बन्नरोपण
Real	वास्तविक
Genuine	असली, अकृतक
Real form	वास्तविक रूप
Real issue	वास्तविक प्रश्न
Realigning	समरेखन
Realisation	बमूली; आभास, अनुभव
Realistic conditions	यथर्थवत् स्थिति
Reality	वास्तविकता
Realm	क्षेत्र; परिमण्डल; राज्य
Reap	काटना (फसल)

Reappointment	पुगनियुक्ति
Reapproachment	पुनर्मैल
Reappropriation	पुनर्विनियोग
Reappropriation of funds	विधियों का पुनर्विनियोग
Rear	पूछ भाग, पिछला, पालन-योग्य
Rear party	पिछली टोली
Rearrangement	पुनर्विन्यास
Reason	कारण, तर्क
Reason to believe	विश्वास का कारण
Reasonable	उचित/युक्तियुक्त
Equitable	साम्योचित, साम्यिक
Fair	न्यायोचित, न्यायसंगत
Reasonable belief	उचित संयुक्तिक विश्वास
Reasonable doubt	उचित शंका/संशय
Reasonable notice	पर्याप्त नोटिस/मूच्चना
Reasonable time	उचित समय
Reassessment	पुनर्निर्धारण
Rebate	छूट, कटौती, बट्टा
Rebuff	दिड़की, दोटूक जवाब
Rebut	खण्डन करना
Rebuttal	खण्डन, काट
Recall	वापस वुलाना, प्रत्याह्रान
Recapitulation	फिर से दोहराना, संक्षिप्तावृत्ति
Recapture	पुनः वढ़ी बनाना
Receipt	प्राप्ति, रसीद
Receipt actual	वास्तविक प्राप्ति
Receipt and despatch	प्राप्ति और प्रेषण, आवतो-जावती
Receipt book	रसीद बही
Receipts	प्राप्तियाँ, आय
Receipts and disbursements	प्राप्तियाँ और सवितरण
Receiver	गृहीता, आदाता; रिसीवर
Receiving centre	ग्रहण-केन्द्र
Receiving country	शरणदाता देश, प्रतिग्राहक देश
Recent	हाल का
Recently	हाल में

Receptacle	पात्र, आधान
Reception	स्वागत; संग्रहण
Reception camp	स्वागत-शिविर
Reception room	स्वागत-कक्ष
Receptionist	स्वागती
Receptive	संग्रहणशील
Recess	अल्पावकाश, विश्रांतिकाल; मध्यावकाश
Recessing officer	अल्पावकाश अधिकारी
Recession	अपगमन, मंदी
Recipe	नुस्खा
Recipient	पानेवाला, प्राप्तक, आदाता
Reciprocal	पारस्परिक, परस्पर
Reciprocal arrangement	पारस्परिक प्रबन्ध/व्यवस्था
Reciprocal basis	पारस्परिक आधार
Reciprocate	परस्पर आदान-प्रदान करना
Reciprocate greetings	शुभ कामनाओं का आदान-प्रदान
Reciprocity	परस्परता, पारस्परिकता
Recital	प्रस्तुति; पाठ, पठन; उपकथन
Recitation	पाठ, सख्त पाठ; स्मृति पाठ
Reckon	गितना, संगणना करना
Reckonable service	संगणनीय सेवा
Reclaim	भूमि-मुद्धार करना; कृषि-योग्य बनाना
Reclamation of land	भू-मुद्धार, भूमि उडार
Reclassification	पुनर्वर्गीकरण
Recognised	मान्यता प्राप्त
Recognition	मान्यता; पहचान
Recognition, conditional	संप्रतिबन्ध मान्यता
Recognition defacto	तथ्यसः/तथ्येन मान्यता
Recognition de jure	विधितः मान्यता
Recognition implied	निहित मान्यता
Recoil	प्रतिक्षेप, पलटकर धब्का लगना
Recommend	संस्तुति करना, सिफारिश करना
Recommendation	संस्तुति, सिफारिश
Recommendatory	सिफारिशी
Recommendatory letter	सिफारिशी चत

Reconcile	मेल कराना; समाधान करना
Reconcile the discrepancy	अन्तर का समाधान करना
Rconciliation	समाधान, मेल, समझौता
mediation	पुनर्जन्वयन, सुधार
Recognition	प्रारम्भिक सर्वेक्षण, टोह पूर्वेक्षण
Recognition, air	हवाई टोह
Recognition, ground	जमीनी टोह
Reconnoitre	टोह भगाना, पूर्वेक्षण करना
Reconsideration	पुनर्विचार
Reconstitution	पुनर्गठन
Reconstituted	पुनर्गठित
Reconstruction	पुनर्निर्माण
Reconveyance	प्रतिहस्तान्तरण
Record	अभिलिखित करना, अभिलेख; वृत्त
Record, academic	शैक्षिक वृत्त
Record achievement	निष्पत्ति-वृत्त
Record arranger	अभिलेख-विन्यासक
Record age	वय अभिलेख
Record biographical	जीवनी-वृत्त
Record clerk	अभिलेख-लिपिक
Record keeper	अभिलेखपाल
Record of service	सेवा-वृत्त
Record room	अभिलेख-कक्ष
Recorder	अभिलेखक
Recording	अभिलेखन
Recording of files	पत्रावलियों को अभिलेखबद्द करना
Recoup	धतिपूर्ति करना, धति पूरी करना, काट नेना
Recoup losses	हानि-पूर्ति करना
Recoulement	प्रतिपूर्ति, आपूर्ति
Recoulement of advance	अधिम की प्रतिपूर्ति
Recourse	चारा, उपचार
Recourse—to take to	अग्रनना
Recover	पगूल करना
Recoverable	वगूली योग्य

Recovery	वसूली
Recovery of dues	देय की वसूली
Recovery of tax	कर की वसूली
Recreation	मनोरजन, विनोद
Recreational facilities	मनोरजन की सुविधाएँ
Recreative	मनोरजनात्मक
Recrimination	प्रत्यारोप
Recruit	रगड़; भरती करना
Recruitment	भरती
Recruitment, direct	नीची भरती
Rectangular	आयताकार
Rectification	परिशोधन, मुधार, ठीक करना
Rectification of faults	दोष-मुधार
Rectify	ठीक करना, मुधारना
Rectify mistakes	गलतियों को ठीक करना, भूल मुधार करना
Rectitude	साधुता
Recurrence	आवृत्ति
Recurrent	आवृत्तक
Recurring	आवर्तक, आवर्ती
Recurring grant Non-recurring	आवर्तक अनुदान अनावर्तक, अनावर्ती
Redeem	निष्कर्ष करना, मोचन करना, छुड़ाना
Redeemable	निष्क्रेय, मोच्य
Redemption	निष्कर्ष, मोचन
Redemption of debt	ऋण मोचन
Redirected	पुनः प्रेषित
Redistribution	पुनर्वितरण
Redress	निवारण; निवारण करना; दूर करना
Redress of grievance	प्रिक्षियत दूर करना, काट-निवारण
Reduce	कम करना, पटाना; पदावनत करना
Reduction	कमी; पदावनति
Reduction to a lower post	निम्न पद पर अवनति
Redundant	फालतू, अनावश्यक, अतिरिक्त
Redundant post	अनावश्यक/फालतू पद/जगह

Re election	पुनर्निर्वाचन
Re employment	पुनर्नियुक्ति
Re examination	पुनः परीक्षा
Refer	विचारार्थ भेजना, पूछना, पूछा करना, हवाला देना, निर्देश करना, उल्लेख करना
Refree	निर्देशी, रेफरी/निर्णयक
Reference	सदर्भ, प्रसग, सम्बन्ध, हवाला, निर्देश
Reference, clerck	निर्देश लिपिक
Reference, cross	प्रतिनिर्देश
Reference, easy	मुगम निर्देश
Reference, later	उत्तर निर्देश
Reference, previous	पूर्व निर्देश
Reference, terms of	विचारणीय विषय
Reference, under	निर्देशाधीन
Reference, with to	के निर्देश के सम्बन्ध/के मदर्भ में
Referencing	निर्देशाकन, हवाला देना
Referendum	जनमत-संग्रह, लोकनिर्देश
Refill	फिर से भरना
Refinement	परिष्कार
Refixation	पुनर्नियत/पुनर्निर्धारण
Refixation of pay	वेतन पुनर्नियतन/वेतन पुनर्निर्धारण
Reflect	प्रकट करना
Reflected	परावर्तित
Reflection	परावर्तन
Reflection total	पूर्ण परावर्तन
Reflex action	प्रतिवर्ती क्रिया
Reforestation	पुनर्वनरोपण
Reform	सुधार करना
Reformation	सुधार
Reformative	सुधारार्थ
Reformative step	सुधारार्थ उत्तराय
Reformatory	सुधारार्थ
Refrain	रोकना
Refresher course	तर्जीनदार पाठ्यक्रम, पुनर्वर्चन

Refreshment	जस्तपान, उपहार
Refugee	नरणाथी
Refund	धनराशि वापस करना
Refuse	इनकार करना, अस्वीकार करना
Refused	अस्वीकृत
Refused leave	अस्वीकृत छुट्टी
Refutation	खण्डन
Remonstration	प्रतिवाद, धोभाभिव्यक्ति, विरोध-प्रदर्शन
Repudiation	अमानन, नकारना
Regarding	के बारे में
Regimentation	कठोर नियंत्रण, सच्चूहन
Regimentation of education	शिक्षा का सच्चूहन
Region	प्रदेश
Circle	मण्डल
Division	प्रभाग
Regional	प्रादेशिक
Regional language	प्रादेशिक भाषा
Register	पंजी, रजिस्टर
Roll	नामावली
Catalogue	सूचीपत्र
List	सूची
Registered	पंजीकृत, निबद्ध
Registered acknowledgement due	रजिस्ट्री रसीदी
Registered graduate	पंजीकृत/निबद्ध स्नातक
Registering	निबन्धक
Registering authority	निबन्धक प्राधिकारी
Registrar	निबन्धक
Regret	सेद; सेद प्रकट करना
Regrouping	पुनर्वर्गीकरण
Regular	नियमित, नियत, संस्थागत
Habitual	भव्यस्त, स्वाभाविक
Natural	प्राकृतिक
Regular allowance	नियमित भत्ता
Regular assessment	नियमित करना-निर्धारण

Regular session	नियमित सत्र
Regular student	नियमित विद्यार्थी
Regularise	नियमित करना
Regulate	विनियोगित करना; नियंत्रित करना
Regulate traffic	यातायात नियंत्रित करना
Regulated	विनियोगित
Regulation	विनियम
Law	विधि
Rule	नियम
Statute	परिनियम
Regulator	विनियोगकरु
Rehabilitate	पुनर्वासन करना
Rehabilitation	पुनर्वासन
Rehearsal	पूर्वाभिनय, पूर्वाभ्यास
Reigning party	शासक दल
Reimburse	प्रतिपूर्ति करना
Reimbursement	प्रतिपूर्ति
Reimbursement of fee	शुल्क की प्रतिपूर्ति
Reimpose	पुनःआरोपण
Reincarnation	पुनर्जन्म
Reinforce	कुमक भेजना
Reinforcements	कुमक
Reinstatement	पुनःस्थापन, वहासी
Reinvigoration	पुनर्बलन
Reiterate	दुहराना, फिर कहना
Reiteration	पुन कथन, पुनर्घटित
Reject	अस्वीकृत करना
Rejected	अस्वीकृत
Rejection	अस्वीकृति
Rejoinder	प्रत्युत्तर, प्रतिवाद
Rejuvenation	पुनर्जीवन, फायाकला
Relapse	पुनरावृत्ति
Relapsing fever	पुनरावृत्ति ज्वर
Related	सम्बन्धित
Relation	सम्बन्ध, सम्बन्धी

Relation close	निकट सम्बन्धी
Relative	सम्बन्धी, आपेक्षिक, अनुपाती
Relative density	आपेक्षिक घनत्व
Relative efficiency	सापेक्ष/आपेक्षिक दक्षता
Relative term	सापेक्ष पद
Relaxation	छूट, शिथिलीकरण, शिथिलता
Relaxation of age limit	वय-सीमा को शिथिल करना
Relaxation of rules	नियमों को शिथिल करना
Relay	आगे भेजना, अग्रप्रेरण
Release	छोड़ना, मुक्ति, मोचन, रिहाई
Acquit	विमुक्त करना
Liberate	मुक्त करना
Discharge	उन्मुक्त करना
Release, press	प्रेस प्रकाशनी
Release, deed of	मोचन-पत्र
Release order	मुक्ति आदेश
Relegation	पीछे करना
Relevance	सुसंगति, सम्बद्धता, प्रासंगिकता
Relevancy	सुसंगति, सम्बद्धता/प्रासंगिकता
Relevancy of subject matter	विषय की सम्बद्धता/प्रासंगिकता,
Relevant	सुसंगत, सम्बद्ध
Relevant head	सम्बद्ध शीर्षक
Relevant matter	सम्बद्ध सामग्री
Relevant provision	सम्बद्ध उपबन्ध
Reliable	विश्वसनीय, विश्वस्त
Reliable source	विश्वस्त सूत्र
Reliance	भरोसा, विश्वास
Relic	अवशेष
Relief	सहायता, राहत, अनुतोष
Relief and rehabilitation	सहायता तथा पुनर्वासन
Relief measurers	सहायता कार्य
Relief train	सहायतार्थ गाड़ी, इमदादी गाड़ी
Relieve	अवमुक्त करना, भारमुक्त करना
Relieved	भारमुक्त, अवमुक्त
Relieved officer	भवमुक्त/भारमुक्त अधिकारी

Relieving officer	अवनोचन प्रधिकारी
Relieving staff	एवजी कर्मचारि यर्ग
Religion	धर्म
Religious	धार्मिक
Religious education	धार्मिक विद्या
Religious instruction	धार्मिक गत्त्या
Religious sanction	धार्मिक अनुमानि
Relinquishment	परित्याग, स्वत्य त्याग
Reluctance	अनिच्छा
Remainder	शेष, याकी
Reduce	अवगेय
Remain in force	सामू रहना
Remains	अवगेय
Remand	प्रतिप्रेपण, प्रतिप्रेपिण करना, यासन नेबना
Remand for trial	मुकदमे के लिए भेजना
Remark	अभ्युक्ति, कैफियत
Remarkable	उल्लेखनीय
Remarriage	गुनविवाह
Remedial	उपचारी
Remedial measures	उपचारी उपाय
Remedy	उपचार, इचार, उपाय
Cure	रोगोप्रभ्रम
Preventive	नियारं
Remembrance	याद, स्मरण
Remainder	अनुमानि
Remainance	मन्मूलि
Remission	छटा, गोरहार
Remission of revenue	मात्रानुसारी दी कूट
Ref.	बेस्ट करना, भेजना
Refugees	एक भाग करना
Resistance	इन-प्रेपण; प्रेतिन धन
Resistance charges	प्रेतन धन
Result	दोषक, भेजन या तो
Resultance	दर्शार

Remonstration	ओभाभिव्यक्ति, प्रतिवाद
Refutation	निराकरण, खण्डन
Repudiation	अमानन, न मानना, नकारना
Remorse	पछतावा, अनुताप, पश्चाताप
Remote	दूरस्थ, दूरवर्ती, सुदूर
Distant	दूर
Remote cause	दूरस्थ कारण
Remote control	दूरस्थ नियन्त्रण
Removal	पृथक्करण, हटाया जाना
Removal from office	पद से हटाया जाना
Removal from service	नोकरी से हटाया जाना
Discharge	प्रमुक्ति
Dismissal	सेवा-च्युति, वर्खास्तगी
Remunerate	पारिश्रमिक देना
Remuneration	पारिश्रमिक
Remuneration charges	पारिश्रमिक
Renaissance	पुनर्जगिरण; पुत्रशज्जीवन
Render	देना, करना
Render an account	लेखा देना
Render service	सेवा करना
Rendezvous	मिलन स्थान
Renewal	नवीकरण
Renounce	स्वत्व त्यागना, परित्याग करना
Renovation	नवीकरण
Rent	लगान, किराया
Rent annual	वार्षिक लगान
Rent controller	किराया नियंत्रक
Rent due	देय लगान
Rent free grant	माफी
Rent free grantee	माफीदार
Rent free holding	माफी जोत
Rent standard	मानक किराया
Rental value	वार्षिक लगान, लगानी मात्रियत
Renunciation	त्याग; संन्यास
Renunciation of war	युद्ध-त्याग

Reorganisation	पुनर्संगठन, पुनर्गठन
Reorganisation and methods	पुनर्संगठन तथा कार्य-मद्दति प्रभाव
division	पुनरभिस्थापन
Rectification	मरम्मत
Repair	मरम्मन और अनुरक्षण
Repair and maintenance	देश प्रत्यावर्तन, देश बापत भेजना
Repatriation	वापन करना प्रतिगोपन करना, पुकाना
Repay	प्रतिदेय
Repayable	प्रतिदान, अदायगी, चुरनी
Repayment	झणों को अदायगी
Repayment of loans	निरसन; निरन्त करना
Repeal	दोहराना
Repeat	पुनरादेश
Repeat order	पुनरावृत्त
Repeated	प्रतिक्रिया करना प्रतिक्रियित होना
Repel	आकर्षित होना
Attract	पश्चात्ताप, अनुत्ताप
Repellence	पछताया
Remorse	सताप, गोद
Regrets	पुनरावृत्ति
Repetition	बदलना
Replace	प्रतिस्थापन, बदलना
Replacement	संपूर्णि
Replenishment	प्रतिहृति
Replica	प्रत्युत्तर
Replication	उत्तर
Reply	जवाबी पोस्टकार्ड
Reply post card	प्रतिवेदन, आव्याय; वृत्त, रिपोर्ट, विवरण;
Report	मूचना
Report, annual	वार्षिक प्रतिवेदन
Report, false	भिघ्या प्रतिवेदन
Report, monthly	मासिक प्रतिवेदन
Report, office	कार्यालय आव्याय
Report, school	विद्यालय विवरण

Remonstratio ⁿ	क्षोभाभिव्यक्ति, प्रतिवाद
Refutation	निराकरण, खण्डन
Repudiation	अमानन, न मानना, नकारना
Remorse	पछतावा, अनुताप, पश्चाताप
Remote	दूरस्थ, दूरवर्ती, सुदूर
Distant	दूर
Remote caus ^e ol	दूरस्थ कारण
Remote contr ^{ol}	दूरस्थ नियन्त्रण
Removal	पृथक्करण, हटाया जाना
Removal from ¹ office	पद से हटाया जाना
Removal from ² service	नोकरी से हटाया जाना
Discharge	प्रमुक्ति
Dismissal	सेवा-च्युति, वर्खास्तगी
Remunerate	पारिश्रमिक देना
Remuneration	पारिश्रमिक
Remuneration charges	पारिश्रमिक
Renaissance	पुनर्जागरण, पुनरुज्जीवन
Render	देना, करना
Render an account	लेखा देना
Render service	सेवा करना
Rendezvous	मिलन स्थान
Renewal	नवीकरण
Renounce	स्वत्व त्यागना, परित्याग करना
Renovation	नवीकरण
Rent	लगान, किराया
Rent annual	वार्षिक लगान
Rent controller	किराया नियन्त्रक
Rent due	देय लगान
Rent free grant	माफी
Rent free grant ^{cc}	माफीदार
Rent free holding ^g	माफी जोत
Rent standard	मानक किराया
Rental value	वार्षिक लगान, लगानी मालियत
Renunciation	त्याग; सन्यास
Renunciation of war	युद्ध-त्याग

Reorganisation	पुनर्संगठन, पुनर्गठन
Reorganisation and methods	पुनर्संगठन तथा कार्य-पद्धति प्रभाग
division	
Reorientation	पुनरभिस्थापन
Repair	मरम्मत
Repair and maintenance	मरम्मत और अनुरक्षण
Repatriation	देश प्रत्यावर्तन, देश वापस भेजना
Repay	वापस करना, प्रतिशोधन करना, चुकाना
Repayable	प्रतिदेय
Repayment	प्रतिदान, अदायगी, चुकानी
Repayment of loans	ऋणों की अदायगी
Repeal	निरसन; निरस्त करना
Repeat	दोहराना
Repeat order	पुनरादेश
Repeated	पुनरावृत्त
Repel	प्रतिकर्पण करना प्रतिकर्पित होना
Attract	आकर्पित होना
Repentance	पश्चात्ताप, अनुत्ताप
Remorse	पछताचा
Regrets	सताप, खेद
Repetition	पुनरावृत्ति
Replace	बदलना
Replacement	प्रतिस्थापन, बदलना
Replenishment	मपूर्ति
Replica	प्रतिफृति
Replication	प्रत्युत्तर
Reply	उत्तर
Reply post card	जवाबी पोस्टकार्ड
Report	प्रतिवेदन, जाव्या; वृत्त, रिपोर्ट, विवरण; मूलना
Report, annual	वार्षिक प्रतिवेदन
Report, false	मिथ्या प्रतिवेदन
Report, monthly	मासिक प्रतिवेदन
Report, office	कार्यालय जाव्या
Report, school	विद्यालय विवरण

Report of the commission	आयोग का प्रतिवेदन
Report, progress	प्रगति विवरण
Report, verbal	मानविक रिपोर्ट/आव्याप्ति
Report, written	निश्चित रिपोर्ट/आव्याप्ति
Reported case	प्रकाशित मामला/वाद
Reporter	संवाददाता, प्रतिवेदक, बृत ते वृत नेतृत्व भत्ता
Reporting allowance	रिपोर्ट करने वाला अधिकारी
Reporting officer	विधान संश्वेत्
Repository	प्रतिनिधित्व करना; प्रकट करना
Represent	अभिवेदन देना
Representation	प्रतिनिधित्व, प्रत्यवेदन/अन्यावेद
Representation communal	साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व
Representation proportional	आनुपातिक प्रतिनिधित्व
Representation of minorities	अल्पनंब्यकों का प्रतिनिधित्व
Representative	प्रतिनिधि; प्रातिनिधिक
Representative, regional	प्रांदेशिक प्रतिनिधि
Representative, object	प्रातिनिधिक वस्तु
Repress	दमन करना
Repression	दमन, निरोध, निप्रह
Repression of feelings	भावनाओं का दमन, निप्रह
Reprise	प्रविलम्बन करना, रोकना; प्राणदण्ड स्थगन
Reprimand	भस्तर्ना करना, डॉटना, फटकारना
Reprisal	प्रानिगोध, प्रत्यपकार
Reprobation	निरनुमोदन, अस्वीकार करना
Reproduction	पुनरुत्पादन; उद्धरण; प्रतिलिपि, प्रतिष्ठान
Reproduction artificial	प्रृथिम प्रजनन
Reproduction of letter	पत्र का उद्धरण
Reproduction of sound	ध्वनि का पुनरुत्पादन
Reproductive system	जनन-न्तंत्र
Republic	गणराज्य
Republic democratic	लोकतंत्रात्मक
Repudiate	स्थान करना
Repudiated	स्थात

Repudiation	प्रत्याख्यान, इनकार
Repugnance	प्रतिकूलता, विरोध
Repugnant	प्रतिकूल, विरुद्ध
Repugnant to the context	प्रसंग के प्रतिकूल
Repulsion	विकर्ण, अनिच्छा
Repulsive force	प्रतिरुपी बल
Reputation	स्थाति, प्रसिद्धि
Request	प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना निवेदन करना
Require	अपेक्षा करना, माँग के ना
Requirement	अपेक्षा, आवश्यकता
Requisite	अपेक्षित, आवश्यक
Requisites	आवश्यक गुण
Requisition	माँग, अधियाचना, अपेक्षण
Acquisition	अध्याप्ति, प्राप्ति
Requisition, on	अधिग्रहण
Requisition slip	माँग/अधियाचन पर्ची
Requisitioned	अधियाचित, अधिगृहीत
Requisitioned or acquired	अधियाचित या अंजित अध्याप्त
Requital	प्रतिफल
Resale	पुनर्विक्रय
Rescind	विखंडित करना
Rescission	विखण्डन
Rescue	छुड़ाना
Rescue boat	बचाव नौका
Research	शोध, खोज, अनुसंधान, गणेषणा
Invention	आविष्कार
Search	अन्वेषण
Research fellow	शोध पायंद
Research institute	शोध संस्थान
Research paper	शोध लेख
Research scholar	शोध छात्र
Resemblance	साम्य
Resemblance accidental	सायोगिक साम्य
Resemblance maximum	अधिकतम साम्य
Resentment	रोप

Report of the commission	आयोग का प्रतिवेदन
Report, progress	प्रगति विवरण
Report, verbal	मौखिक रिपोर्ट/आव्याह
Report, written	लिखित रिपोर्ट/आव्याह
Reported case	प्रकाशित मामला/वाद
Reporter	संवाददाता; प्रतिवेदक, वृत्त लेखक
Reporting allowance	वृत्त लेखन भत्ता
Reporting officer	रिपोर्ट करने वाला अधिकारी
Repository	विधान सभ्रह
Represent	प्रतिनिधित्व करना; प्रकट करना; अभिवेदन देना
Representation	प्रतिनिधित्व, प्रत्यावेदन/अभ्यावेदन
Representation communal	गांध्रदायिक प्रतिनिधित्व
Representation proportional	आनुपातिक प्रतिनिधित्व
Representation of minorities	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व
Representative	प्रतिनिधि; प्रातिनिधिक
Representative, regional	प्रांदेशिक प्रतिनिधि
Representative, object	प्रातिनिधिक वस्तु
Repress	दमन करना
Repression	दमन, निरोध, नियन्त्रण
Repression of feelings	भावनाओं का दमन, नियन्त्रण
Reprieve	प्रविलम्बन करना, रोकना; प्राणदण्ड स्थगन
Reprimand	भत्संना करना, ढाँटना, फटकारना
Reprisal	प्रातिशोध, प्रत्यपकार
Reprobation	निरनुमोदन, अस्वीकार करना
Reproduction	पुनरुत्पादन; उद्धरण; प्रतिलिपि, प्रतिकृति प्रजनन
Reproduction artificial	कृत्रिम प्रजनन
Reproduction of letter	पत्र का उद्धरण
Reproduction of sound	ध्वनि का पुनरुत्पादन
Reproductive system	जनन-तंत्र
Republic	गणराज्य
Republic democratic	लोकतंत्रात्मक गणराज्य
Repudiate	प्रत्याख्यान करना, इनकार करना
Repudiated	प्रत्याख्यात

Repudiation	प्रत्याह्यान, इनकार
Repugnance	प्रतिकूलता, विरोध
Repugnant	प्रतिकूल, विवृद्ध
Repugnant to the context	प्रसंग के प्रतिकूल
Repulsion	विकर्ण, अनिच्छा
Repulsive force	प्रतिकर्षी बल
Reputation	द्व्याति, प्रसिद्धि
Request	प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना निवेदन करना
Require	अपेक्षा करना, माँग क जा
Requirement	अपेक्षा, आवश्यकता
Requisite	अपेक्षित, आवश्यक
Requisites	आवश्यक गुण
Requisition	माँग, अधियापना, अपेक्षण
Acquisition	अध्याप्ति, प्राप्ति
Requisition, on	अधिग्रहण
Requisition slip	माँग/अधियाचन पर्वा
Requisitioned	अधियाचित, अधिगृहीत
Requisitioned or acquired	अधियाचित या अंजित अध्याप्त
Requital	प्रतिफल
Resale	पुनर्विक्रय
Rescind	विखड़ित करना
Rescission	विखण्डन
Rescue	छुड़ाना
Rescue boat	बचाव जीका
Research	शोध, खोज, अनुसधान, गतेपणा
Invention	आविष्कार
Search	अन्वेषण
Research fellow	शोध पार्यंद
Research institute	शोध संस्थान
Research paper	शोध लेख
Research scholar	शोध छात्र
Resemblance	साम्य
Resemblance accidental	सायोगिक साम्य
Resemblance maximum	अधिकतम साम्य
Resentment	रोप

Reservation	भारक्षण
Reservation of berth/seat	वर्ध/स्थान का आरक्षण
Reserve	आरक्षित करना; आरक्षित वस्तु/निधि
Reserve, without	आदि, अपवाद
Reserve fund	पूर्णरूपेण
Reserve Police lines	आरक्षित निधि
Reserved	आरक्षित पुलिस लाइन
Reservoir	आरक्षित
Reservoir, under ground	होज, जलाशय
Resettlement	अन्तर्राष्ट्रीय जलाशय, भूमिगत जलाशय
Residence	पुनर्वासन, पुनर्वास
Resident	निवास, निवास-स्थान, आवास
Resident engineer	स्थानिक; निवासी
Residential	स्थानिक अभियन्ता
Residential and non-residential quarter	आवासिक और अनावासिक बाटर्ड,
Residential area	आवास और अनावास-गृह
Residential building	आवासिक क्षेत्र
Residential representative	निवास-भवन
Residual	स्थानिक प्रतिनिधि
Residuary powers	अवशिष्ट
Residue	अवशिष्ट अधिकार
Remainder	अवशेष
Resign	शेष, याकी
Resignation	त्यागपत्र देना, स्तीफा देना
Resist	त्यागपत्र, पद-त्याग
Resistance	प्रतिरोध करना
Resistance, passive	प्रतिरोध
Resistant	निपिक्षय विरोध, सत्याग्रह
Resister	निपिक्षय
Resjudicata	प्रतिरोधी
Res nullis	प्रतिरोधक
Resolution	पूर्वन्याय, पूर्वनिर्णीत विषय
Resolution of differences	अनधिकृत
Motion	सकल्प; निपटारा
	मतभेद का समाधान/निपटारा
	प्रस्ताव

Resolve	यकृत्या करना, निश्चय करना
Resort to force	वन् प्रयोग
Resources	साधन स्रोत, सासाधन
Resources, mineral	भूनिक-साधन
Resources, natural	प्राकृतिक सासाधन/सम्पत्ति
Respect	आदर, सम्बन्ध
Respect(s) in all	गभी वातों में
Respect in-of	के बारे में, के लिए
Respect with-to	के सम्बन्ध में
Respectfully	सादर
Respective	अपने-अपने
Respective spheres	अपने-अपने छोथों में
Respectively	प्रमाणः
Respite	विराम
Respondent	प्रत्यर्थी, उत्तरवादी, प्रतिवादी
Response	जवाब, उत्तर, प्रतिविया
Response in-to	के उत्तर में
Responsibility	उत्तरदायित्व
Responsibility, legal	विधिक उत्तरदायित्व
Responsible	उत्तरदायी
Responsive	अनुत्रियाशील
Rest	आराम, विश्राम
Rest house	विश्राम-गृह/भवन
Restaurant	भोजनालय
Resting	पर अवलम्बित
Resting correspondence, with	पत्र-व्यवहार पर अवलम्बित
Restitution	पुनःस्थापन, वापस दिलाना, प्रत्यान्वयन, प्रत्यास्थापन
Restoration	पुनःस्थापन
Restitution of conjugal rights	वैवाहिक सम्बन्ध पुनर्स्थापन
Restlessness	वैचैनी, व्याकुलता
Restoration	फिर से दिलाना/चालू करना, प्रत्यावर्तन
Restoring force	प्रत्यान्वयन बल
Restraint	निग्रह, अवरोध; नियंत्रण

Restraining order	नियाहक आदेश, नियाह आदेश, निवारक आदेश
Restrict	सीमित करना, प्रतिबद्ध करना
Restricted	सीमित, प्रतिबन्धित
Restricted supply	नियमित/प्रतिबन्धित रसेद
Restriction	प्रतिबन्ध, रोक, पावन्दी
Restrictive	प्रतिबन्धात्मक
Result	फल, परिणाम
Resultant	परिणामी
Resume	सार सधेप; पुनः आरम्भ करना; जब्त करना
Resummon	पुनराह्वान
Resumption	पुनर्ग्रहण, पुनरारम्भ, प्रत्यादान; जब्ती
Resumption of office	पद का पुनर्ग्रहण
Resumption of pension	पेंशन का प्रत्यादान, पेंशन की जब्ती
Resumption of work	कार्य का पुनरारम्भ
Resurrection	पुनर्जीवन, मृतोत्थान
Retail	फुटकर, खुदरा
Retail price	फुटकर मूल्य
Retailer	फुटकर विक्रेता
Retain	वनाम रखना, प्रतिधारण करना
Retaining fee	प्रतिधारण-शुल्क
Retaliation	प्रतिकार, वदला
Retaliatory	प्रतिकारात्मक
Retaliatory measures	प्रतिकारात्मक उपाय
Retardation	मंदन
Retention	धारण
Retinue	कर्मचारि वर्ग
Retire	सेवा-निवृत्त होना
Retired	सेवा-निवृत्त
Retired teacher	सेवा-निवृत्त अध्यापक
Retirement	सेवा-निवृत्ति
Retirement age, of	निवृत्ति-वय
Retirement benefit	निवृत्ति-लाभ
Retiring pension	निवृत्ति-पेशन

Retiring room	विद्यामालय, विद्यामन्दप
Retort	जवाब देना, प्रत्युत्तर देना
Retouching	परिष्करण
Retraction	बापस लेना; निवर्तन
Retransmission	पुन ट्रेपण
Retransmitting station	पुन ट्रेपण स्टेशन
Retreat	पीछे हटना, अपमान
Retrenchment	छोटनी
Retributive justice	प्रतिकारी न्याय
Retrieve	पुनः प्राप्त करना; पूर्णि करना, गुणार्थि
Retrieve position	स्थिति गुणार्थि
Retrogression	पश्चगमन
Retrograde	पश्चगामी
Retrograde step	पश्चगामी क्रमा/दाँवंचारी
Retrospection	पिंडाक्षयोदय, वर्तमान
Retrospective	पूर्वान्धी ग्रन्थानी
Retrospective with effect	पूर्वान्धी ग्रन्थि, पूर्वान्धी ग्रन्थि, वा ग्राह
Retuning	पूर्वान्धी, वा उपकरण
Return	विवरणी, विवरण; प्रतिवाप; विवरण, विवरणी, वापर इत्यादि; विविध विवर प्रतिवाप, वा उपकरण
Return of candidate	विवरणी
Return of income	विवरणी
Return of income and expenditure	विवरणी इत्यादि
Return, average	विवरणी
Return, by post	विवरणी वा उपकरण
Return, fair	विवरणी विवरणी
Return journey	विवरणी विवरणी
Return ticket	विवरणी विवरणी
Returning officer	विवरणी विवरणी
Reutilization	विवरणी
Revalidation	विवरणी
Revalidation of pass	विवरणी विवरणी
Revaluation	विवरणी

Reveal	प्रकाट करना/होना
Revealed religion	थुत धर्म
Revenge	प्रतिशोध, प्रतिकार, वदता/लेना
Revenue	राजस्व; लाभ मालगुजारी; आय
Revenue account	राजस्व लेखा
Revenue case	राजस्व वाद
Revenue collection	राजस्व वसूली
Revenue court	राजस्व न्यायालय
Revenue deficit	राजस्व में कमी
Revenue expenditure	राजस्व व्यय
Revenue receipts	राजस्व प्राप्तियाँ
Revenue reserve	राजस्व आरक्षित निधि
Revered	श्रद्धेय, पूज्य
Reverence	श्रद्धा
Reverend	आदरणीय
Reverie	मनोविलास
Reversal	निरसन; विपर्यय; उलटना
Reversal of order	आदेशों का उलट जाना
Reverse	उलटा, विपरीत
Reverse on-the	उलटी ओर, दूसरी ओर
Reverse order	विपरीत क्रम विलोम क्रम
Reversed	प्रतिवर्णित
Reversed position	प्रतिवर्तित स्थिति
Reversible	प्रतिवर्ती
Reversion	प्रत्यावर्तन; पदावनति
Reversion to original post	मूल पद पर प्रत्यावर्तन
Reverted	प्रत्यावर्तित
Review	समीक्षा, पुनर्विलोकन/करना
Review annual	वार्षिक समीक्षा
Review of books	पुस्तकों की समीक्षा
Review of class	वाद का पुनर्विलोकन
Reviewer	समीक्षक
Reviewing officer	समीक्षा-अधिकारी, पुनरीक्षण-अधिकारी
Revised	पुनरीक्षित, दुहराया, संशोधित
Revised budget	पुनरीक्षित बजट/आय-क्रमक

Revised edition	संशोधित संस्करण
Revised estimate	पुनरीक्षित प्रावकलनअनुमान
Revision	पुनरीक्षण; पुनविचार
Revision of application	आवेदन-पत्र पर पुनर्विचार
Revision of pay scale	वेतनमान का पुनरीक्षण
Revisor	पुनरीक्षक
Revisionist	पुनरोक्षणवादी
Revival	पुनरुज्जीवन, पुनःप्रवर्तन, फिर से चालू करना
Revival of licen	पुनर्ग्रंहणाधिकार/ग्रहण का पुनःप्रवर्तन
Revive	पुनःप्रवर्तित करना, पुनरुज्जीवित करना
Revocation	प्राप्तिसहरण, निरसन
Revocation of licence	लाइसेंस का निरसन
Revoke	प्रतिसहृत करना, रद्द करना
Revolt	विद्रोह
Riot	उपद्रव, दंगा
Rising	उद्धोष
Insurrection	परिद्रोह
Sedition	राजद्रोह
Revolution	क्रान्ति; परिक्रमण
Revolution of earth	भू-परिक्रमण
Revolutionary	क्रातिवादी, क्रातिकारी
Revolve	परिक्रमा करना
Revolving axis	परिक्रामी अक्ष
Reward	पारितोषिक, प्रतिफल
Prize	पुरस्कार
Rhythm	लय, ताल
Rhythmical	तालबद्ध
Rider	आरोही
Right	शुद्ध, ठीक, उचित; अधिकार
Prerogative	परमाधिकार
Privilege	विशेषाधिकार
Right, birth	जन्मसिद्ध अधिकार
Right, civil	नागरिक अधिकार
Right, legal	कानूनी अधिकार

Rgiht, moral	नैतिक अधिकार
Right of precedence	अग्रताधिकार
Right of preemption	पूर्व क्याधिकार
Right of self defence	आत्मरक्षा का अधिकार
Rights and privileges	अधिकार और विशेषाधिकार
Rigid	कठोर; दृढ़
Rigidity	कठोरता, दृढ़ता
Rigidity of rules	नियमों की कठोरता
Rigmarole	अनाप-शनाप, अण्ड-बण्ड
Rigorous	कठोर
Rigorous imprisonment	कठोर कारावास, सच्च केंद्र
Ring leader	गुट का नेता, सरगना
Riot	दगा, बलवा, उपद्रव
Riotous	बलवाई, उपद्रवी
Riotous assembly	बनवाई जमाव, उपद्रवी भीड़
Ripen	परिपक्व होना, पकना
Ripening stage	परिपाक अवस्था
Ripple	तरंग
Rise and fall	चढ़ाव-उतार
Rising price	चढ़ती हुई कीमते
Risk	जोखिम; खतरा
Risk, at owner's	मालिक की जोखिम पर
Risk of collision	टक्कर का खतरा
Risk, personal	व्यक्तिगत जोखिम
Risk taking	जोखिम उठाना
Risk trade	व्यापार जोखिम
Rite	धार्मिक कृत्य
Rites	स्तकार
Rites, funeral	अन्त्येष्टि स्तकार
Ritual	धर्मकाण्ड, कर्मकाण्ड
Ritaul ceremony	कर्मकाण्ड विधि
Ritualist	कर्मकाण्डी
Rival	प्रतिवृन्दी
Rivalry	प्रतिवृन्दिता
River	नदी

River, international	अन्तर्राष्ट्रीय नदी
River, source of	नदी-उद्गम, मुहाना
River, subterranean	अन्तभाँग नदी
River bank	नदी तट
River basin	नदी-धोव, बाह-धोव
River bed	नदी तल
River catchment	नदी बाह-धोव
River course	नदी-मार्ग
Rivulet	उपनदी
Road	सड़क
Road, main	मुख्य सड़क
Road rough	ज़ेची-नीची सड़क
Road sense	सड़क पर चलने की तमीज
Road side	सड़क के किनारे
Road worthiness	सड़क-उपयोगिता
Rob	लूटना
Robber	लुटेरा
Robbery	लूट
Rogue	बदमाश
Role	कार्य, योगदान
Roll	नामावली; पंजी
Roll call	उपस्थिति लेना
Roll, character	चरित्र पंजी
Roll number	अनुक्रमांक
Roll of honour	सम्मान-मूर्ची
Roof	छत
Room	कक्ष, कमरा
Room, drawing	बैठक, गोल कमरा
Room, reception	स्वागत कक्ष
Room, waiting	प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा-कक्ष
Root	जड़, मूल
Root, at the-of	-के जड़ में
Rope	रस्ती
Rope in	वाँधना
Rotate	घूमना

Rotation	परिभ्रमण
Rotation, period of	परिभ्रमण अवधि
Rotation of crops	फसलों का हेर-फेर, सत्यावर्तन
Rotation of earth	भू-परिभ्रमण
Rote	परिपाटी, रुढ़ि
Rote-by	यत्रवत्
Rough	कच्चा; स्थूल; असमतल; कर्कश, रुखा
Rough copy	अस्वच्छ प्रति
Rough draft	अनतिम/कच्चा प्रालेख
Rough estimate	स्थूल प्राक्कलन
Rough figures	स्थूल अक
Rough ground	असमतल भूमि
Rough person	कर्कश व्यक्ति
Rough treatment	रुखा व्यवहार
Rough usage	बुरी तरह से प्रयोग
Roughly	मोटी तौर पर, स्थूल रूप से
Round	गोल; गङ्गत, फेरा
Round about	घुमा-फिराकर
Rounding	लपेटना, पकड़ना
Rounding off (figures)	पूर्णकन
Route	मार्ग, रास्ता
Route, alternative	दूसरा मार्ग
Route, land	स्थल मार्ग
Routine	नैतिक
Routine action	नैतिक कार्यवाही
Routine letter	नैतिक पत्र
Routine note	नैतिक टिप्पणी
Routine order	नैतिक आदेश
Routine test	नैतिक परीक्षण
Routing	पथ-निर्देश, मार्ग-निर्देश
Routing of dak	डाकपथ-निर्देश
Routing of traffic	यातायात मार्ग-निर्देश
Row	पक्कित; लेना
Royal	राजकीय
Royal family	राज-परिवार

Royalty	रायल्टी, स्वामित्व
Rude	अशिष्ट, असम्म्य, अभद्र
Rudimentary	प्रारम्भिक
Rudimentary knowledge	प्रारम्भिक ज्ञान
Rule	नियम
Rule, fundamental	मौलिक/मूल नियम
Rule, subsidiary	सहायक नियम
Rules of business	कार्य-नियमावनी
Rule of law	विधि-शासन
Rule of the road	पथ/मार्ग-नियम
Rule of three	त्रैराशिक नियम
Ruler	शासक
Administrator	प्रशासक
Ruler of a merged state	विलीन राज्य का नरेश
Ruling	व्यवस्था
Command	नमादेश
Direction	निदेश
Order	आदेश
Ruling class	शासक वर्ग
Ruling princes	शासक
Rumour	अफवाह, जनश्रुति
Run	दौड़ना; चलाना
Run, to-business	कारोबार चलाना
Run away	भगोडा
Rundown	निन्दा करना, कमी करना
Running	चालू
Running account	चालू लेखा
Running expenses	चलाने का खर्च
Runout	समाप्त होना
Rupture	भंग होना
Rupture of relations	सम्बन्ध-भंग
Rural	ग्रामीण, ग्राम्य
Rural debt	ग्राम-ऋण
Rural development	ग्राम-विकास
Rural economy	ग्राम-अर्थव्यवस्था

Rotation
Rotation, period of
Rotation of crops
Rotation of earth
Rote
Rote-by
Rough
Rough copy
Rough draft
Rough estimate
Rough figures
Rough ground
Rough person
Rough treatment
Rough usage
Roughly
Round
Round about
Rounding
Rounding off (figures)
Route
Route, alternative
Route, land
Routine
Routine action
Routine letter
Routine note
Routine order
Routine test
Routing
Routing of dak
Routing of traffic
Row
Royal
Royal family

Reasonably satisfied	यथोचित रूप से संतुष्ट, यथोचित समाधान कर लिया
Reason to believe	विश्वास करने का कारण
Reasons beyond control	वज्र के बाहर कारण
Recent occurrence	अभी की पटना, हाल की घटना
Reciprocal basis	पारस्परिक आधार
Recognition will be withdrawn	मान्यता वापस ले ली जायेगी
Recognized by law	विधि द्वारा मान्य
Reconciliation of figures —of discrepancies	अंकड़ों का समाधान विभेद ममाधान
Recurring reasons in writing, to Recourse to have—to	कारण अभिलेखबद्ध करना आवश्य, आसरा लेना आवर्ती व्यय
Recruiting expenditure	विशेषता
Redeeming feature —it has one	इसमें एक विशेषता है जो दोपों को ढक लेती है
Redress of grievance	व्यथा का निवारण, परिवेदन का निवारण, शिकायत दूर करना
Reduce to writing	लेखबद्ध करना
Reduced in rank	पक्षितच्युत
Reference —to High Court with—to	निर्देश उच्च न्यायालय को निर्देश/को भेजा गया के निर्देश में, के सम्बन्ध में
Referred to above	उपरिनिर्दिष्ट
Refixation of pay	वेतन पुनर्निश्चयन
Refresher's course	नवीकारण पाठ्यक्रम, पुनर्धर्यन पाठ्यक्रम
Regards, as as—his qualifications	के विषय में, के बारे में उसकी अर्हता के विषय में, जहाँ तक उसकी अर्हता का सवध है
Regret	खेद
to express—	खेद प्रकट करना
Regular course of business, in	नियमित कार्य के दोरान
Regularly maintained	नियमित रूप से रखा गया
Reimbursement of medical expenses	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

Rural life	ग्राम-जीवन
Rural reconstruction	ग्राम-पुनर्निर्माण
Rural rehabilitation	ग्राम-पुनर्वासि
Rural welfare	ग्राम-कल्याण
Ruse	छल, चाल, धोखा
Rustication	वितिष्ठापन, यहिप्कार
Expulsion	निष्कासन
Rut	सीक में पड़ना
Ruthless	निष्ठुर, बेरहम

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Radical change	आमूल परिवर्तन
Raise, army	सेना संग्रहण करना
Raise, loan	ऋण लेना
Raise objection	आपत्ति उठाना
Raise substantially the same issue	सारतः उन्हीं प्रश्नों को उठाना
Random sample survey	बैनरटीय नमूना सर्वेक्षण
Rank and file	साधारण सेनिक
Rank, reduced in	परिवर्त्युत
Rask act	दुस्साहसपूर्ण कार्य
Ratification of boundaries	सीमा अनुसमर्थन
Ratification of industries	उद्योगों का वैज्ञानिकन
Ready reference	सुगम निर्देश
Reason by—of	के कारण से
Reasonable belief	युक्तियुक्त विश्वास
Reasonable care	यथोचित अवेक्षा/सावधानी
Reasonable cause	यथोचित कारण
Reasonable ground for thinking	यह सोचने का यथोचित कारण
Reasonable opportunity	युक्तियुक्त (समुचित) अवसर

Reasonably satisfied	यथोचित संतुष्टि, यथोचित समाधान कर लिया।
Reason to believe	विवाद करने का कारण
Reasons beyond control	वज्र के बाहर कारण
Recent occurrence	अभी मौजे घटना, हाल की घटना
Reciprocal basis	पारस्परिक आधार
Recognition will be withdrawn	मान्यता वापस ले ली जायेगी
Recognized by law	विधि द्वारा मान्य
Reconciliation of figures —of discrepancies	अंतरों का समाधान विभेद समाधान
Recurring reasons in writing, to Recourse	कारण अभिनेत्रयबद्ध करना आधय, आगरा लेना
to have—to	उपाध्रय होना, काम में लाना
Recurring expenditure	आवर्ती व्यय
Redeeming feature —it has one	इनमें एक विशेषता है जो दोपों को ढक लेती है
Redress of grievance	व्यथा का निवारण, परिवेदन का निवारण, शिकायत दूर करना
Reduce to writing	लेखबद्ध करना
Reduced in rank	पक्षितच्छ्रुत
Reference	निर्देश
—to High Court with—to	उच्च न्यायालय को निर्देश/को भेजा गया के निर्देश में, के सम्बन्ध में
Referred to above	उपरिनिर्दिष्ट
Refixation of pay . . .	वेतन पुनर्निश्चयन
Refresher's course	नवीकरण पाठ्यक्रम, पुनर्धर्ययन पाठ्यक्रम
Regards, as as—his qualifications	के विषय में, के बारे में उसकी अर्हता के विषय में, जहाँ तक उसकी अर्हता का सबध है
Regret	त्वेद
to express—	त्वेद प्रकट करना
Regular course of business, in	नियमित कार्य के दौरान
Regularly maintained	नियमित रूप से रखा गया,
Reimbursement of medical expenses	चिकित्सा व्यय की प्रतिसूति

Relating to the period in question	संबंधित अवधि से संबद्ध/के बारे में
Relaxation of rules	नियमों का शिथिलन
Relevant documents	संबद्ध प्रासंगिक लेख्य
Relevant evidence	सुसगत साक्ष्य
Relevant facts	संबद्ध तथ्य
Relevant figures	तत्सम्बन्धी आंकड़े
Reliable data	विश्वसनीय सामग्री/आंकड़े
Reliable information	विश्वसनीय सूचना
Relief measures	सहायता उपाय/कार्य
Relief shops	सहाय्य दुकानें
Relief works	सहायता कर्म
Relinquishment of charge	कार्यभार छोड़ना, प्रभार अवत्याग
Remain in force	प्रवृत्त रहना, लागू रहना
Remain operative	प्रवृत्त रहना, प्रवृत्ति
Remedy proper	समुचित उपाय
Remission of revenue	मालगुजारी छूट
Remit a sentence	दण्ड परिहार करना, दण्ड में छूट देना
Remit money	रुपया भेजना
Removal	
—from office	पद से हटाया जाना
—of restrictions'	निबन्धन का हटाया जाना
Render	
to—an account	हिसाब देना, लेखा प्रस्तुत करना
to—service	सेवा करना
to—oneself liable	भावी होना
Repairs and renewals	मरम्मत तथा नवीकरण, जीर्णोद्धार एवं नवीकरण
Report	उपस्थित होना, प्रतिवेदन देना
to—for duty	कार्य पर उपस्थित होना
to submit—	प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
Representation in writing	लिखित अभ्यावेदन
Repugnant to the context	प्रसंग के विवर
Required, as	यथापेक्षित
Requisition of land	भूमि का अधिग्रहण, भू-अधिग्राहण
Reservation of posts	पदों का आरक्षण

Residential purposes	निवास प्रायोजन
Restitution, writ of	प्रत्यास्थापन-लेख
Restraining order	अवरोधक आदेश
Resumption of charge	प्रभार पुनर्ग्रहण
—of duties	कार्यभार पुनर्ग्रहण
Retrenched personnel	छोटनी किये गये कर्मचारी
Retrospective effect	पूर्वान्गमी प्रभाव, पश्चात्दर्शी प्रभाव
Returned duly endorsed	यथोचित रूप से पूष्टांकित करके
Review	पुनर्विलोकन, लीटाया गया, पुनर्विचार
—of judgement	निर्णय का पुनर्विलोकन
—of orders	आदेशों पर पुनर्विचार
Right to constitutional remedies	संवैधानिक उपचाराधिकार
Risk, at owner's	स्वामी के उत्तरदायित्व पर, स्वामी की जिम्मेदारी पर
to run the—of	जोखिम में पड़ना, खतरे में पड़ना
Rough calculation	स्थूल गणना, मोटे तौर से हिसाब लगाना
Routine case	नैतिक प्रकरण/विषय
Rule	नियम
as a—	सामान्यतया, आम तौर से
inaccordance with the rules	नियमों के अनुसार
rule working control	सेवा नियमावली
rules of procedure	नियामक नियंत्रण
rules and regulations	प्रक्रिया नियम
rules of business	नियम तथा विनियम
rules made there under	कार्य-नियम, तदधीन नियमित नियम
pulling from Govt. be obtained	सरकार से व्यवस्था प्राप्त की जाय

S

Sabotage	तोड़-फोड़
Saboteur	तोड़-फोड़ करने वाला
Sack	बोरा, बर्यास्त करना
Sacramental marriage	साक्षात्कारिक विवाह
Sacrosanct	अव्याध्य, अतोच्छ्र
Sad	गिन, दुखी
Safe	मुरादित, निरापद
Safe area	मुरादित थोन
Safe custody	निगाह परिधान
Safeguard	परकान; रक्षणात्म
Safeguard for linguistic minorities	भाषायी प्रलयमध्यक्षों के लिए मंत्रालय
Safety	धोम, मुरादा, बचाव
Safety devices	मुरादा साधन
Safety equipment	मुरादा उपकर
Safety factor	मुरादा कारक
Safety precaution	मुरादा के पूर्वांग
Safety regulation	मुरादा विनियम
Sailor	नाविक
Salable	विकेन्द्र
Salable publication	विकेन्द्र उत्पादन
Salaried	पदाधारी, वैतनिक
Sale	विक्री
Sale, conditional	विक्रीवादी (वर्जी)
Sale, deed	विक्री दिवाप, देवामा
Sale, proceeds	विक्री-बाल
Sale, present	मूरा विक्री
Sale, public	नांगानी विक्री

Sales	विक्री
Sales, cash	नकद विक्री
Sales, credit	उधार विक्री
Salesman	विक्रेता
Salesmanship	विक्रीकारी
Sale value	विक्री-मूल्य
Salient	मुख्य, विशिष्ट
Salient points	मुख्य बातें
Saloon	संसून, प्रकोष्ठ
Salutary	स्वास्थ्यवर्धक
Healthy	स्वस्थ
Wholesome	स्वास्थ्यप्रद
Salute	सलामी, अभिवादन
Salute ruler	मलामी के अधिकार वाले नरेश
Saluting base	सलामी भूमि
Salvage	उद्धार, माल निकाल लेना
Salvage party	उद्धार टोली
Salvation	नियोग, परिव्राण
Sample	नमूना, बानगी; प्रतिदर्श
Sample free	मुफ्त नमूना
Sampling	नमूना लेना
Sanatorium	आरोग्य आश्रम
Sanctify	पवित्र करना
Sanction	स्वीकृति, सम्मोदन, मजूरी; अनुशास्ति
Sanction of law	विधिक अनुशास्ति
Sanction, valid	वैध स्वीकृति
Sanctioned	सम्मोदित, स्वीकृत
Sanctioned estimate	सम्मोदित प्राप्तकलन
Sanctioned pay	स्वीकृत वेतन
Sanctioning authority	सम्मोदन प्राधिकारी
Sanctions	अनुशास्ति, शास्ति
Sanctions, penal	दण्डिक शास्ति
Sanctity	पवित्रता
Sanctity of treaty	संधि की पवित्रता
Sanctuary	शरण-स्थान

Sanctum	पुर्णांगंरं
Sandy	रेतीला, बसुबा
Sanitary	सफाई सम्बन्धी, स्वास्थ्यकर
Sanitary arrangement	सफाई-व्यवस्था
Sanitary fittings	नल-सामान
Sanitary inspector	सफाई-निरीक्षक, सफाई दरोगा
Sanitation	सफाई, स्वच्छता
Satellite	उपग्रह
Satiability	तृप्यता
Satiation	तृप्ति
Satiety	सतृप्ति
Satisfaction	सन्तोष, तृप्ति; पूर्ति; समाधान; सर्वे-निवारण
 Contentment	 सतुष्टि
Gratification	प्रतुष्टि, प्रतोष
Satisfaction of claim	दावा/मांग-पूर्ति
Satisfactory	संतोषजनक, संतोषप्रद
Satisfactory work and conduct	संतोषजनक कार्य तथा आचरण
Satisfied	संतुष्ट
Satisfied, have-myself	अपना समाधान कर लिया है, अपने संतुष्ट कर लिया है
 Saturation point	 संतृप्ति चिन्ह
Savage	असभ्य, जंगली, असंस्कृत
Save	सिवाय, अन्यथा, के अतिरिक्त, को छोड़ कर; बचाना
 Save as hereinafter provided	 आगे दी हुई स्थितियों को छोड़कर, आगे उपवधित स्थिति को छोड़कर
 Saving	 व्यावृति; अपवाद, बचत
Saving clause	व्यावृति खण्ड, अपवाद खण्ड
Savings, small	अल्प बचत
Savings, voluntary	ऐच्छिक बचत
Scare	मापदण्ड; मानक्रम; तुला; पटरी
Scare, intelligence	बोढ़िक मान
Scale of day	वेतन-मान
Scale of plan	नक्शे का पैमाना/मानक्रम

Scarce	जरायिंद्रिका, इंद्रिका
Scarce goods	जुकाम वस्तुये यन्मारे
Scarcity	जुकामता जरायिंद्रिका छन्है इंद्रिका
Scarcity area	जरायिंद्रिका तुल्यकान क्षेत्र
Scarcity conditions	जरायिंद्रिका तुल्यकान स्थिति
Scattered	इक्कोरे, दिल्लरा डिल्लरा
Scavenging charges	नचाटडे चर्च
Scenario	इन्स लेन्च
Scene	इन्स
Scenery	प्राकृतिक इन्स
Scenic spot	रम्य स्थल
Scout	वन्धु
Schedule	अनुसूची
Schedule of demands	मांग-सानिका, मांग-युक्ति
Schedule programme	कार्यक्रम अनुसूची
Schedule time	समय-सारिणी
Scheduled	अनुसूचित
Scheduled castes	अनुसूचित-जातियाँ
Scheme	योजना
Plan	परियोजना, नियोजना, भाग्योषणा
Project	प्रायोजना
Scheme of examination	परीक्षा-सारिणी
Scholar	छात्र; विद्यार्थी
Scholar, day	भनावासिक छात्र
Scholar, research	शोध छात्र
Scholars register	छात्र पंडी
Scholarship	छात्रवृत्ति
Scholarship, merit	प्रोग्राम छात्रवृत्ति
Scholastic	शिक्षिक
School	विद्यालय, शैक्षण; भाषा
School, accredited	प्रत्यायित विद्यालय
School activity	विद्यालय क्रियाकाला
School age	शिक्षा-वय
School, aided	प्राप्तिकान-प्राप्त विद्यालय

School, high	उच्च विद्यालय
School, industrial	उद्योग विद्यालय
School management	विद्यालय प्रबन्ध
School, normal	दीक्षा विद्यालय
School, nursery	शिशु विद्यालय
School, primary	प्राथमिक विद्यालय
School, reformatory	बाल मुधार विद्यालय
School, technical	प्राविधिक विद्यालय
School, vocational	व्यावसायिक विद्यालय
Science	विज्ञान
Science, application of	विज्ञान विनियोग
Science, faculty of	विज्ञान सकाय
Science natural	प्राकृतिक विज्ञान
Scientific	वैज्ञानिक
Scientific approach	वैज्ञानिक दृष्टिकोण
Scientific knowledge	वैज्ञानिक ज्ञान
Scientific test	वैज्ञानिक परीक्षण
Scientist	विज्ञानविद्
Scope	विषय-धेत्र, कार्य-धेत्र; गुजाइश
Scope of enquiry	जाच-धेत्र
Scare	प्राप्ताक, अक; योग, गणन
Scout	बालचर, स्काउट
Scouting	अग्रचर व्यवस्था
Scrap	रही मात
Screen	परदा, चित्रपट
Screening	छानना
Scribe	लिपिक, लेखक
Script	लिपि
Script writer	लिपिकार, लेखक; वस्तु लेखक
Scroll	वर्तिलेख
Scruples	सकोच
Scruples, moral	नैतिक सकोच
Scrupulous	मूढमावधानी, पूर्ण सावधान
Scrutinize	सनिरीक्षण करना
Scrutiny	सनिरीक्षण, छानबीन, संबोधा

Sea	सूर्जिकला; सूर्ति
Sea battle	समुद्र युद्ध
Sea level	समुद्र तट
Sea, ocean	जाहुन समुद्र
Seal	मुहर, मुद्रा
Sealed	मुद्रितवन्द
Sealed under	मुद्रितवन्द टेउर निविदा
Search	ग्रोव तत्त्वातो
Search party	तत्त्वातो वल
Search warrant	तत्त्वातो अधिष्ठन
Season ticket	मौत्तमो टिकट
Seasonal	मोनमी
Secrecy	गोपनीयता
Secret	गुप्त, गोपनीय
Secret, most/top	परम गोपनीय
Secret instructions	गोपनीय अनुदेश
Secret letter	गोपनीय पत्र
Seat	स्थान, आसन; पीठ
Seat of justice	स्थानन
Seating plan	वैठक नक्शा
Secede	अलग, पृथक होना
Secession	अलगाव, पार्पक्य
Second	द्वितीय, दूसरी
Secondary	गोण; माध्यमिक
Secondary education	माध्यमिक शिक्षा
Secretariat	सचिवालय
Secretary	सचिव
Secretary, assistant	सहायक सचिव
Secretary, additional	अतिरिक्त सचिव
Secretary, deputy	उपसचिव
Secretary, general	महासचिव
Secretary, under	अनुसचिव
Section	अनुभाग; धारा
Section officer	अनुभाग अधिकारी

Sectional	अनुभागीय
Sector	खण्ड, क्षेत्र
Sector, private	व्यापकीय उद्योग क्षेत्र
Sector, public	शासकीय उद्योग क्षेत्र
Secular	धर्म-निरपेक्ष; लौकिक
Secular state	धर्म-निरपेक्ष राज्य
Secularism	धर्म-निरपेक्षता
Security	मुरक्खा; प्रतिभूति; जमानत
Security arrangement	गुरुक्खा प्रबन्ध
Security bond	प्रतिभूति-वन्धु पथ
Security guard	मुरक्खा गारद
Security measures	मुरक्खा उपाय
Sedentary	स्थावर, अचल
Sedentary animal	स्थावर प्राणी
Sedition	राजद्रोह
Seditious	राजद्रोहात्मक
Seditious speech	राजद्रोही भाषण
Seduction	फुसलाना, प्रलोभन
Seed	बीज
Seed treatment	बीजोपचार
Seek	ढूँढना; चाहना
Seek redress of grievance	कष्ट का निवारण चाहना
Seepage	रिसन, प्रस्ताव
Segment	खण्ड
Segregation	पृथक्करण, वियोजन
Segregation, effective	प्रभावी वियोजन
Seige	घेरा, अवरोध
Blockade	नाकाबंदी, समवरोध
Seismic	भू-कम्पीय
Seize	पकड़ना, अभिग्रहीत करना
Seized	अभिग्रहीत
Seizure	अभिग्रहण
Select	चुनना; प्रवर
Select committee	प्रवर समिति
Selection	चयन, चुनाव, प्रवरण

Seminar	संगोष्ठी
Semi-skilled	अधिकृत
Senility	जरा, चुदापा
Senior	उपेत्त, उच्च
Seniority	जवेदता
Seniority list	जवेदताभूमि
Seniority pay scale	जरेट वेतनमान
Seniority time scale	प्रवर समय मात्र
Sensation	संवेदन
Sense	चोध, ज्ञान, भावना
Sensitive	संवेदनशील; नुगाही
Sensitive test	मुग्धाही परीक्षण
Sensitive zone	संवेदनशीलता
Sensitivity	संविधासवत
Sensual	ऐन्ड्रिय
Sensuous	मनोभाव
Sentiment	प्रेमभाव
Sentiment of love	भावुकतापूर्ण
Sentimental	भावुकतापूर्ण दृष्टिकोण
Sentimental approach	सतरी
Sentinel	संतरी, प्रहरी
Sentry	संतरी का गत हस्ता
Sentry beat	संतरी-चौको
Sentry post	अलगाव, पृथक्करण
Separation	शक्ति पृथक्ता
Separation of power	क्रम, तारतम्य
Sequence	क्रमिक, क्रम
Serial	क्रम-सूची
Serial list	क्रम में
Serial order	क्रमानुसार
Serially	प्रस्थ, वास्तव
Serfdom	माता, शृंखला
Series	गभीर
Serious	गभीर दृष्टि से देखा जायगा
Serious notice will be taken	

Serious defect	गमीर दोष
Serious offence	गमीर अपराध
Sermon	प्रवचन
Service	सेवा
Service book	तेला-पुस्तक
Service condition	नोडरो की शर्तें
Service, military	सेनिक सेवा
Service of notice	नोटिस की सामीन
Service roll	सेवा-पृष्ठ
Serviceable	उपयोग, काम के पांच
Servicing	उपलब्ध
Servitude	अधिगोपिता
Session	सभा, अधिवेशन
Session plenary	पूर्ण अधिवेशन
Session, school	शिक्षण सभा
Set	हट
Set aside	आविष्ट करना, बिराम करना
Set back	पछाड़, झेलना
Set up	स्थापित करना; पक्ष करना (संरचना)
Settle	संतानार्थ करना; खत्ता करना
Settled area	संस्थानी भौमि
Settlement	कर्तव्यात्; विवरण, व्यापार; प्रदानात्; वर्ती
Settlement, amicable	कर्तव्यीय संताना
Settlement, permanent	स्थानीय संताना
Settlement, temporary	समयीय संताना
Settlement of a debt	ऋग्न वा ऋग्नान्तरण
Settlement of a dispute	विवाद वा विवादान्तरण
Settlement of claim	वाद वा वादान्तरण
Settlement of wages	वार्षिक वृद्धि
Settlement site	स्थानात्
Several	कई, कई
Severally	कई एवं कई
Severance of relations	विवाद वा विवादान्तरण
Severity	विश्वास
Sewage	प्रदूषक वात

Sewage disposal	मल-निस्तारण
Shadow	छाया
Shim	मिथ्या
Sham sale	मिथ्या विक्रय
Sham show	मिथ्या प्रदर्शन
Shame	लज्जा
Shape	आकृति, रूप
Shape of the earth	भू-आकृति
Shaping	आकार देना
Share	अंश, भाग, हिस्सा
Share capital	अंश पूँजी
Share market	अंश बाजार, शेयर बाजार
Share holder	अंशधारी, हिस्सेदार
Share warrant	अंश अधिपत्र
Sharp	तेज, तीव्र, तीक्ष्ण
Sharp bend of the road	सङ्क का केंची-मोड़
Sharp edged	तीक्ष्णधार
Sharp note	तीव्र स्वर
Sheet	फलक, पत्र
Sheet arrangement	च्यवस्था-फलक
Sheet charge	आरोप-पत्र
Sheet order	आदेश-फलक
Shelter	आश्रय
Shielding	परिरक्षण, रक्षा करना
Shift	पारी, पाली
Shift, double	दोहरी पाली
Shifting	स्थान बदलना
Shifting charge	स्थान बदलने का व्यय
Shifting process	विवर्तन प्रक्रिया
Shifting key	कल बदल
Shining	चमकदार
Ship	जहाज, पोत
Shipping	नौवहन, नौवाहन
Shock	ब्रक्स, स्टका
Shock treatment	आक्षोभ चिकित्सा

Shopping hours	पणन समय
Shortage	कमी
Shortage of attendance	उपस्थिति मे कमी
Shortcoming	कमी, त्रुटि
Shortfall	कमी, न्यूनता
Shortfall in expenditure	व्यय मे कमी
Shorthand	आशुलिपि
Short notice	अल्प सूचना
Short notice question	अल्प सूचित प्रश्न
Long term	दीर्घकालिक
Short period	अल्प अवधि
Short sight	निकट दृष्टि
Short term	अल्पकालिक, अल्पकालीन
Short term loan	अल्पकालिक ऋण
Shoulder responsibilities	उत्तरदायित्व उठाना
Show cause notice	कारण सूचना, कारण बताओ सूचना
Show room	प्रदर्शन-कक्ष
Show window	प्रदर्शन-खिड़की
Shrill note	तीक्ष्ण स्वर
Shrewd	चतुर
Shrinkage	सिकुड़न
Shrinkage limit	संकुचन सीमा
Shut down	कामवन्दी
Shut in personality	अंतर्मुखी व्यक्तित्व
Sick leave	हणावकाश, बीमारी की छुट्टी
Side	पक्ष; पाश्व, बगल
Side, off	दाहिनी तरफ
Side door	बगल का दरवाजा
Side light	बगल बत्ती
Side room	पाश्व-कक्ष
Seige	घेरा
Seige, to lay	घेरा ढालना
Sight	दृष्टि; नजर
Sign	चिह्न
Signal	संकेत

<i>Signatory</i>	हस्ताक्षरकर्ता
<i>Signature</i>	हस्ताक्षर
<i>Signed note</i>	हस्ताधरित टिप्पणी, दस्तखती टिप्पणी
<i>Signed number</i>	ग्राहित संख्या।
<i>Signed under protest</i>	गविरोध हस्ताधरित
<i>Significance</i>	अर्थ; अभिप्राय; महत्व
<i>Significance, of great</i>	बहुत महत्वपूर्ण
<i>Significant</i>	अर्थपूर्ण, मार्गक; महत्वपूर्ण
<i>Significant term</i>	मार्गक शब्द
<i>Silence</i>	पामोशी, नीरवता
<i>Silent film</i>	मूक फ़िल्म/चलचित्र
<i>Silhouette</i>	छापा चित्र
<i>Silk, artificial</i>	कृत्रिम रेशम
<i>Silvery</i>	रुपहस्ती, रौप्य
<i>Similar</i>	समरूप, समतुल्य
<i>Corresponding</i>	तदनुरूप, तत्स्यानी
<i>Similarity</i>	समानता, समरूपता
<i>Simple</i>	मरत, माधारण
<i>Simple imprisonment</i>	साधारण कारावास, सादी केंद्र
<i>Simplify</i>	सरल करना
<i>Simultaneous</i>	एक साथ, समाकालिक
<i>Sincere</i>	सच्चा, ईमानदार, निष्कपट
<i>Sincerely yours</i>	आपका, भवदीय
<i>Sincerity</i>	सच्चाई, शुद्ध हृदयता, निश्चितता
<i>Sine die</i>	अनिश्चित काल के लिए
<i>Sine qua non</i>	अनिवार्य शर्त, अपरिहार्य
<i>Single</i>	अकेला
<i>Single point tax</i>	एक स्थानीय कर
<i>Singular</i>	विचित्र
<i>Sink</i>	डूबना; अपवाहिका
<i>Sinking fund</i>	शोधन-निधि
<i>Site</i>	मौका; स्थल, स्थान
<i>Site plan</i>	स्थल/मौके का नक्शा/मानचित्र
<i>Sitting</i>	बैठक
<i>Sitting member</i>	वर्तमान सदस्य

Sitting posture	आतोन त्विति
Situation	त्विति
Position	अवस्थिति
Situation delicate	नानुक त्विति
Six monthly	छनाही, अर्धवार्षिक
Size	भाकार, भाष
Size of the earth	भू-भाकार
Skeleton	डंचा; अस्तिपञ्चर
Sketch	याका, रेयाकृति
Sketch map	रेखा-मानचित्र
Skill	कौशल, निषुणता
Skill at arms	शस्त्र-कौशल
Skilled labourer	कुशल अभिक
Unskilled	अकुशल
Skimmed milk	क्रीम निकाला दूध, सपरेटा
Skin	त्वचा, खाल
Skin disease	त्वचा-रोग
Skit	प्रहसन, घटिका, अद्यत-कृति
Sky	आकाश
Sky, clear	स्वच्छ आकाश
Sky, overcast	चिरा हुबा आकाश
Slander	अपवचन, अपमान-वचन
Slanderous	अपवचनात्मक
Slanting	तिरछा
Slaughter house	बूचइखाना
Slave	दास
Slavery	दासता, गुलामी
Sleeping car	शयन यान
Slender	पतला
Slight	किंचित
Slight displacement	किंचित विस्थापन
Slip	पर्ची, फिसलना; खूक
Slogan	तारा
Slope	ढान
Slot	छिद्र

Slow	धीमा, मन्द
Slow down	मन्द करना
Slow motion	मन्द गति
Sluice	जल-कुपाठ
Slum	गन्दी वस्ती
Sump	गिरावट, अवमान, मन्दी
Small	छोटा, लघु
Small cause court	लघुवाद न्यायालय
Small scale industries	लघु उद्योग
Smallness	न्यूनता
Smell	गन्ध
Smoke	धुआँ, धूम
Smoke screen	धुएं का परदा, धूमावरण
Smooth	चिकना; गमतल
Smothering	वायु-रोधन
Smuggle	चोरी से लाना या ले जाना; अपवहन करना
Smuggler	अपवाहक, तस्कर व्यापारी
Smuggling	तस्कर व्यापार
Snag	रोड़ा, फट्टा
Snap	झपकी, झट
Snap order	तुरत आदेश, फोरी आदेश
Snape vote	तुरत योट मतदान
Snow	हिम, बर्फ
Sobriety	सयतता
Sociability	सामाजिकता, मिलनसारी
Social	सामाजिक
Social adjustment	सामाजिक समंजन
Social animal	सामाजिक प्राणी
Social attitude	सामाजिक अभिवृति, सामाजिक रखेया
Social behaviour	सामाजिक व्यवहार
Social boycott	सामाजिक वहिङ्कार
Social climbing	सामाजिक आरोहण
Social conduct	सामाजिक आचरण
Social consciousness	सामाजिक चेतना

Social custom	सामाजिक रुढ़ि
Social distance	सामाजिक अतर
Social maladjustment	सामाजिक अपसमंजन
Social order	सामाजिक व्यवस्था
Social security	सामाजिक सुरक्षा
Social service	समाज सेवा
Social status	सामाजिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा
Social uplift	समाजोत्थान
Social welfare	समाज कल्याण
Socialism	समाजवाद
Socialist	समाजवादी
Socialistic pattern of society	समाज का समाजवादी ढाँचा रूप
Society	समिति, सभा, सोसाइटी
Society, multipurpose	बहुमुखी/बहुधन्धी, बहुउद्देशीय समिति
Society, non-agricultural	कृपीतर समिति
Sociology	समाजशिक्षा
Soft	मृदु/मीठा; हल्का
Soft currency area	सुलभ मुद्रा क्षेत्र
Soft water	मृदु मीठा जल
Soil	मिट्टी, भूगि
Soil analysis	मिट्टी-विश्लेषण
Soil conservation	भू-संरक्षण
Sojourn	अवस्थान, विराम
Solar	सौर, सूर्य
Solar eclipse	सूर्य-ग्रहण
Solar radiation	सौर विकिरण
Solar time	सौर समय
Sole	एकल
Sole risk	एकल दायित्व
Sole tenant	एकमात्र भासमी
Solemn	सत्यनिष्ठ;
Solemnly	सत्यनिष्ठापूर्वक
Solemnly affirm	सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिशो करना
Solemnity	गंभीरता

Solicit	याचना करना
Solicited	प्राप्ति
Solidarity	समर्पक्य
Solidarity of interest	हितों की मुदृढ़ता
Solid state	ठोस अवस्था
Solitary	एकल, एकमात्र
Solitary confinement	एकान्त कारावास, एकान्त केद
Solitude	एकान्त
Solution	हल, समाधान
Solution, immediate	तात्कालिक हल
Solve	मुलझाना, हल करना
Soluble	विलेय
Solved example	साधित उदाहरण
Solvent	राम्पन्न, शोधशाम
Song	गीत
Sonorous	सुस्वरिक
Sophistry	फुतक, जल्प
Sorcery	जाडू-टोना
Sore eye	दुखती आँख
Sorrow	शोक
Sort	छाँटना
Sound	अच्छा; स्वस्थ
Sound argument	युक्तिसंगत तर्क
Sound mind	स्वस्थ चित्त/मस्तिष्क
Source	स्रोत; साधन; उद्गम
Source of income	आय का स्रोत
Source of river	नदी का उद्गम
Source of profit	लाभ का साधन
Souvenir	स्मारिका; स्मृति-चिह्न
Sovereign	सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न
Sovereignty	प्रभुसत्ता
Span	विस्तार
Spare	अतिरिक्त, फालतू
Spare copies	अतिरिक्त प्रतियाँ
Spare parts	अतिरिक्त पुर्जे

Spares	फालतू तुर्ज
Sparingly	अल्पतम, कम-से-कम
Speaker	वक्ता, अध्यक्ष
Speaker, deputy	उपाध्यक्ष
Special	विशेष, विशिष्ट
Special care	विशेष सावधानी
Special case	विशेष मामला
Special concession	चास रियायत
Special constituency	विशेष निर्वाचन क्षेत्र
Special course	विशेष पाठ्यक्रम
Special duty	विशेष कार्य
Special facilitiy	विशेष सुविधा
Special injunction	विशेष व्यादेश
Specialisation	विशेषता
Specialised	विशेषित
Specialist	विशेषज्ञ
Specific	विशिष्ट, निर्दिष्ट
Specific purpose	विशिष्ट प्रयोजन
Specific relief	विशिष्ट सहायता/अनुतोष
Specifically	विशेष रूप से
Specifications	निर्दिष्टियाँ
Specified	विनिर्दिष्ट, उल्लिखित
Specimen	नमूना, वानगी
Specimen signature	नमूना प्रतिहस्ताधार
Spectacular	प्रदर्शनीय, अगाधारण
Spectator	दर्शक
Observer	प्रेक्षक
Speculation	अनुमान, सट्टा
Speech	भाषण
Speed	चाल
Speed limit	रफ्तार-नीमा
Speedy	तुरत, इत्रत
Quick	अविलम्ब
Speedy disposal	तुरत निस्तारण
Spell	आवेग, दोर

Spell, cold	शीत आवर्ग
Spending power	व्यय-मापित
Sphere	धोर
Sphere of duty	कार्य-स्फेर
Sphere of influence	प्रभाव-स्फेर
Sphere of interest	हित-स्फेर
Spill way	ऊबड़-ग्राबड़ मार्ग
Spill over scheme	अधिनीत योजनाएँ
Spirit	भाव, आशय
Spiritual value	आध्यात्मिक मूल्य
Sponsor	प्रायोजक, पोषक
Sponsored scheme	पोषित योजना, प्रायोजित योजना
Spontaneity	स्वतः प्रवृत्ति
Spontaneous	स्वतः ; स्वजात
Spontaneous growth	स्वतोनृद्धि
Sporadic	यथतविक; विकीर्ण
Sporadic disease	विकीर्ण रोग
Sports	नेतृकूद, कीड़ा
Spot	स्थान
Spot delivery	स्थान-वितरण
Sprain	मोच
Spray gun	पिचकारी
Spread	प्रसार, फैलाव
Spring	चश्मा; वसन्त; कमानी; कूदना
Sprinkling	छिड़काव
Sprout	अंकुर निकलना
Sprouted gram	अंकुरित चना
Spur, at the-of the moment	एकदम, तुरन्त
Spurious	बनावटी, कृत्रिम; खोटा
Spurious coin	खोटा सिक्का
Spurious drug	कृत्रिम औषधि
Spy	गुप्तचर
Squad	जत्या, दल
Squad flying	उड़ाका दल
Squatting	बैठना, विठाव

Standard rate	मानक दरं
Standards and specifications	मानक और विशिष्टियाँ
Stand bail	जामिन होना; जमानत देना
Stand by	सहारा; गाड़े समय का साथी
Stand-by control	आपत्कालीन नियन्त्रण
Standing	स्थायी
Standing committee	स्थायी समिति
Standing crop	घड़ी फसल
Standing instructions	स्थायी अनुदेश
Standing orders	स्थायी आदेश
Stand still	ठहराव; विराम
Stand still agreement	यथास्थिति करार
Starred question	ताराकित प्रश्न
Starting date	आरम्भ-दिनांक
Starting	सनसनीखेज, आश्चर्यजनक
State	राज्य; राजकीय, स्थिति, अवस्था
State aid	राजकीय सहायता
State drive	राज्यात्मा
State emblem	राज्य-चिह्न
State funds	राज्य-निधि
State government	राज्य सरकार
State guest	राज्य-अतिवि
State high way	राज्य-मुद्द्य मार्ग
State hospitality	राजकीय अतिविप सत्कार
State interference	राज्य-हस्तक्षेप
State language	राजभाषा
State of readiness	तैयारी की स्थिति
State sovereign	प्रभुत्व सम्पन्न राज्य
State trading	राज्य व्यापार
State, tributary	करद राज्य
State, welfare	हितकारी/कल्याणकारी राज्य
Stateless	राष्ट्रिकताहीनता
Statelessness	राष्ट्रहीनता
State list	राज्य-नूची
Statement	व्याख्या; कथन; विवरण

Statement of account	लेखा-विवरण
Statement of case	मामले/वाद का विवरण
Statement of claim	दावा-कथन
Statement of facts	तथ्य-कथन
State wide	राज्य व्यापी
Static	स्थैतिक
Stationary	स्थिर, अचल
Statistical	सांख्यिक, अंकड़ा सम्बन्धी
Statistician	सांख्यिक विशेषज्ञ
Status	पदस्थिति, हैसियत, प्रतिष्ठा
Status quo	पूर्व स्थिति, यथा पूर्व स्थिति
Statute	संविधि, परिनियम
Law	विधि
Regulation	विनियम
Rule	नियम
Statute book	परिनियम-ग्रन्थ, सांविधिक ग्रन्थ
Statutory	सांविधिक
Statutory obligation	सांविधिक दायित्व
Statutory orders	सांविधिक आदेश
Steadfastness	स्थैर्य
Steady	दृढ़; अपरिवर्ती
Steep	बड़ा
Steep slope	सीधा/बड़ा ढाल
Stem	स्तम्भ; रोकना
Stem progress	प्रगति रोकना
Stenographer	आशुलिपिक
Step up	बढ़ाना
Step up production	उत्पादन बढ़ाना
Sterile	वाँझ, बन्धा
Sterilize	विसंक्रमित
Sterling (quality)	खरा, विश्वस्त, सहज, उत्कृष्ट
Stern	कठोर
Stern action	कठोर कार्यवाही
Stereotyped	रुद्धिवद्ध
Steward	प्रबन्धक, कार्यदा

Sticky	चिपचिपा
Stiff-necked	हठधर्मी, हठीला
Stiffness	कड़ापन
Stimulant	उत्तेजक, उद्दीपक
Stimulus	उद्दीपन
Sting	दंश, डंक
Stinking	दुर्गंध
Stipend	छात्रवृत्ति
Stipendiary	यूत्तिग्राही
Stipulate	अनुबन्ध करना
Stipulated	नियति, अनुबन्धित
Stipulated time	नियत समय
Stipulation	अनुबन्ध, शर्त
Stock	सामान, माल
Stock book	माल वही
Stock closing	इति शेष माल
Stock inhand	हस्तेमाल
Stock taking	माल की जांच
Stock verifier	भाण्डार परीक्षक, माल संख्यापक
Stock inspection	माल निरीक्षण
Stock in trade	विक्री का माल
Stock position	माल की स्थिति
Stocking	संग्रह, संचयन
Stockist	भाण्डारिका
Stop	ठहरना, रोकना; स्थाम
Stoppage	रुकना
Stoppage at efficiency bar	दक्षता-रोध पर रुकाव
Stoppage of increment	वृद्धि रोक देना
Storage	संग्रह, संग्रहालय
Storage charges	संग्रह व्यय
Stormy weather	तूफानी मौसम
Straight	सीधा, सरल
Straight forward	खरा, सीधा
Strain	तनाव
Strain and stress	तनाव और जोर; विकृति और प्रतिबंध

Stranger	अजनवी
Strangler	गला घोटने वाला
Strategic	युद्धनीतिक, सामरिक
Strategic areas	सामरिक महत्व का क्षेत्र
Strategic point	सामरिक महत्व का स्थल
Strategy	युद्ध-नीति, दाँव-पेच, रण-विधि
Stream line	दोप रहित करना, मुप्रवाही बनाना
Street delivery system	घर-वितरण व्यवस्था
Strengthen	दृढ़ बनाना
Strengthening of administration	प्रशासन का दृढ़ीकरण
Strict	कठोर
Strict action	कठोर कार्यवाही
Strict interpretation	यथावत् निर्वचन
Stricture	जवक्षेप, कटु आलोचना
Censure	निन्दा
Reprimand	भत्संना
Warning	चेतावनी
Strife	संघर्ष, फूट, अनवन
Strike	हड्डताल, प्रहार करना
Strike, general	आम हड्डताल
Strike, illegal	अवैध हड्डताल
Strike, partial	जाशिक हड्डताल
Striking power	प्रहार-शक्ति
Stringency	कठोरता
Stringency, economic	आर्थिक मितव्ययिता
Strip	पट्टी
Stroke	जाघात, धक्का
Strong	दृढ़
Strong hold	गढ़
Strong room	कोपकक्ष
Structural	संरचनात्मक
Structural change	संरचनात्मक परिवर्तन
Structural defect	रचना-दोष
Struggle	संघर्ष
Struggle for existence	जीवन-संघर्ष

Student	छान
Study	अध्ययन
Study leave	अध्ययन अवकाश
Stunt	कलावाजी, करतव
Stunted (growth)	अविकसित, अवरुद्ध
Stupidity	मूढ़ता
Style	शैली
Style of life	जीवन-शैली
Sub	उप
Sub committee	उपसमिति
Sub editor	उपसम्पादक
Sub head	उपशीर्षक
Sub let	शिकमी, पट्टे पर देना
Sub normal	उपसामान्य
Sub conscious mind	अवचेतन मन
Sub continent	उपमहाद्वीप
Subdivisional officer	हाकिम परगना, परगना अधिकारी
Subhuman	अवमानन
Subject	विषय
Subject matter	वाद विषय
Subjective	आत्मपरक, व्यक्तिपरक, व्यक्ति-सापेक्ष
Sub judice	न्यायाधीन
Subjugate	अभिभूत क्षेत्र
Subjugation	अधीन करना; पराभव
Submerged	निमग्न, डूबा हुआ
Submission	प्रस्तुति, निवेदन
Subordinate	अधीनस्थ, अधीन
Inferior	निम्न, अपर, अवर
Subordinate officer	अधीनस्थ कार्यालय
Subordinate staff	अधीनस्थ कर्मचारि वर्ग
Subscribe	चन्द देना, समर्यन करना
Subscribed	अभिदत्त
Subscription	चन्दा, अभिदान
Subsequent	अनुवर्ती, वाद का

Subservience	जो-हुजूरी, चापलूसी, आज्ञाकारिता
Subsequently	तत्पश्चात्, उमके बाद
Subsidiary	गौण, सहायक
Subsidiary rules	महायक नियम
Subsidy	उपदान, राज-सहायता
Subsidised	राज-सहायित
Subsistence	जीवन-निवाहि, उपजीविका
Livelihood	जीविका
Maintenance	भरण-पोषण, पोषण-बाद
Subsistence allowance	निवाहि-भत्ता
Substance	निष्कर्ष, आशय, तत्त्वार्थ
Gist	भावार्थ, सारांश, अभिप्राय
Essence	निष्कर्ष, सार
Substantial	पर्याप्त, वास्तविक, ठोस, सारवान
Substantially	तत्त्वतः, पर्याप्त रूप से
Essentially	सारतः, वस्तुतः, यथार्थतः
Permanently	अनिवार्यतः
Substantial aid	पर्याप्त सहायता
Substantiate	अभिपुष्टि करना, प्रमाणित करना
Authenticate	प्रमाणीकृत करना
Verify	सत्यापित करना
Substantive	मौलिक
Substantive appointment	मौलिक नियुक्ति
Substantive pay	मूल वेतन
Substantive, provisionally	अस्थायी रूप से मौलिक
Substitute	एवजी, स्थानापन्न
Suburb	उपनगर, नगरपरिसर
Succeeding	अनुवर्ती
Success	सफलता
Successful	सफल
Succession	अनुक्रम; उत्तराधिकार
Succession certificate	उत्तराधिकार प्रमाणक
Successive	अनुवर्ती
Successively	उत्तरोत्तर
Successor	अनुवर्ती; उत्तराधिकारी

Successor in office	पद का उत्तरवर्ती
Successor states	उत्तराधिकारि राज्य
Succour	सहायता, मदद (गाड़े में)
Sue	मुकदमा चलाना, नालिश करना
Suffer	सहन करना, सहना
Sufferance	मर्यादा
Sufferance estate, at	मर्यादा जात सम्पदा/सम्पत्ति
Suffering	कष्ट
Sufficiency	पर्याप्ति
Sufficient	पर्याप्त
Sufficient cause	पर्याप्त कारण
Sufficient, self	आत्म-निर्भर
Suffocation	दम घुटना
Suffrage	मताधिकार
Suffrage universal	सार्व मताधिकार
Suggest	सुझाव देना
Suggestion	सुझाव
Suggestive	अर्थगमित, अभिव्यजक; अश्लील
Suicide	आत्महत्या
Sui generis	अद्वितीय
Sui juris	स्वतंत्र, स्वाधीन, विधि की दृष्टि में सक्षम
Suit	दावा, नालिश
Suit, to file	नालिश दायर करना
Suitability	उपयुक्तता
Suitable	उपयुक्त
Sullage	मैता पानी
Summary	संक्षेप; सरसरी
Summary decision	सरसरी तौर पर निर्णय
Summary trial	सरसरी विचारण
Summarily	संक्षेप में; सरसरी तौर पर
Summarily dealt with	संक्षेपतः; निर्णीत
Summer camp	ग्रीष्म शिविर
Summer vacation	ग्रीष्मावकाश
Summon	आहूत करना, चुलाना
Summoned	आहूत

Summons	जाह्वान, आह्वान-पत्र, सम्मान
Summum boicum	परमार्थ, परम शुभ, परम पुरुषार्थ
Sumpituary allowance	आनिध्य भत्ता, सत्कार भत्ता
Sundry expences	फुटकर व्यय
Sun set	गूर्यास्त
Sun shine	धूप
Sun stroke	सूर्यलगना
Superannuate	अधिवर्प, निवृत होना
Superannuation	अधिवर्पता
Superannuation, age of	अधिवर्प वय, निवर्तन वय
Superannuation allowance	निवृत्त-भत्ता
Superb	भव्य, शानदार
Superficial	वाह्य, वाहरी, ऊपरी
Superfine	वहुत अच्छा, वहुत वारीक, अति मूदम
Superfluous	अतिरिक्त, अनावश्यक, फालतू
Superimpose	अध्यारोपण
Superimposed	अध्यारोपित
Superintendent	अधीक्षक
Suprintending engineer	अधीक्षक-अभियन्ता
Superior	उत्कृष्ट, प्रवर, उच्च
Superior authority	उपरिष्ठ/प्रवर/उच्च प्राधिकारी
Superior court	प्रवर स्थायान्त्रय
Superior intelligence	उत्कृष्ट बुद्धि
Superior service.	उच्च सेवा
Super man	अतिमानव
Superpose	अधिस्थापित करना, अध्यारोपित करना
Superscribe	ऊपर लिखना
Superscription	उपरिलेख; पता
Supersede	अतिक्रमण करना/अधिक्रमण करना
Supersession	अतिक्रमण, अधिक्रमण
Supersession, in-of	का अतिक्रमण करके
Superstition	अव्याविश्वास
Superstructure	अधिरचना, ऊपरी ढाँचा
Super tax	अधिकर
Supervise	देखभाल करना, पर्यवेक्षण करना
Supervision	पर्यवेक्षण, देखभाल

Supervisor	पर्यंवेक्षक
Supervisory	पर्यंवेक्षी
Supervisory body	पर्यंवेक्षण-संस्था
Supplement	अनुपूरक, अनुपूर्ति करना
Supplementary	अनुपूरक
Supplementary demand	अनुपूरक माँग
Supplementary estimate	अनुपूरक प्राक्कलन
Supplementary examination	अनुपूरक परीक्षा
Suppliant	अनुनयी, विनयी
Supplies	रसद, सम्भार
Supply	संपूर्ति करना, संपूर्ति
Supply, bulk	राशि संपूर्ति, धोक संपूर्ति
Support	समर्थन, समर्थन करना; भरण-पोपण/करना; टेक; सहारा; आधार
Support, air	हवाई सहायता
Support in-of	के समर्थन में
Support troops	सहायक सैनिक
Supporter	समर्थक
Supporting air force	सहायता वायु सेना
Suppression of veri	सत्य/तथ्य-गोपन, तथ्य-निरोध
Suppose	मान लेना, कस्तना करना
Supposed	कल्पित
Supposition	कल्पना
Suppress	दमन करना, दबाना
Suppression	दमन
Supreme	सर्वोच्च
Supreme authority	सर्वोच्च सत्ता/प्राधिकारी
Supreme command	सर्वोच्च कमान
Supreme court	सर्वोच्च/उच्चतम न्यायालय
Surcharge	अधिभार, अधिप्रभार
Surety	प्रतिभू, जामिन
Surname	अधिनाम
Surplus	बचत, अतिरिक्त
Surplus amount	अतिरिक्त धनराशि
Surplus budget	बचत का आय-व्ययक
Surplus produce	अतिरिक्त उत्पादन

Surprise	आश्चर्य
Surprise attack	अचानक हमला
Surprise check	अचानक जाँच
Surprise visit	आकस्मिक निरीक्षण
Surrender	समर्पण, समर्पित करना, अभित्याग
Surrender of lease	पट्टे का अभित्याग
Surveillance	निगरानी
Survey	सर्वेक्षण
Survey, military	सैनिक सर्वेक्षण
Survey of land	भू-सर्वेक्षण
Survey work	सर्वेक्षण कार्य
Surveyed	सर्वेक्षित
Survival	अतिजीविता, उत्तरजीविता
Survival of the fittest	योग्यतम की अतिजीविता
Survive	उत्तरजीवित रहना, बचा रहना
Surviving	उत्तरजीवी
Susceptibility	ग्रहणशीलता, प्रवाद्यता, सुग्राहिता
Susceptible	ग्रहणशील, सुग्राही
Suspect	सदेह करना, सदिग्ध व्यक्ति
Suspend	निलम्बित करना; मुअंतिल करना
Adjourn	स्थगित करना
Suspension	निलम्बित
Suspension allowance	मोअंतली भत्ता, निलम्बन भत्ता
Suspense	उचंत
Suspense account	उचंत सेखा
Suzerainty	अधिराजत्व
Switch off	वंद करना, बुझाना
Syllabus	पाठ्य-विवरण पाठ्यचर्या
Symmetrical	सममित
Symmetry	सममिति
Sympathy	सहानुभूति
Sympathetic	सहानुभूतिपूर्वक
Sympathetic, for-consideration	सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ
Symposium	परिसवाद, विचार-गोष्ठी
Syptom	लक्षण

Synonym	पर्याय
Antonym	विपर्याय
Synopsis	सारांश
System	प्रणाली, पद्धति
Systematic	व्यवस्थित

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Safe custody	मुरक्खित अभिरक्षा
Safety, public	सार्वजनिक सुरक्षा
Salient features	प्रमुख बातें, विशिष्ट बातें
Same	उसी प्रकार से
— in the manner	सम्मोदन, मंजूरी, अनुशासित
Sanction	विविध अनुशास्ति
—of law	पूर्व सम्मोदन/मंजूरी
—Previous	एतद् द्वारा मानदेय देने की स्वीकृति (मंजूरी) दी जाती है
Sanction is hereby accorded to the grant of honorarium	सम्मोदन प्राधिकारी
Sanctioning authority	यथा प्रस्तावित, सम्मोदित स्वीकृत
Sanctioned as proposed	शब्दें पूरी करना, प्रतिवंध पालन
Satisfy the conditions	करना
Save as expressly provided	में स्पष्टतया उपबंधित स्थिति के अतिरिक्त
Save as otherwise provided	अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर
Save in cases	अवस्थाओं को छोड़कर
Saving clause	अपवाद खंड
Scale of pay	वेतन-क्रम
Search party	अन्वेषक दल, तलाशी टोली
Searching enquiry	सूक्ष्म जाँच, सूक्ष्म परिपूर्चला
Seasonal requirements	कालिक आवश्यकताएँ
Seat of justice	न्यायासन
Secure, to sender	मुरक्खित बनाना
Security arrangements	सुरक्षा प्रबंध

Self-contained	२८५	१००	का निरसन करते हुए, का अतिक्रमण
Self-explanatory	२८६	१००	या अधिलघन करते हुए
Sense of duty		१००	पर्यवेक्षण नियन्त्रण
Sent here with us	२८७	१००	के समर्थन में
Sequence of events		१००	निलम्बित ग्रहणाधिकार/स्थानाधिकार
Serious notice, to us		१००	यथोचित सशय, युक्तियुक्त सशय
Service		१००	संशयास्पद परिस्थितियाँ
—of the country		१००	क्रमबद्ध सकलन
—of the nation		१००	कार्य-पद्धति
Set		१००	
to stand by	२८८	१००	

Specific purpose	विशिष्ट प्रयोजन
Specific relief	विशिष्ट सहायता
Specified date	निर्दिष्ट दिनांक
Sponsoring authority	पुरस्कर्ता प्राधिकारी
Standard of qualifications	अंतर्गत-स्तर
State quest	राज्य-अतिथि
Statement of the case	प्रकरण-विवरण
Stay of proceedings	कार्यवाही रोकना, रोधन
Stay orders	रोधनादेश
Strict measures	कड़े उपाय
unless—are taken against these activities	जब तक इन कार्यवाहियों के विरुद्ध कड़े उपाय न किये जाएँगे, सदृशी न वरती जायेगी
Strictly advice to	सम्मक् पालन करना
Strictly prohibited	सर्वथा प्रतिपिद
Strictly speaking	वास्तव में, यथार्थ में
Stricture, to pass	अवक्षेप करना
Subject matter of a motion	प्रस्ताव का विषय
Subject noted above	उर्युलिखित विषय
Subject to such conditions	ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए
Subject to the provisions	उपचान्द्रों के अधीन रहते हुए
Submitted for approval	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत, स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत
Submitted for consideration	विचारार्थ प्रस्तुत
Subsequent reminder	अनुवर्ती अनुस्मारक
Substantive appointment	मौलिक (स्थायी) नियुक्ति
Substantiate charges, to	आरोपों की अभिपुष्टि करना
Subversive activities	हानिकर कार्यवाहियाँ, उच्छेदक चेष्टाएँ
Such order as may be necessary	यथा आवश्यक आदेश
Sufficient cause	पर्याप्त कारण
Sufficient experience and standing	पर्याप्त अनुभव और सेवा-काल
Summary disposal	संक्षेपतः निवर्तन निस्तारण
Summary of the case	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
Sum payable	देय राशि
Sundry receipts	प्रकीर्ण प्राप्तियाँ

Superession of, in	का निरसन करते हुए, का अंतिक्रमण
Supervisory control	पर्यावेक्षण नियन्त्रण
Support of, in	के समर्थन में
Suspended lien	निलम्बित ग्रहणाधिकार/स्थानाधिकार
Suspicion, reasonable	यथोचित संशय, युक्तियुक्त संशय
Suspicious circumstances	संशयास्पद परिस्थितियाँ
Systematic compilation	ऋग्मबद्ध संकलन
System of working	कार्य-पद्धति

T

Table	तालिका, सारणी
Table of contents	विषय-सूची
Table, time	समय-सारणी
Taboo	बर्जन, नियंत्र; बर्जित, नियिद्ध
Tabulate	सारणीबद्ध करना
Tabulation	सारणीयन
Tabulator	सारणीयक
Tabular arrangement	सारणीबद्ध व्यवस्था
Tabular statement	सारणी-पत्र
Tacit	मोत
Tacit consent	मोत सहमति
Tacitly	मोत इप मे
Tackle	सामना करना, करना
Tackle a problem	समस्या हल करना/सामना करना
Tact	युक्ति, चतुराई, व्यवहार-कुशलता, सहयोग
Tactical	युक्तिपूर्ण; सामरिक
Tactical deployment	सामरिक विन्यास
Tactical importance	सामरिक महत्व
Tactical position	सामरिक स्थिति
Tactical move	युक्तिपूर्ण चाल; सामरिक चाल
Tactics	समर तंत्र, समर कौशल; चाल
Tail lamp	पिछली वत्ती
Taint	कलंकित/दूषित करना
Take effect	लागू होना/प्रवृत्त होना
Take over	अधिकार मे लेना
Talents	प्रतिभा
Talk	वार्ता

Talk, radio	रेडियो चार्ट
Tally	मिलान करना
Tally sheet	मिलान-पत्र
Tamper	थेंडना, विगड़ना
Tangible	मूर्ति
Tapping of a phone	तार में जोड़ लगाकर फोन सुनना
Tapping of resonance	उपर्योग (साधनों का)
Target	लक्ष्य
Tariff	प्रधुल्क
Cess	उपकर
Customs	सीमाशुल्क
Excise	उत्पाद कर
Tax	कर
Toll	पथ-कर
Task	कार्य, काम
Task work	उजरती काम
Taste	स्वाद, पसन्द, अभिहच्चि
Tax	कर
Tax, ad valorem	मूल्यवार कर
Tax direct	प्रत्यक्ष कर
Tax dodger	कर-अपवचक
Tax, income	आय कर
Tax on luxury goods	विलास-वस्तुओं पर कर
Tax, multi point	बहु-स्तर कर
Tax, profession	व्यवसाय कर
Tax, property	सम्पत्ति कर
Tax, single point	एक स्तर कर
Tax, terminal	सीमा कर
Taxable	कर योग्य
Taxable income	कर योग्य आय
Taxation	कराधान; कर लगाना
Taxation, impact of	कर देयता
Taxation, incidence of	कर वाहता
Tax evasion	कर घेन, कर छिपाना
Tax exemption	कर-माफी, कर-मुक्ति

Tea	चाय
Tea party	चाय-गोष्ठी, चाय-पार्टी, जल-पान व्यवस्था
Teacher	शिक्षक, अध्यापक
Teacher, pupil	छात्र अध्यापक
Teaching	शिक्षण
Teaching, method of	शिक्षण-विधि, अध्यापन-विधि
Team	टोली, दल, समूह
Team spirit	टोली-भावना
Team work	टोली-भावना ने काम करना, सामूहिक कार्य
Teasing	देढ़ना
Technical	प्राविधिक; पारिभाषिक
Technical advisor	प्राविधिक परामर्शदाता
Technical aid	प्राविधिक सहायता
Technical approval	प्राविधिक/तकनीकी अनुमोदन
Technical control	तकनीकी नियन्त्रण
Technical education	प्राविधिक शिक्षा
Technical equipment	तकनीकी उपस्कर
Technical expert	तकनीकी विशेषज्ञ
Technical handling	तकनीकी इस्तेमाल
Technical knowledge	प्राविधिक ज्ञानकारी/शान
Technical meaning	तकनीकी अर्थ
Technical process	तकनीकी प्रक्रिया
Technical qualifications	प्राविधिक अहंताएँ
Technical reason	प्राविधिक कारण
Technical sanction	तकनीकी स्वीकृति
Technical skill	तकनीकी बुद्धिमत्ता
Technical specifications	तकनीकी विशिष्टियाँ
Technical terminology	पारिभाषिक शब्दावली
Technicality	प्राविधिकता
Technique	तकनीकी, प्रविधि
Technological	प्रौद्योगिक
Technological institute	प्रौद्योगिक संस्थान
Technology	प्रौद्योग

Telegram	तार
Telegram state	राजकीय तार
Teller	गणक
Teller of coin	मुद्रा गणक
Temperament	स्वभाव, प्रकृति
Disposition	प्रवृत्ति
Temperamental	तुनुकमिजाजी
Temperance	मिताचार, सयम
Temperance in drink	मितपान
Temperance in food	मिताहार
Temperance in speech	मितभाषण
Temperate	सयत, शीतोष्ण
Temperate in habits	सयत प्रकृति
Temperate zone	शीतोष्ण कटिवन्ध
Temperate worded	सयत शब्दों में लिखित
Temperature	तापमान
Temperature, control	ताप-नियन्त्रण
Temperature, maximum	प्रधिकतम ताप
Temperature, minimum	न्यूनतम ताप
Temperature, regulation of	ताप-नियमन
Tempo	ताव, स्प, जोर
Temporal	कालिक (of time); कालवाची, ऐहिक (wordly)
Mundane	लौकिक
Wordly	मामारिक, ऐहिक
Temporal sign	कालिक चिह्न
Temporary	अस्थायी
Temporary appointment	अस्थायी नियुक्ति
Temporary post	अस्थायी पद
Temporary relief	अस्थायी मद्दता, प्रस्तुकानिक सहायता
Temporary restriction	अस्थायी प्रतिबन्ध
Temptation	प्रसोभन
Tenable	मात्य, चालू
Tenacious	दृढ़, तत्प
Tenacity	दृढ़ता, तत्पत्ता; समर्पणता
Tenacity of purpose	प्रशापनन्त्यता, कार्य-इच्छा

Tenancy	काश्तकारी, किरायेदारी
Tenant	काश्तकार; किरायेदार
Tenantry	काश्तकार वर्ग
Tendency	प्रवृत्ति
Tendency, creative	सृजनात्मक प्रवृत्ति
Tendency, destructive	विघ्वसक प्रवृत्ति
Tendentious	पक्षपाती, पक्षपातपूर्ण; सोहेज़ी
Tender	कोमल; देना, प्रस्तुत करना; निविदा
Tender age	सुकुनार आयु/वयस
Tender box	निविदा-गुल्क
Tender fee	निविदा-शुल्क
Tend to	को ओर प्रवृत्त होना
Tenet	मत
Doctrine	चाद
Tense	तना
Tense atmosphere	तना हुआ वातावरण
Tension	तनाव
Tentage equipment	तम्बू-उपस्कर
Tentative	अनन्तिम, प्रायोगिक
Tentative proposal	अनन्तिम प्रस्ताव
Tenure	कार्यकाल; धारणावधि, धारणाधिकार
Tenure holder	भूधृति, पट्टेदारी
Tenure of appointment	नियुक्ति कार्यकाल
Tenure of land	भूधृति
Tenure of post	पदावधि
Term	अवधि; शर्त; पद; समय
Terms and conditions	निवन्धन और शर्तें
Term of office	पद की अवधि, पदावधि
Term, relative	सापेक्ष पद
Term, technical	पारिभाषिक शब्द
Terms of reference	विचारणीय विषय, निर्देश पद
Terms of service	सेवा की शर्तें
Terminable	समाप्त
Terminal	आवधिक; उपसात्रिक
Terminal examination	उपसात्रिक परीक्षा

Terminal station	अंतिम स्टेशन
Terminal tax	सीमान्त, सीमा कर
Terminate	समाप्त करना
Termination of service	सेवा की समाप्ति
Terrestrial	भूमिक, पार्थिव, स्थलीय
Terrestrial animal	स्थलचर प्राणी
Territorial	प्रादेशिक
Territorial army	प्रादेशिक सेना
Territorial distribution	प्रादेशिक विभाजन
Territorial force	प्रादेशिक सेना
Territorial jurisdiction	प्रादेशिक अधिक्षेत्र
Territorial waters	क्षेत्रिक सागर, समुद्री सीमा
Territory	प्रदेश, राज्यक्षेत्र
Territory conquered	विजित प्रदेश
Terrorism	आतंकवाद
Tertiary	तृतीयक
Test	जाँच, परीक्षण
Examination	परीक्षा
Ordeal	उत्तरीक्षा, सत्य परीक्षा, कठिन परीक्षा
Test, accuracy	यथार्थता-परीक्षण
Test, alertness	सतर्कता-परीक्षण
Test, aptitude	अभियोग्य-परीक्षण
Test, audit	लेखा-परीक्षण
Test case	परीक्षण मामले
Test, individuality	व्यक्तिमत्ता-परीक्षण
Test, informal	धनोपचारिक परीक्षण
Test, intelligence	प्रज्ञा-परीक्षण
Test, memory	स्मृति-परीक्षण
Test, oral	मौखिक परीक्षा
Test, personality	व्यक्तित्व-परीक्षण
Test, practical	प्रयोगिक परीक्षण
Test relief work	प्रयोगिक नहावता कार्बं
Testament	यन्मोर्यत, इच्छापत्र
Testamentary	वसीयती
Non testamentary	वसीयत भिन्न

Testate	वसीयती
Intestate	वेयसीयत
Testify	प्रमाणित करना
Testimonial	जीतपत्र, शंसापत्र
Testimony	परिसाक्ष्य
Evidence	साक्ष्य
Text	मूल पाठ
Text book	पाठ्य-पुस्तक
Texture	बनावट
Textils	वस्त्र
Theocracy	धर्मतन्त्र
Theology	धर्म-दर्शन
Theorem	प्रमेय
Theoretical	सैद्धांतिक
Theoretical subject	सैद्धांतिक विषय
Theoretically	सैद्धांतिक रूप से
Theory	सिद्धान्त
Therapy	चिकित्सा
Thereof	उसका
Thereof, in respect-	उसके सम्बन्ध में
Thereunder	उसके अधीन/नीचे
Thereewith	उसके साथ
Thesis	शोध प्रबन्ध
Thick	घना, स्थूल, मोटा
Thinking	चिन्तन
Thinking, critical	विवेचनात्मक चितन
Thinking, logical	तकँगत चितन
Thinking, rational	सविवेक चितन
Thinking, sound	स्वस्थ चितन
Third party	अन्य पक्ष
Threshold	देहली, प्रवेश-द्वार; न्यूनतम सीमा-रेखा
Thrift	मितव्यय
Through	सीधा, आसपार
Through booking	सीधी बुकिंग
Through carriage	सीधा डिव्हा

Tichlish problem	नाजुक
Till	जोतना; तव तक
Till further orders	अन्य आदेश होने तक
Tillage	जोत, जुताई
Tiller	कुपक
Tilt	सुकाव
Tilted	नत
Time	समय, काल
Time, barred	काल-वाधित
Time effect	काल-प्रभाव
Time factor	समय-गुणक
Time honoured	चिर-प्रचलित
Time lag	समय-अन्तराल
Time practice	चिर प्रचलित परिपाटी
Time keeper	समय-पाल
Timely	मामयिक
Opportune	समयानुकूल
Time scale of pay	वेतन का कालमान
Time schedule/table	समय-सारणी
Timidity	भीखता
Timing	समय-निर्धारण
Timings	समय, समय-मान
Title	शीर्षक, आगम, स्वतंत्र
Title to land	भूथागम
Title page	मुख्यपृष्ठ
Toilet	शृंगार
Token	सकेत, प्रतीक
Token grant	प्रतीक अनुबान
Token provision	प्रतीक व्यवस्था
Tolerance	सहिष्णुता
Tone	स्वर, लहजा, तान-भापा
Tool	औजार, उपकरण
Topography	स्थल रूपरेखा
Top priority	परम अग्रता/पूर्वता
Top secret	परम गोपनीय

Top working	वहुत तेजी से काम
Topic	विषय, प्रसंग
Torment	यातना देना, यातना
Torture	यंत्रणा
Total	कुल, सम्पूर्ण
Total capacity	सम्पूर्ण क्षमता
Totalitarian	एक दलीय, सर्वसत्तात्मक
Total strength (of the class)	कुल सश्वा
Total weight	कुल भार
Totalitarianism	एक दलीय पद्धति
Totality	सकलता, सम्पूर्णता, समर्पित
Touch	स्पर्श
Touching	हृदयसर्ची, मर्मसर्ची; काषणिक
Touch-line	पाइंच-रेखा
Touchy	तुतुक मिजाजी, चिड़चिढ़ा
Tough	सख्त
Tour	दौरा
Tour programme	दौरे का कार्यक्रम
Tourism	पर्यटन
Tourist	पर्यटक
Tourist car	पर्यटन यान
Tort	दलाल
Tower	बुर्ज
Town	नगर, कस्ता
Trace	खोजना; अनुरेपण
Track	मार्ग, रास्ता, पीछा करना
Trade	व्यापार
Trade blockade	व्यापार नाकाबन्दी
Trade barrier	व्यापार-रोध
Trade mark	व्यापार-चिह्न
Trade restricted	परिमित व्यापार
Trade sea borne	समुद्री व्यापार
Tradition	परम्परा
Usage	प्रथा, आचार-व्यवहार
Custom	रीति, रुढ़ि

Convention	मिल्डि
Traditional	पारम्परिक
Traffic	यातायात, आमदरपत
Traffic control	यातायात-नियंत्रण
Traffic in women	स्त्री-व्यापार
Traffic peak	अधिकतम यातायात
Tragedy	दुखान्त, दुखान्तिका
Trail	पदचिह्न, लकीर
Train	गाडी, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षित करना
Train controller	गाडी-नियन्त्रक
Train examiner	गाडी-परीक्षक
Trained	प्रशिक्षित
Disciplined	अनुशासित
Training	प्रशिक्षण
Training institute	प्रशिक्षण संस्थान
Training of rivers	नदियों का व्यावहार रोकना
Training, professional	व्यावसायिक प्रशिक्षण
Trait	लक्षण
Traits of character	चरित्र के लक्षण
Traits, individual	व्यक्तिगत लक्षण
Traitor	राजद्वाही
Trance	समाधि, तन्मयता
Tranquility	शांति
Tranquility of mind	मन की शांति
Transaction	व्यवहार, लेन-देन
Transcendental	अनुभवातीत
Transcribe	प्रतिलिखित करना
Transcript	प्रतिलेख
Transcription	लिप्यतरण
Transfer	स्थानातरण, बदली; संक्रमण, हस्तातरण
Transfer from one place to another	स्थानातरण
Transfer from one person to another	हस्तातरण
Transfer	हस्तांतरी, संत्राटी

Transform	स्थानांतर करना
Transformation	स्थानांतरण
Transgress	अनियमण करना, उल्लंघन करना
Transgression	उल्लंघन
Encroachment	उपाप्रमण, अतिव्रमण
Transpass	अनविधिकार प्रवेश
Violation	अतिक्रमण
Infraingement	अतिलंघन
Tranship	यातान्लंरण
Transit	पारनयन, पारगमन, आना-जाना
Transit, goods in	माल/मार्ग/रास्ते में
Transit, in	मार्ग में
Transit depot	पारगमन डिपो
Transitional	संक्रमणकालीन, अन्तरकालीन
Provisional	अनन्तिम
Interim	अतरिम
Transitional arrangement	संक्रमणकालीन प्रवध/व्यवस्था
Transitional period	संक्रमण-काल
Transitory	अस्थायी
Translation	अनुवाद
Translator	भगुवादक
Transliteration	लिप्यंतरण
Transmission	प्रेषण, भेजना; पारेपण
Transport	परिवहन
Transport animal	भारवाही पशु
Transportable	परिवहनीय
Transportation	निर्वासन
Banishment	विवासन
Deportation	उद्वासन
Transportation for life	आजीवन निर्वासन
Travel	यात्रा
Travelling allowance	यात्रा-भत्ता
Traverse	इनकार, प्रत्याख्यान
Treasure	कोप, खजाना
Treasure, trove	गड़ा धन

Treasure vault	कोष का तहसीला
Treasurer	कोषाध्यक्ष
Treasury	कोषागार
Treat	उपचार करना
Treated	उपचारित, उपचारित
Treaties	संधि
Treatment	चिकित्सा, उपचार, व्यवहार
Trek	लम्बी यात्रा
Tremble	कंपना
Tremendous	अत्यधिक; भयंकर, भीषण
Tremendous implications	भयकर परिणाम
Tremor	कंपन
Trench	खाई
Trend	प्रवृत्ति
Trend of thinking	चिन्तन-प्रवृत्ति, विचार-धारा
Trespass	अतिचार, अतिचार करना
Trespasser	अतिचारी
Trial	विचारण, विचार
Trial de novo	नये सिरे से विचार
Tribal area	जनजाति क्षेत्र
Tribunal	न्यायाधिकरण, अधिकरण
Tributary	सहायक नदी, उपनदी
Tributary state	करद राज्य
Tribute	कर
Tributes, to pay	थद्वाजलि अपित करना
Trick	चाल
Trip	दौरा; प्रयत्न
Tripartite	त्रिपक्षीय
Triumph	विजय
Troop	सेना
Trooper	भश्वारोही
Tropical	उष्ण कटिबंध
Trowel	कल्पी
Truce	विराम-संधि
True	सच्ची, शुद्ध

True copy	सच्ची नकल, शुद्ध प्रतिलिपि
Truncated	यद्वित, छिन्न-भिन्न
Trust	विश्वास करना; विश्वास, न्यास
Trust, breach of	न्यास-भंग, विश्वास-भंग
Trust money	न्यास धन
Trust property	न्यास सम्पत्ति
Trustee	न्यासी
Trustee official	न्यासपाल
Truthfulness	सत्यशोलता, सत्यवादिता
Try	प्रयास करना; विचार करना
Try, to a case	मुकदमे में विचार करना
Try your luck	तकदीर आजमाइश
Trying times	सकट घड़ी
Tuition	शिक्षण
Tuition, private	गृह-शिक्षण
Tuning	समस्वरण
Turbulent	विभूष्य, संक्षुष्य
Turbulent river	संक्षुष्य नदी
Turnout	उत्पादन
Turnover	विक्री, विक्रय धनराशि
Turning point	परावर्तन-विद्यु
Tutelage	संरक्षण
Tutor	उपशिक्षक
Tutorial	उपशैक्षणिक
Twilight	संध्या, साध्य प्रकाश
Twin	जुड़वाँ
Type	टकित करना; टकन
Typical	सामान्य, सार्वलोकिक, विशिष्ट
Typist	टकक
Tyrant	तानाणाह, निरंकुश शासक, प्रजापीड़क

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Table of contents	विषय-सूची
Table of precedence	पूर्वगामिता सारिणी, पूर्वता सारिणी
Tabular form, in	सारिणी रूप में
Tabular method	सारिणी रीति
Tabular statement	सारिणीबद्ध विवरण
Tacit acceptance	मौन स्वीकृति
Tacit assent	मौन अनुमति
Tackle a problem, to	समस्या साधन
Tactful hanling	युक्ति कौशल से कार्य करना, होशियारी के साथ काम करना
—of the strike situation	युक्ति कौशल से हड्डताल-स्थिति पर काढ़ा पाना
Take action against, to	के विरुद्ध कार्यवाही करना
Take advantage of, to	लाभ उठाना
—of one's official position	अपनी पद-स्थिति से लाभ उठाना
Take cognizance	सज्जान लेना, हस्तक्षेप करना
Take effect	प्रभावी होना
Take exception	आपत्ति करना
Take the initiative	सूचनात करना, पहल करना
Take such measures as may be necessary	यथावश्यक उपाय करना
Taxation, exemption from	कर-मुक्ति
Technical error	औपचारिक भूल
Technical objection	प्रावेदिक आपत्ति
Technical qualification	ओप्टोगिक अहंता, तकनीकी अहंता
Technical terms	पारिभाषिक वद
Technical training	शिल्प प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रोटोगिक, प्रशिक्षण
Technical words	पारिभाषिक शब्द

Temperate language	संयत भाषा
Tentative proposal	परीक्षणार्थ प्रस्ताव, अनुभूत्यर्थ प्रस्ताव
Tenure of appointment	नियुक्ति अवधि
Tenure of office, during his	अपनी पदावधि में
Termination of hen	ग्रहणाधिकार (स्थानाधिकार) की समाप्ति
Term and conditions	निवधन और शर्तें
Terms of reference	निर्देश पद, विचारणीय विषय
That is to say,	अर्थात्
The bill take circulated	लोकमत जानने के लिए इस विधेयक को
for eliciting public opinion	परिचालित किया/घुमाया जाय
The bill be referred to a select committee	विधेयक प्रबन्ध नियमिति को भेजा जाय
Then existing	उस समय विद्यमान
Then in force	तब प्रवृत्त
Thereafter	तदनंतर
This is to certify that	यह प्रमाणित किया जाता है कि
Through proper channel	उपरिधिकारी द्वारा, समुचित सारिणी से
Till further orders	अन्य आदेश पर्यन्त, जब तक दूसरे आदेश न दिए जाएँ
Timely information	यथासमय सूचना
Top priority	पूरी योग्यता से
To the best of ability	सर्व प्राप्यम्य/पूर्वता
To the best of belief	पूर्ण विश्वासानुसार
To the effect that	इस आशय का
(Govt. have received complaints to the effect that)	सरकार के पास इस आशय की शिकायत आई है
Transitional period	संक्रमण काल
Treatment of a subject	विषय-प्रतिपादन
True copy	सच्ची प्रति

U

Ultimate	अतिम, चरम, परम
Ultimate cost	अतिम लागत
Ultimate goal	अतिम लक्ष्य
Ultimate objective	अतिम उद्देश्य
Ultimate truth	परम सत्य
Ultimate value	चरम मूल्य
Ultimately	अन्ततः
Ultimatum	अतिम चेतावनी
Ultimo	गत मास का
Proximo	आगामी मास का
Ultra vires	अधिकार बाह्य, अधिकारातीत
Intra vires	अधिकारात्तर्गत
Umpire	निणेता
Unable	असमर्थ
Unaided	बिना सहायता, सहायताहीन
Unanimity	सर्वसम्मति, एकमत
Unanimous	सर्वसम्मति, एकमत
Unanimously	सर्वसम्मति से
Unattested	अप्रमाणित
Unauthorised	अनधिकृत, अप्राधिकृत
Unavailable	अप्राप्य
Unavoidable	अपरिहार्य
Unbailable	अजमानती
Unbalanced	असतुसित
Unbecoming	अशोभनीय
Improper	अनुचित,
Unbiased	अनभिनत,
Unborn	अजात

Uncertain	अनिश्चित
Uncertainty	अनिश्चितता
Uncertified	अप्रमाणित
Unchastity	असतीत्व
Unclaimed	अस्वामिक, लावारिस
Unclassified	अवर्गीकृत
Uncomplied with	अपालित, अननुपालित
Uncomplimentary	निद, अपकोतिकर
Uncompromising	बठल, दृढ़ प्रतिज्ञ, हठधर्मी
Unconditional	विना शर्त, शर्तहीन
Unconscious mind	अचेतन मन
Unconstitutional	असंवेधानिक
Uncontested	निर्विरोध
Undated	अदिनाकित, विना तारीख
Under	अधीन; अल्प, कम
Under age	अल्पवय, कम उम्र
Under consideration	विचाराधीन
Under developed	अल्पविकसित
Under escort	मार्ग रक्षी के साथ
Under examination	परीक्षाधीन
Under graduate	अभिस्नातक
Under ground	भूमिगत, जमीन के नीचे, जमीदोष
Under hand	चालाक, धूर्त; छोरी-छिये
Under law	विधि के अधीन
Underling	मातहत, अधीनस्थ कर्मचारी
Underlying	अन्तनिहित
Under mentioned	निम्नलिखित
Under observation	प्रेक्षणाधीन
Under privileged	पददलित, शोधित
Under protest	सआपत्ति
Under reference	निर्देशाधीन, प्रसगगत, प्रसंगाधीन
Under review	समीक्षाधीन
Under tone	गोणतत्व, प्रच्छल्ल भाव
Under training	प्रशिक्षणाधीन
Under taking	उपक्रम; उत्तरदायित्व; वचन

Under trial prisoner	विचाराधीन वन्दी
Under valuation	अवमूल्यांकन
Appreciation	अधिमूल्यन
Depreciation	अवमूल्यन
Devaluation	अपमूल्यन
Over valuation	अधिमूल्यन
Revaluation	पुनर्मूल्यन
Valuation	मूल्यांकन
Under world	नीच-सार, अपराधी वर्ग
Undesirable	अवाञ्छनीय
Undeveloped	अविकसित
Undetermined	अनिर्धारित
Undignified	अशोभन
Undignified behaviour	अशोभनीय व्यवहार
Undiluted	विशुद्ध
Undisputed	निर्विवाद
Undue	अनुचित, अनावश्यक
Undue advantage	अनुचित लाभ
Undue delay	अनावश्यक विलम्ब
Undue influence	अनुचित प्रभाव
Uneconomic	अलाभकर
Uneconomic holding	अलाभकर जोत
Unemployment	बेरोजगारी
Unencumbered	भार रहित
Unequivocal	स्पष्ट, असंदिग्ध
Uneven	असम
Unexpected	अप्रत्याशित, आकस्मिक
Unfair	अनुचित
Unfavourable	प्रतिकूल, अननुकूल
Unfit	अयोग्य, अनुपयुक्त
Unforeseen	अप्रत्याशित
Unfounded	निराधार
Unfrequented	निर्जन, एकान्त
Unfriendly	अमित्र
Unfriendly country	अमित्र देश

Unfruitful	निफ्कलं
Ungraceful	भ्रहुं वेठंगा
Unheard of	विशुद्ध
Unidentified	अनभिज्ञात
Unified	एकोकृत
Unified scale of pay	एकीकृत वेतमान
Uniform	समान, एकसम, एकरूप; वर्दी
Uniform flow	एक समान प्रवाह
Uniform procedure	समान प्रक्रिया
Uniformity	समानता, एकरूपता
Unilateral	एकपक्षीय
Unimpeachable	अनधिक्षेप्य
Unintelligible	अवोध्य, समझ मे न आने वाला
Unintentional	अनभिप्रेत
Uninterrupted	निरन्तर, अविरत
Union	सम्बन्ध
Unionism	संघवाद
Unique	एकमात्र, अनित्य, अद्वितीय
Unit	एक
Unitary	ऐकिक; एकात्मक
United	सम्युक्त
Universal	सावलोकिक, व्यापक, सर्वमान्य
Universal suffrage	व्यापक मताधिकार
Univocal	एकार्थक
Unjust	अन्यायपूर्ण, अनुचित
Unknown	अज्ञात
Unlawful	विधि विरुद्ध, गैर-कानूनी
Illegal	अवैध
Unlettered	अशिक्षित
Unlimited	असीमित
Unlisted	असूचीनगत
Unlisted candidate	असूचीनगत उम्मीदवार
Unmarried	अविवाहित
Unmistakable	असदिग्ध
Unnatural	बप्राकृतिक

Unnatural offence	अप्राकृतिक अपराध
Unobtrusive	विनीत, विनम्र
Unofficial	प्रशासनीय, मैर-सरकारी
Unopposed	निविरोध
Unpaid	अवैतनिक; अदत्त
Unpalatable	अग्रिय; अस्वादिष्ट
Unparliamentary	अमन्मदीय
Unpleasantness	अग्रियता
Unpremeditated	अचित्तित
Unprincipled	अनंतिक, चरित्रहीन
Unprinted	अमुद्रित
Unproductive	अनुत्पादक
Unprotected	अरक्षित
Unqualified	अनाहं; प्रतिबन्ध रहित
Unquestionable	प्रश्नातीत
Irrefutable	अव्यष्टि, अग्रणीय
Indisputable	अविवाद्य
Unreasonable	अनुचित
Unrecognized	अमान्यता प्राप्त
Unrecorded	अनभिलिप्त, अलिखित
Unredeemable	अमोच्य, अनिष्टेय
Unregulated	अनियमित
Unremunerative	असामनकर
Unrestrained	असंयमित
Unruly	उपद्रवी, उच्छृंखल
Unsafe	अरक्षित; सकटपूर्ण
Unsatisfactory	असतोपजनक
Unseaworthy	नमुद यात्रा के अयोग्य
Unsecured	प्रतिभूति रहित
Unservicable	बेकाम, अनुपयोज्य, अनुपयोगी
Unskilled	अकुशल
Unsophisticated	सरल-स्वभाव, भोला-भाला
Unsolicited	अप्रार्थित, अयाचित
Unsought	अयाचित
Unsound	अस्वस्थ

Unfruitful	निष्क्रिये
Ungraceful	भरुा, वेदंगा
Unheard of	अश्रुतः
Unidentified	अनभिज्ञात
Unified	एकीकृत
Unified scale of pay	एकीकृत वेतमान
Uniform	समान, एकसम, एकरूप; वर्दी
Uniform flow	एक समान प्रवाह
Uniform procedure	समान प्रक्रिया
Uniformity	समानता, एकरूपता
Unilateral	एकपक्षीय
Unimpeachable	अनविरोध्य
Unintelligible	अबोध्य, समझ मे न आने वाला
Unintentional	अनभिप्रते
Uninterrupted	निरन्तर, अविरत
Union	संघ
Unionism	संघवाद
Unique	एकमात्र, भनित्य, अद्वितीय
Unit	एकक
Unitary	ऐकिक; एकात्मक
United	संयुक्त
Universal	सार्वलोकिक, व्यापक, सर्वमान्य
Universal suffrage	व्यापक मताधिकार
Univocal	एकार्थक
Unjust	अन्यायपूर्ण, अनुचित
Unknown	अज्ञात
Unlawful	विधि विरुद्ध, गैर-कानूनी
Illegal	अवैध
Unlettered	अशिक्षित
Unlimited	असीमित
Unlisted	असूचीगत
Unlisted candidate	असूचीगत उम्मीदवार
Unmarried	अविवाहित
Unmistakable	असंदिध्य
Unnatural	अप्राकृतिक

Unnatural offence	अप्राकृतिक अपराध
Unobtrusive	विनीत, विनम्र
Unofficial	अशासकीय, गैर-सरकारी
Unopposed	निविरोध
Unpaid	अवंतनिक; अदत्त
Unpalatable	अप्रिय; अस्वादिष्ट
Unparliamentary	असंसदीय
Unpleasantness	अप्रियता
Unpremeditated	अचित्त
Unprincipled	अनैतिक, चरित्रहीन
Unprinted	अमुद्रित
Unproductive	अनुत्पादक
Unprotected	अरक्षित
Unqualified	अनहं, प्रतिबन्ध रहित
Unquestionable	प्रश्नातीत
Irrefutable	अद्वैट्य, अद्वैटनीय
Indisputable	अविवाद्य
Unreasonable	अनुचित
Unrecognized	अमान्यता प्राप्त
Unrecorded	प्रतिभिलिप्त, अलिप्त
Unredeemable	अमोच्य, अनिश्चेद्य
Unregulated	अनियमित
Unremunerative	अनामकर
Unrestrained	असंबंधित
Unruly	उपद्रवी, उच्छ्रु प्रत
Unsafe	प्रतिशिक्षण; सकटपूर्ण
Unsatisfactory	अननोपवन्ह
Unseaworthy	नमुद यात्रा के प्रयोग्य
Unsecured	प्रतिभूति रहित
Unserviceable	बेकाम, अनुसेवन्य, अनुरक्षणीय
Unskilled	प्रायः जन
UnSophisticated	गरन-व्यभाव, भावा-भावा
Unsolicited	प्रदायन, प्राप्ति
Unsought	प्राप्ति
Unsound	अस्वस्थ

Unspecified	अनिर्दिष्ट
Unstable	अस्थायी, अस्थिर
Untenable	असमर्यनीय, अपुष्ट
Untoward incident	प्रतिकूल घटना
Unusual	असाधारण
Unwary	वेष्यवर, वचेत असाक्षात्
Unwieldy	भारी-भरकम, दुर्बंह
Unwritten	अलिखित
Unworkable	अव्यवहार्य
Upgrade	उन्नत करना, पदोन्नत करना
Upgrading	उन्नयन
Upheaval	क्राति, कायापलट, उथल-गुथल
Uphold	समर्यन करना, स्थिर रखना, बरकरा रखना
Uplift	उत्थान
Upper	उच्च, उपरि
Upper age limit	उपरि वासु-सीमा
Upper class	उच्च श्रेणी
Upright	सीधी, न्याय-युक्त
Uprising	विद्रोह
Up to date	अद्यावधिक, नवीनतम
Urban	नगर
Urge	प्रेरित करना, आग्रह करना; प्रेरणा
Urgency	जविलम्बता
Urgent	आवश्यक, तुरत
Usage	प्रथा, चलन, रूढि
Useful	उपयोगी, लाभदायक
Advantageous	लाभकर
Beneficial	हितकर
Usual	सामान्य
Usually	सामान्यतः
Usufructuary	उपभोगकर्ता
Usurer	सूदखोर
Usurp	हड्डपता, अधिकार प्रहण करना
Usury	सूदखोरी

Utilitarian
Utility
Utilization
Utopia

उपयोगी, व्यावहारिक, प्रियातमक
उपयोगिता
उपयोग
काल्पनिक समाज/राज्य

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Unauthorised use
Unavoidable delay
Under certificate of posting
Under consideration
Under his hand and seal
Under intimation to this office
Under reference
Under the supervision of
Unforeseen circumstances
Uniform increase
Uniformity in procedure
Unlawful assembly
Unless the context otherwise provides
Unless otherwise provided
Unless there be something repugnant in the subject
Unremunerative scheme
Until further orders
Until provision in that behalf is made by or under an act

अप्राधिकृत उपयोग/उपयोग
अपरिहायें विलम्ब
दाक-प्रमाणिन
विचाराधीन
अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से
इस कार्यालय को मूल्यना देते हुए
प्रसंगगत, निर्देशाधीन
के पर्यावरण (निगरानी) में
अनपेक्षित परिस्थितियाँ
समाज वृद्धि
प्रतियोगी में एक समाज नहीं
अपेक्षा नभा
जब तक प्रमाण ने अन्यथा अधिकार नहीं

जब तक कि अन्यथा उपयोगिता न हो
जब तक विषय में कोई यात्रा प्रारंभित
न हो
अनाभक्तारी योद्धना
दूसरे आदेश मिलने तक
जब तक इसी प्रणितिक्रम के द्वारा
या प्रधान उनके लिए उपयोग नहीं
दायर नहीं

V

Vacancy	रिक्ति, रिक्त स्थान
Vacancy, leave	छुट्टी-रिक्ति
Vacant	रिक्त
Vacant post	रिक्त पद
Vacate	खाली करना, रिक्त करना
Vacation	दीर्घ अवकाश; खाली/रिक्त करना
Vacation of aggression	आक्रमण-रिक्ति
Vacation of office	पद-रिक्ति
Vacillating policy	दुलमुल नीति
Vacuum	शून्यक
Vagabond	भावारा
Vagrancy	भावारामर्दी
Vagrant	भावारा
Vague	अस्पष्ट
Valid	मान्य, युक्तिसंगत, विधिमान्य
Validate	विधिमान्य करना
Validation	मान्यकरण
Validity	मान्यता
Valley	घाटी
Value	मूल्य
Value, above par	अधिमूल्य
Value, below par	अवमूल्य;
Value, par	सममूल्य
Values, intrinsic	आन्तरिक मूल्य
Valuation	मूल्यांकन
Vanish	गायब होना
Vanity	मिथ्याभिमान
Vanquish	परास्त करना

Vaporisation	वाप्सीकरण
Variability	परिवर्तनशीलता
Variation	विभिन्नता
Variable	अस्थिर
Varied	विभिन्न
Variety	विविधता, अन्तर, घट-बढ़
Variety, early	शीघ्र पकने वाली किस्म
Variety, high yielding	अधिक पैदावार वाली किस्म
Variety, late	पिछेती किस्म
Variety, show	विविध मनोरजन प्रदर्शन
Vegetarian	शाकाहारी, निरामिय
Ventilation	सवातन
Venue	स्थान, स्थल
Verification	सत्यापन
Verification of age	आयु सत्यापन
Verification of antecedents	पूर्ववृत्त का सत्यापन
Verification of store	भण्डार का सत्यापन
Verifier	सत्यापक
Verify	सत्यापित करना
Corroborate	संपुष्टि करना
Confirm	पुष्टि करना
Authenticate	प्रमाणीकृत करना
Substantiate	अभिपुष्टि करना
Version	संस्करण, रूपातर; पाठ, अनुवाद
Versus	बनाम, विरुद्ध
Vessel	जलयान; बर्तन
Vessel in distress	पोत/जलयान सकट में
Vested	निहित
Vested interest	निहित स्मार्य, हित
Vestige	लुप्तायसेय, अवशेष
Veteran	अनुभवी, पुराना; सेयानिवृत्त सेनिक
Veterinary	पशु-चिकित्सा
Veto	नियोगाधिकार
Vetting	परिमार्जन
Vex	तंग करना

Via	से होकर
Vice	दुर्गुण, उप-
Vice chancellor	उप-कुलपति
Vice principal	उप-प्रधानाचार्य
Vice versa	विपरीत कम से, विपर्य से
Vide	देखिये
View	दृष्टि, दृश्य
View, in-of	को दृष्टि ने
View point	दृष्टिकोण
Viewer	प्रेदक
Vigilance	सतर्कता, चोकसी
Vigilant	सतकं
Careful	मावधान
Vigorous	कठोर, प्रबल
Vigours	कठोरताएँ
Vigours of climate	जलवायु की कठोरताएँ
Vile	चरित्रहीन, कमीना
Village	गांव, पाम
Village uplift	ग्रामोत्थान
Villian	खलनायक, खल
Vindicate	निर्दोष सिद्ध करना, प्रतिसमर्थन करना
Vindictive	प्रतिशोधात्मक
Violate	अतिक्रमण करना
Breach	भग करना
Trespass	भनधिकार प्रवेश करना
Violence	हिसा
Violent	हिसात्मक; तीव्र
Violent reaction	तीव्र प्रक्रिया
Virgin land	भक्षत भूमि, अजोती भूमि
Virtual	आभासी, कल्पित
Virtue	सद्गुण
Virtuous	सद्गुणी
Virus	विषाणु
Visa	बीजा; प्रवेश-पत्र
Passport	पारपत्र

Vis-a-vis	के सामने, की तुलना में
Visibility	दृश्यता
Visibility, clear	स्पष्ट दृश्यता
Visibility, good	मुदृश्यता
Visibility, poor	कम दृश्यता
Visit	आगमन, निरीक्षण; भेट
Visit, formal	अनौपचारिक आगमन
Visit, informal	औपचारिक आगमन
Visit, private	व्यक्तिगत आगमन
Visit, surprise	आकस्मिक निरीक्षण
Visiting hours	मिलने का समय
Visiting professor	अतिथि प्राध्यापक
Visitor	मुलाकाती, दर्शक; आगन्तुक, अभ्यागत
guest	अतिथि
Visitors' book	आगन्तुक पुस्तिका
Vista	दृश्य, परिदृश्य
Visual	दृश्य
Visual inspection	दूष्टिक निरीक्षण
Vital	जीवनोपयोगी; महत्वपूर्ण, आवश्यक
Vital industries	महत्वपूर्ण उद्योग
Vital interest	मार्मिक हित
Vitality	जीवनी शक्ति, ओज, तेजस्विता
Vital question	महत्वपूर्ण प्रश्न
Vital part	मर्म स्थल
Vital statistics	जीवन-मरण अंकड़े, जीव संबंधी अंकड़े
Vitiate	प्रदूषित करना; निष्फल करना
Vitiate air	प्रदूषित वायु
Vituperation	निन्दन, दुर्वचन, अपशब्द
Vivacious	जिन्दादिल, सजीव
Viva voce	मौखिक परीक्षा
Vivid	स्पष्ट, विशद
Vivid description	स्पष्ट विवरण
Vocabulary	शब्दावली
Vocation	व्यवसाय
Vocational	व्यावसायिक
Vocational education	व्यावसायिक शिक्षा

Vocalist	गायक
Voice	आवाज, स्वर; व्यक्त करना
Voice test	स्वर-परीक्षण
Void	निष्प्रभाव, प्रभावहीन; शून्य
Volume	आयतन; मात्रा, परिमाण; घण्ड, जिल्हा
Volcano	ज्वालामुखी
Voluminous	विस्तृत; भारी
Voluntarily	स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छा में
Voluntary	स्वैच्छिक, ऐच्छिक
Optional	वैकल्पिक
Voluntary action	ऐच्छिक क्रिया
Volunteer	स्वयंसेवक
Votable	मतदेय
Vote	मत
Vote, casting	निर्णायक मत
Vote of censure	निन्दा प्रस्ताव
Vote of no confidence	अविश्वास का प्रस्ताव
Vote on account	लेखानुदान पर स्वीकृति
Voted	मत प्राप्त
Voted grant	मत प्राप्त अनुदान
Voucher	बाउचर, प्रमाणक
Vow	प्रत, शपथ
Vowel	स्वर
Voyage	समुद्र-यात्रा
Vulgar	अशिष्ट
Vulnerable	भेद्य
Vulnerable area	मर्म क्षेत्र
Vulnerable point	मर्मस्थल, भेद्य स्थान

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Vacant post	रिक्त पद
Vague objection	अस्पष्ट आपत्तियाँ
Valid reasons	वैध कारण
Validity of passport	पार-पत्र की मान्यता
Variance, is at	असामंजस्य है
Variety of subjects	विभिन्न विषय
Variety programme	विविध कार्यक्रम
Varying degrees, in	न्यूनाधिक मात्रा में
Venue of meeting	वैठक-स्थल
Verbal alteration	शब्दिक परिवर्तन
Verbal orders	मौखिक आदेश
Verdict, general	सामान्य सनिश्चय
Verification of accounts	लेखा-सत्यापन
—of antecedents	प्रागृत्ति की जाँच का सत्यापन
Vested interest	निहित स्वार्थ
Vesting order	विधायी आदेश
Vide letter no...	पत्र सं...देखिए
View	
from his point of view	उसके दृष्टिकोण से
Violation of law	विधि का अतिक्रमण/उल्लंघन
Virtue of, by	के आधार पर
Virulent epidemic	प्रचण्ड व्यापक रोग/संकामक रोग
Visual education	दर्शकीय शिक्षा, दृश्य-शिक्षा
Vogue, in	प्रचलित
Void and of no effect	शून्य और निष्प्रभावी
Voluminous enclosures	भारी सहपत्र
Voluntary contribution	स्वेच्छिक दंदा, भजदान
Volunteers on duty	कर्तव्यस्थ स्वयंसेवक
Vote by secret ballot	गूढ़ भास्तवा का द्वारा मतदान
Vote by proxy	प्रतिपुरुष मतदान
Vouch for corrections	मुद्दियों के तिए दावी होना

W

Wager	वाजी, पण
Wages	मजदूरी, पारिथ्यमिक
Wages, cut	मजदूरी कटौती
Wages, fair	उचित मजदूरी
Wages, fluctuation	मजदूरी उतार-चढ़ाव
Wages living	निवाह मजदूरी
Wages, nominal	नाममात्र मजदूरी
Waiting	प्रतीक्षा
Waiting list	प्रतीक्षा-सूची, प्रत्याशी-सूची
Waiting period	प्रतीक्षा काल
Waitress	परिवेषिका
Waive	छोड़ देना; अभियाग
Waive recovery	वसूली छोड़ देना
Wandering	ध्रमण, मटरगस्ती
Wanderlust	ध्रमण-लालसा
Want	बभाव
Want of evidence	साइयायाभाव
Want, insatiable	अतृप्य आवश्यकताएँ
Want, statiable	तृप्य आवश्यकताएँ
Want, satisfaction of	आवश्यकताओं की पूर्ति
Wanton	अनियंत्रित
War	युद्ध
War, civil	गृह-युद्ध
War, cloud	युद्ध की आशंका
War crime	युद्ध अपराध
War damages	युद्ध-क्षतिपूर्ति, युद्ध-हरजाना
War, international	अंतर्राष्ट्रीय युद्ध
War risk	युद्ध-जोखिम

War service	युद्ध सेवा
Ware house	भाण्डागार
Godown	गोदाम
Store house	संग्रहागार
Wares	भाण्डा
Warfare	युद्ध
Warn	चेतावनी देना
Warning	चेतावनी
Warning sign	चेतावनी संकेत
Warrant	अधिपत्र, वारण्ट
Warrant of appointment	नियुक्ति अधिपत्र
Warrant of arrest	गिरफ्तारी का वारण्ट
Warrant of distress	अभिहरण अधिपत्र
Warrant of precedence	पूर्वता अधिपत्र
Warrant of recovery	वसूली का अधिपत्र
Warranty	वारटी, समाश्वासन
Warranty, express	अभिव्यक्त वारटी
Warranty implied	निहित वारटी
War ship	जंगी जहाज
Wary	चौकन्ना, खबरदार, सतर्क
Washings	धोवन
Wastage	हानि, क्षय, छोजन
Wastefulness	अपव्यय
Waste	निरर्थक, रही; क्षय, अपव्यय
Waste land	बजर
Waste paper	रही कागज
Waste product	उत्सर्जित पदार्थ
Watch	पहरा, निगरानी
Watch and ward	पहरा चौकी
Watch man	प्रहरी, चौकीदार
Watch word	संकेत शब्द
Water	जल
Water course	जल मार्ग
Water mark	जलतल चिह्न
Water supply	जल-व्यवस्था

Water underground	भूमिगत/आन्तर्रीम जल
Water way	जल-मार्ग
Water works	जल-कल
Water tight	जलरोधी, जल-रोक
Wave	तरण
Wave length	तरंग-सम्बाई
Way	उपाय
Method	विधि, तरीका
Mode	रीति, प्रणाली
Procedure	प्रक्रिया
Waybill	यात्री-नूची, मार्ग-पत्रक, खन्ना
Ways and means	उपाय और साधन, अर्थोपाय
Wayward	निरंकुश; झक्की
Wealth	धन
Wealth, hoarded	सचित धन
Wealth underground	आन्तर्रीम सम्पत्ति
Weapon	हथियार, शस्त्र
Weather	मौसम, ऋतु
Weather sultry	उमस
Wear and tear	टूट-फूट, पिसाई
Weariness	कलाति; यकावट
Weeder	निर्दाता
Weeding	निर्दाति
Weekly	साप्ताहिक
Weekly return	साप्ताहिक विवरण
Weight	भार
Welcome	स्वागत
Welcome, address of	अभिनन्दन-पत्र
Welfare	कल्याण
Welfare centre	कल्याण-केन्द्र
Welfare state	कल्याणकारी राज्य
Well being	कल्याण
Well substantiated	सुप्रमाणित
Wharf	घाट
Wharfage	घाट भाड़ा

Whereabouts	पता, ठिकाना
Whip	सचेतक; कोड़ा
Whirlpool	भैंदर, आवतं
White paper	श्वेत पत्र
Whole	पूर्ण
Whole number	पूर्णांक
Whole time	पूर्णकालिक
Wholesale	घोक
Wholesaler	घोक विक्रेता
Wholesome	स्वास्थ्यप्रद
Salutary	स्वास्थ्यवर्धक
Healthy	स्वस्थ
Wholly	पूर्णतः
Wild life	वन्य जीव
Wilderness	उजाड़, बंगर; अरण्य रोदन (voice in-)
Wildgoose chase	निरर्थक परिश्रम, व्यर्थ का उद्योग
Wing	भवन का पार्श्व; उप-विभाग, पंख
Wilful	जानवूलकर
Intentional	सामिप्राय
Wilful neglect	जानवूलकर उपेक्षा
Wilfully	स्वेच्छापूर्वक; जानवूलकर
Will	इच्छा-पथ, वसीयतनामा
Will power	सकल्प-शक्ति
Willy-nilly	ख्याहमख्याह, जवरदस्ती
Wind-up	समापन, समाप्त करना, समेटना
Liquidation	परिसमापन
Wipe out	सफाया करना
Wishful thinking	इच्छाजनित विश्वास/धारणा
With	से, साथ, सहित
With a view to	की दृष्टि से
With compliments	सादर, सामिवादन
With effect from	-से
With immediate effect	तत्काल
With kind regards	सप्रेम, स्नेह
With priority	पूर्वता/अग्रता के साथ

With reference to	के सम्बन्ध में, के निर्देश में
With respects	सादर
With respect to	के सम्बन्ध में
With retrospective effect	पूर्वगामी प्रभाव के साथ, पहले से परिणामस्वरूप, फलतः
With the result	वापस लेना, निकालना
Withdraw	वापस लेना; निकासी, प्रत्याहरण
Withdrawl	रोक लेना
Withhold	अधिक्षेत्राधीन
Within jurisdiction	निश्चित रूप से
Without fail	विना प्रतिकूल प्रभाव डाले
Without prejudice to	साक्षी, गवाह
Witness	इस बात का साक्षी है कि
Witnesseth that	प्रथा, दस्तूर; अभ्यास, आदत
Wont	शब्द
Word	शब्द-प्रवाह
Word fluency	शब्द-शर्प
Word meaning	शब्दिका
Wordy	शब्दिक जग
Wordy warfare	कार्य
Work	कारिन्दा
Work agent	कार्य-दिवस
Work day	कार्य प्रभारित अधिष्ठान
Work charged establishment	मोहताजखाना
Work house	कार्य-भार
Work load	कलाकृति
Work of art	कार्य आदेश
Work order	कार्यकर्ता, कर्मी
Worker	कार्यकारी; कार्य-प्रणाली
Working	चालू, परिसम्पत्ति
Working assets	चालू पूँजी
Working capital	कार्यकारणी समिति
Working committee	कार्य-दिवस
Working day	कार्य-सम्पादन व्यय
Working expenses	कार्यकर मूल
Working formula	

Working group	कार्यकारी दल
Working hours	काम के पटे
Working knowledge	व्यावहारिक ज्ञान
Working language	व्यवहार भाषा
Working order	चालू हालत
Working partner	सक्रिय साझेदार
Working plan	कार्य-योजना
Works	निर्माण कार्य; निर्माण
Works, major	बहुत कार्य
Works, minor	लघु कार्य
Works outlay	निर्माण परिव्यय
Works, public	सार्वजनिक निर्माण कार्य
Works, petty	छोटे-मोटे कार्य
Works priorities	काम-अग्रता
Work schedule	कार्य-अनुसूची
Work site	मौका, स्थल
World	सासार
World forum	विश्व न्यायसभा
World order	विश्व व्यवस्था
World organisation	विश्व संगठन
World war	विश्वयुद्ध
Worldliness	लौकिकता
Worship	पूजा
Worship, hero	बीर-पूजा
Worth	अर्हा
Merit	मुण्डोप
Write off	बटे खाते ढालना, अपलेखन
Writ	विधि प्रादेश, रिट
Writ of certiorari	उत्प्रेपण लेख
Writ of mandamus	परमादेश
Written	लिखित
Written evidence	लिखित साक्ष्य
Written statement	लिखित कथन
Wrong	अनुचित; गलत, अशुद्ध, अपकार
Wrong, moral	नीतिक अपकार

Wronged state	अपकारित राज्य
Wrongful	सदोप, सापकार, दोषपूर्ण
Wrong confinement	न्याय विरुद्ध/अनुचित बन्दीकरण
Wrong detention	न्याय विशद्ध नजरवन्दी

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Waiting list	प्रतीक्षा-सूची
Waive recovery (the recovery of the loan was waived)	वसूली न करना, वसूली छोड़ देना (ऋण की वसूली छोड़ दी गई)
Want of funds	निधि का अभाव
Want of means of livelihood	निर्वाह के साधनों का अभाव
Warrant of detention	निरोध-अधिपत्र
Warrant of precedence	पूर्वता-अधिपत्र
Watch and ward	रक्षा, प्रहरी, पहरा एवं रक्षा
Wear and tear	टूट-फूट, चिसाई
Well-being	कल्याण
When required	अपेक्षानुसार, जब आवश्यक हो
Whichever in earlier	जो भी पहले हो
Whole time servant	पूर्णकाल-सेवक
Wholly illegal	पूर्णतः अवैध
Wholly or partly	पूर्णतः अथवा अशातः
Wilful neglect	जानवृक्ष कर उपेक्षा
With compliments of	समादरेण, सादर
With costs	परिव्यय सहित
With due regard	का सम्यक् ध्यान रखते हुए, अवेक्षा- पूर्वक
With reference to	के संबंध में, के संदर्भ में
With retrospective effect	अनुदर्शी प्रभाव, पश्चाद्दर्शी प्रभाव
With the approval of	वे अनुमोदन से
With concurrence of	की सहमति से
With the previous consent of	की पूर्व सम्मति से
With the remark that	इस अभ्युक्ति के साथ कि

With hold consent	सम्मति न देना
With holding of increment	वैतन-वृद्धि रोकना
Within a reasonable time	यथोचित समय के भीतर
Within the discretion of	के विवेकाधीन
Within the jurisdiction	के क्षेत्राधिकार में
Within the meaning of this rule	इन नियम के अर्थान्तरगत
Without any reference	के बिना निर्देश किए हुए
Without assigning any reason	कोई कारण दिए बिना
Without delay	अविलम्ब
Without distinction	बिना भेदभाव के
Without permission	अनुज्ञा के बिना
Without prejudice to the generally	की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
Words and figures	शब्द और अंक
Work in hand	हस्तगत कार्य
Wrongful confinement	अन्याय निरोध, अवैध निरोध
Wrongful seizure	अन्याय अभियहण, नाजायज उल्लंघन

X

X-ray	एक्स-रे
X-ray apparatus	एक्स-रे यंत्र
X-ray assistant	एक्स-रे सहायक
X-ray centre	एक्स-रे केन्द्र
X-ray department	एक्स-रे विभाग
X-ray technician	एक्स-रे तकनीशयन

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

X-ray examination	क्षय-रसिम परीक्षा, एक्स-रे परीक्षा
--------------------------	------------------------------------

Y

Yacht	क्रोड़ा नौका, याट
Yard	गज; यार्ड, अहाता, बाड़ा
Yarn	सूत
Year	वर्ष
Year, academic	शिक्षा वर्ष
Yearly	वार्षिक
Yearn	लालायित होना, तरसना
Yeoman's service	गाढ़े में सहायता
Yield	उपज, उत्पाद, पैदावार
Yield, gross	कुल उपज
Yield, marginal	सीमान्त उपज
Youth	यौवन
Youthful	युवा, किशोर
Yours faithfully	भवदीय
Yours respectfully	विनीत
Yours sincerely	आपका, भवदीय

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Year ending	को समाप्त होने वाले वर्ष
Year to year	वर्षानुवर्ष
Year under report	आलोच्य वर्ष, प्रतिवेदित वर्ष
Year Excellency	महामहिम, परम श्रेष्ठ
Yours faithfully	भवदीय
Yours sincerely	आपका; सदृभावो, भवदीय

Z

Zeal	उत्साह, जोश; धर्मोत्साह
Zealot	कटूरपंथी, कटूर समर्थक
Zealous	उत्साही, जीशीला; धर्मोत्साही
Zero hour	आक्रमण वेला
Zero possession	शून्य स्थिति
Zone	परिक्षेत्र
Zoology	प्राणिशास्त्र
Zoological garden	पाणिशास्त्रीय उद्यान, चिड़ियाघर
Zoone	तेजी से उड़ना, गरजते हुए उड़ना

सामान्य प्रयोग के अंग्रेजी वाक्यांश के हिन्दी पर्याय

Zeal	उत्साह
to do work zeal	उत्साह से कार्य करना
Zero hour	आक्रमण वेला



藏文大藏经

महाराजा के द्वारा उनकी विवाह संस्कार के प्रतीक दर्शन
प्रदान किया गया है। इसके बाहर
विवाह के अन्तर्गत दर्शन दिया गया है। इसके बाहर
के अन्तर्गत दर्शन दिया गया है। इसके बाहर
के अन्तर्गत दर्शन दिया गया है।

1924 में विद्युत के लिए

१०८ विष्णु वंश के अधिकारी विष्णुवंशीय वंशजों का विष्णु